

प्रातः किरण

हर खबर पर पकड़

f /Pratahkiran

/Pratahkiran

/Pratahkiran

11 रोहित शर्मा का करियर बहुत लंबा होने वाला है ...

यूक्रेन के चार मंत्री बर्खास्त, विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पहले ही दे चुके ... 12

वर्ष : 12 | अंक : 146 | पटना, शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 | विक्रम संवत् 2081 | पेज : 12 | मूल्य ₹ : 03.00 | www.pratahkiran.com

मौसम अधिकतम तापमान 31°C न्यूनतम तापमान 26.0°C

हा नहीं कह नहीं सकते

30% 50% 10%

बाजार

सोना 71,105

चांदी 91,700

संसेक्स 78,886

निफ्टी 24,117

संक्षिप्त खबरें

राष्ट्रपति मुर्मू ने 50 शिक्षकों को किया सम्मानित

नई दिल्ली | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवार को विमान भवन में आयोजित समारोह में 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2024 प्रदान किया। श्रीमती मुर्मू ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार, रजत पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किये। गौरतलब है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया। इन शिक्षकों में 28 राज्यों, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और छह संगठनों के शिक्षक शामिल हैं। इनमें 34 पुरुष, 16 महिलाएं, दो दिव्यांग और एक दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षक हैं। इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग के 16 शिक्षक और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने हरितालिका तीज के अवसर पर दी बधाई

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरितालिका तीज के अवसर पर बिहारवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरितालिका तीज के अवसर पर सुहागन रिश्यां अपने पति की रक्षा के लिये उपवास करती हैं और उनके सुखद जीवन की कामना के लिये पूजा-अर्चना करती हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की है।

सीएम ने भूपूर्क राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण को किया नमन

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूपूर्क राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। सीएम ने कहा है कि आज के दिन को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। समाज एवम् राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं सभी शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देश की भावी पीढ़ी को इस तरह तैयार करें कि उनके मन में देश प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का भावना विकसित हो तथा वे अपनी योग्यता, ज्ञान एवं व्यक्तित्व के सहारे देश का नाम उज्वल करें।

भारत हरित भविष्य के लिए दुनिया के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध : मोदी

प्रातः किरण

सिंगापुर/नई दिल्ली/एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को प्रथम अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव के लिये दुनिया के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्व से ऐसे उपाय शुरू करने का आह्वान किया, जिससे पृथ्वी को अधिक हरित ग्रह बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का स्वागत किया और इस अद्भुत पहल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है।



यह एक ऐसा मौका है जो हमें एक बेहतर ग्रह बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। हम नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने वाले पहले जी-20 राष्ट्र थे। सौर ऊर्जा की उल्लेखनीय वृद्धि इसे संभव बनाने में एक प्रमुख कारण है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता

32 गुना बढ़ गई है। यह गति और पैमाना हमें 2030 तक पांच सौ (500) गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इस योजना में 750 बिलियन रुपये का निवेश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 10 बिलियन परिवारों को अपनी

छत पर सौर पैनल लगाने में मदद करना है। हम लोगों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता हस्तांतरित कर रहे हैं। अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता होने पर कम व्याज, संपारिविक मुक्त ऋण भी सक्षम किए जा रहे हैं। अब, ये घर अपनी जरूरतों के लिए स्वच्छ बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा, वे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने भोजपुर में कई विकाससात्मक योजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

भोजपुर राजकीय अस्पताल का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2025 से पहले करें पूरा : नीतीश

सीएम ने निर्माणाधीन राजकीय अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए निर्देश



प्रातः किरण

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को भोजपुर जिले के जीरो माइल में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने मास्टर प्लान के जरिए निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल का भवन भूकंपरोधी बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राजकीय अस्पताल का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2025 से पहले पूर्ण करें। अधिकारी निर्माण कार्य की सतत निगरानी करते रहें ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो सके इस अस्पताल का निर्माण पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को चिकित्सकीय सेवा में और सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने भोजपुर जिला में कुल 41 करोड़ 63 लाख 86 हजार रुपये की योजनाओं का उद्घाटन किया तथा 62 करोड़ 66 लाख 57 हजार 650 रुपये की योजनाओं को शिलान्यास किया।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने बड़हरा प्रखंड के बखोरापुर में राजकीय बुनियादी 10+2 विद्यालय का उद्घाटन किया और निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में सेना के चार कर्मियों की मौत

के 105 लाशुकों को चाभी प्रदान किया। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 600 लाशुकों को 1 करोड़ 84 लाख 36 हजार रुपये की राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के 8 लाशुकों को, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के 110 लाशुकों को सांकेतिक चेक तथा 1020 भूमिहीनों को पचां वितरण किया गया। बिहार लघु उद्यमी योजना के प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 5 लाशुकों को द्वितीय किस्त की राशि का चेक प्रदान किया गया साथ ही मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाशुकों को भी मुख्यमंत्री ने

सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने जय मां काली बखोरापुरवाली माता का दर्शन किया और पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

ये रहे मौजूद : कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा सहित अन्य जनयतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, महानिदेशक

सीएम ने बखोरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने बखोरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बखोरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अच्छा बना है। यहां सारी व्यवस्थाओं को इसी तरह बनाए रखें ताकि मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री ने आदर्श ग्राम पंचायत सरकार भवन बखोरापुर का शिलान्यास अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया और नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने 6.52 करोड़ रुपये की लागत से भोजपुर जिला में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन सहित कुल 12 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उक्तमि उच्च माध्यमिक विद्यालय शालीग्रामसिंह का टोला, उक्तमि उच्च माध्यमिक विद्यालय केशोपुर बकरी, उक्तमि उच्च माध्यमिक विद्यालय जंगलदाबा, उक्तमि उच्च माध्यमिक विद्यालय लालू के डेरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अणियांवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गड़हनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोईलवर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अजीमाबाद किरकिरी, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर इचरी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वेरुई, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर महुआं तथा शैल्या वाले प्री-फेब फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने खासपुर थाना भवन एवं आउट हाउस तथा बबुवा थाना भवन एवं आउट हाउस के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आरा मुफ्तिस्तल थाना, आरा नवादा थाना, आरा नगर थाना, कोईलवर थाना, बड़हरा थाना, जगदीशपुर थाना, पीरो थाना, अजीमाबाद थाना, उदवंतनगर थाना एवं शाहपुर थाना में 20 सीटेंड महिला बैटक के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भोजपुर का शिलान्यास किया।

सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुप कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे, शाहाबाद प्रखंड के पुलिस उपमहानिरीक्षक नवीन चंद्र झा, भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुप कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे, शाहाबाद प्रखंड के पुलिस उपमहानिरीक्षक नवीन चंद्र झा, भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुप कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे, शाहाबाद प्रखंड के पुलिस उपमहानिरीक्षक नवीन चंद्र झा, भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति के शी मोदी ने कहा कि सिंगापुर में रहने वाले 3.5 लाख भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिन्द फौज और लिटिल इंडिया को सिंगापुर में जो स्थान और सम्मान मिला है उसके लिए हम पूरे सिंगापुर के सदा आभारी हैं। 2025 में हमारे संबंधों के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको धूमधाम से मनाने के लिए दोनों देशों में एक कार्यक्रम के बाने के लिए काम किया जाना चाहिए।


सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्वल भुइया की पीठ ने याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वी राजू की घंटों दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखने का फैसला किया। पीठ के

समक्ष सुनवाई के दौरान श्री राजू ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने की दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि विशेष अदालत के दृष्टिकोण से संबंधित केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। इस पर श्री केजरीवाल पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी ने कहा

कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत आरोपी को नोटिस जारी करने के संबंध में वर्तमान याचिका में उठाए गए आधारां पर हिरासत के दौरान बहस की गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता को फिर से उसी मुद्दे पर वहां बहस करने के लिए वापस भेजना न्यायोचित नहीं होगा।

भारत व सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर साड़ीदारी, डिजिटल टेक सहित 4 एमओयू पर हस्ताक्षर

प्रातः किरण



प्रातः किरण

सिंगापुर/नई दिल्ली/एजेंसी। भारत और सिंगापुर ने गुरुवार को अपनी रणनीतिक साड़ीदारी को समग्र रणनीतिक साड़ीदारी का रूप देने के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये जिनसे दोनों देशों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साड़ीदारी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन समझौतों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया गया। इससे पहले श्री लॉरेंस वोंग की मौजूदगी में सिंगापुर की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने प्रतिनिधिमंडल

स्तर की बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साड़ीदारी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने वाले चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। बैठक के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सिंगापुर केवल एक साड़ीदार देश नहीं है। सिंगापुर, हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं। यह खुशी की बात है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मित्रस्त्रीय राउंडटेबल बनी है, वो एक अनूठी प्रणाली है। कौशल विकास, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी,

एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे, सेमीकंडक्टर और आर्टफीशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, सातत्य, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में पहलों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, सिंगापुर हमारी एक ईस्ट नीति का अहम सूत्रधार भी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे सिंगापुर आने का अवसर मिला है। हमारी रणनीतिक साड़ीदारी का एक दशक पूरा हो रहा है। पिछले दस वर्षों में हमारा व्यापार लागभग दोगुना से भी अधिक हो गया है। आपसी निवेश लगभग तीन गुना बढ़ कर 150 अरब डॉलर पार कर गया है। सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने युपीआई की व्यक्तियों के बीच भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया था। पिछले दस वर्षों में

सिंगापुर के 17 सेटलाइट, भारत से प्रक्षेपित किये गये हैं। कौशल विकास से लेकर रक्षा क्षेत्र तक हमारे सहयोग में गति आई है। सिंगापुर एयरलाइन्स और एयर इंडिया के बीच हुए समझौते से कनेक्टिविटी को बढ़ा मिला है। मुझे खुशी है कि आज हम मिलकर, अपने संबंधों को समग्र रणनीतिक साड़ीदारी का रूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर में रहने वाले 3.5 लाख भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिन्द फौज और लिटिल इंडिया को सिंगापुर में जो स्थान और सम्मान मिला है उसके लिए हम पूरे सिंगापुर के सदा आभारी हैं। 2025 में हमारे संबंधों के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको धूमधाम से मनाने के लिए दोनों देशों में एक कार्यक्रम के बाने के लिए काम किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था के बुनियादी चालक गति पकड़ रहे हैं, भारत सतत वृद्धि के पथ पर : दास

मुंबई/एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिचान्त दास ने अर्थव्यवस्था के बुनियादी चालक गति पकड़ रहे हैं और देश सतत वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एफआईबीएसी 2024 के उद्घाटन भाषण में गवर्नर ने कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा बाजारों में व्यापक पर बदलाव हो रहे हैं। दास ने कहा, उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हमारे देश की यात्रा को कई कारकों के अनूठे मिश्रण से बल मिल रहा है। इन कारकों में युवा व ऊर्जवी आबादी, जुड़ाव व विश्वीय अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और उद्यमशीलता व नवाचार की समृद्ध परंपरा शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की वृद्धि गाथा अक्षुण्ण है और बैंकों का बहीखाता मजबूत है। दास ने निजी क्षेत्र से व्यापक

सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गवर्नर ने कुल मुद्रास्फीति के मायने स्वीकार करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति तथा वृद्धि के बीच सही संतुलन कायम है। उन्होंने कहा कि बेहतर मानसूत तथा श्रुफ की अच्छी बुवाई से खाद्य मुद्रास्फीति का परिस्थय अधिक अनुकूल हो सकता है। दास ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मंच तक पहुंच बढ़ाना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने जोडिधम धारण मानकों को कमजोर किए बिना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम के अनुरूप उत्पाद तथा सेवाएं पेश करने की भी वकालत की। दास ने कहा कि विवेकपूर्ण ऋण सुनिश्चित करने के लिए यूनिकाइड लेंडिंग इंटरफेस मंच पर केवल विनियमित संस्थाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गवर्नर ने कुल मुद्रास्फीति के मायने स्वीकार करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति तथा वृद्धि के बीच सही संतुलन कायम है। उन्होंने कहा कि बेहतर मानसूत तथा श्रुफ की अच्छी बुवाई से खाद्य मुद्रास्फीति का परिस्थय अधिक अनुकूल हो सकता है। दास ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मंच तक पहुंच बढ़ाना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने जोडिधम धारण मानकों को कमजोर किए बिना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम के अनुरूप उत्पाद तथा सेवाएं पेश करने की भी वकालत की। दास ने कहा कि विवेकपूर्ण ऋण सुनिश्चित करने के लिए यूनिकाइड लेंडिंग इंटरफेस मंच पर केवल विनियमित संस्थाओं को ही अनुमति दी जाएगी।



सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गवर्नर ने कुल मुद्रास्फीति के मायने स्वीकार करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति तथा वृद्धि के बीच सही संतुलन कायम है। उन्होंने कहा कि बेहतर मानसूत तथा श्रुफ की अच्छी बुवाई से खाद्य मुद्रास्फीति का परिस्थय अधिक अनुकूल हो सकता है। दास ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मंच तक पहुंच बढ़ाना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने जोडिधम धारण मानकों को कमजोर किए बिना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम के अनुरूप उत्पाद तथा सेवाएं पेश करने की भी वकालत की। दास ने कहा कि विवेकपूर्ण ऋण सुनिश्चित करने के लिए यूनिकाइड लेंडिंग इंटरफेस मंच पर केवल विनियमित संस्थाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

शिक्षक दिवस पर याद किए गए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण



फतुहा। प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों द्वारा केक काटकर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई। वहीं शहर में स्टेशन रोड स्थित नवोदय पब्लिक स्कूल में बच्चों ने केक काट कर शिक्षक दिवस मनाया। प्राचार्य अरुण पटेल ने सभी शिक्षकों को शुभकामना दीया। मौके पर पंकज कुमार, सपना देवी, शिखा देवी, प्रियंका कुमारी, कल्याणी कुमारी, चांदनी देवी, अशोक कुमार, प्रकाश नवीन कुमार, विकास कुमार गुप्ता सहित अन्य शिक्षक और शिक्षिकाओं सहित विद्यालय के बच्चे मौजूद रहे। दूसरी ओर आदित्यपुर गांव स्थित सत्यार्थ इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य अजीत कुमार एवं बाल ज्ञान सहयोगी कॉन्वेंट के व्यवस्थापक वीरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में हर्षोल्लास से शिक्षक दिवस विशेष रूप से मनाया गया। जिसमें व्यवस्थापक वीरेंद्र कुमार यादव, राजन कुमार, एके पांडेय, पिंकी कुमारी, सुनिता देवी, ओमप्रकाश, अभय कुमार, आरके सिंह, कार्दुईन्ट अम्बरेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया

दानापुर। नगर के अंतर्गत आर्मी पब्लिक स्कूल, दानापुर कैंट के प्रांगण में शिक्षक दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विद्यालय के अध्यक्ष एवं एकेमांडेट बिहार रेजिमेंटल सेंटर ब्रिगेडियर के. डी जसपाल ने दीपप्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने शिक्षकों को छात्रों का पथप्रदर्शक बताते हुए उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन किया व सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही शिक्षकों के लिए कई मनोरंजक खेल का भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों शिक्षकों का चरम उत्साह देखने को मिला। विद्यालय की प्राचार्या धर्मशीला पांडेय ने शिक्षकों को बेहतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया तथा उन्हें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं। अध्यापकों को उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया।

नवादा के सांसद विवेक ठाकुर और महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के बीच बैठक

हाजीपुर। नवादा (लोकसभा) विवेक ठाकुर ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के साथ बैठक की। बैठक के प्रारंभ में महाप्रबंधक ने सांसद का स्वागत किया। बैठक के दौरान नवादा सहित बिहार में चल रहे रेल विकास परियोजनाओं एवं ग्रामीण सुविधा से जुड़े कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। साथ ही सांसद महोदय द्वारा रेल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए।

41 सैपल की जांच में मिले आठ डेंगू के मरीज, दस मरीज मर्ती

पटना सिटी (प्राकि)। एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में डेंगू के 41 सैपल की जांच गुरुवार को की गई। इसमें आठ डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रो. संजय कुमार ने बताया कि गुलजारबाग के 21 वर्ष का युवक, बजरंगपुरी के 18 वर्षीय युवक, एनएमसीएच छात्रावास का 45 वर्षीय युवक, भूतनाथ रोड के 24 वर्षीय युवक, छोटी पहाड़ी के 21 वर्षीय युवक व 11 वर्ष का किशोर, बेगुसराय की 60 वर्ष की महिला और बक्सर की 21 वर्षीय महिला संक्रमित है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. प्रो. बिनेद कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल में डेंगू के दस मरीज मर्ती हैं। अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में 55 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। संक्रमित मरीज ओपीडी में उपचार कराने आए थे, जो जांच में डेंगू से संक्रमित पाए गए।

सेवानिवृत्त पर कॉलेज कर्मों रामानंद प्रसाद यादव को दी विदाई

बिक्रम। गोपाल विद्यार्थी। प्रखंड क्षेत्र के दादूपुर स्थित महंत मधुसूदन महाविद्यालय में गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर कॉलेज के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं कॉलेज के लेखापाल रामानंद प्रसाद यादव को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। 41 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत कॉलेज सभागार में समारोह आयोजित कर उन्हें भावभरी विदाई दी गई। विदाई समारोह में वक्ताओं ने कहा कि रामानंद प्रसाद का सेवा काल शानदार रहा। वे कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। उनका अग्रणी कॉलेज को लंबी अवधि तक खलेगा।

विद्या निकेतन हाई स्कूल में केक काट धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय पढ़ाया गया, बच्चों ने शिक्षकों को दिए गिफ्ट

प्रातःकिरण संवाददाता

पटना। शेषपुरा बगीचा स्थित शैक्षणिक संस्थान विद्या निकेतन हाई स्कूल में शिक्षक दिवस केक काट धूमधाम से मनाया गया और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जहाँ स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए तथा शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय परिवार की ओर से उपहार भेंट प्रस्तुत किया गया। प्राचार्या सीमा झा ने बताया कि गुरु शिष्य का रिश्ता प्राचीनकाल से चलते रहा है और आज भी यह कायम है। उन्होंने शिक्षक दिवस की महत्ता एवं गुरु शिष्य के रिश्ते का व्याख्यान किया। माता-पिता के बाद टीचर ही हमारे जीवन को एक सही राह देते हैं। इस



अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि डॉ. राधाकृष्णन सर्वपल्ली भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वह भारत रत्न से सम्मानित थे। जिस तरह से लोहा पारस पत्थर का ही हमारे जीवन को एक सही राह देते हैं। इस

कृष्ण मुरारी ने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वे हमें न सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि वे वास्तविक रूप से आने वाली चुनौतियों के लिए हमें जागरूक और तैयार भी करते हैं। इस अवसर सभी शिक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। छात्र-छात्राओं ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद (इंग्लिश), विनोद कुमार (मैथ), निर्मला सिंह (कंप्यूटर), रीना कुमारी (हिंदी), प्रियंका सिंह (साइंस), सिमरन (हिंदी), उषा सिन्हा (एस एसटी), रजनी मणि (इंग्लिश), संगीता (यूकेजी), मधु जी, पूजा जी, वंशरोपन जी (मैथ), उदय जी, पंडित जी, विनय मिश्रा आदि मौजूद रहे।

अर्द्धनिर्मित कारखाना परिसर से बिजली ट्रांसफार्मर का क्वायल आदि की चोरी बाइपास थाना में मामला दर्ज, केयर टेकर से पूछताछ, सीसीटीवी का अवलोकन

पटना सिटी, प्रातःकिरण संवाददाता

बाइपास थाना क्षेत्र के मर्ची लिंक रोड के एक निजी स्कूल के पास निर्माणाधीन प्लास्टिक फैक्ट्री परिसर से चोरी में बिजली के दो ट्रांसफार्मर से क्वायल की चोरी कर लिया। इस संबंध में जगदीश प्रसाद वर्मा ने बाइपास थाना में मामला दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि अपने पुत्र के लिए प्लास्टिक की फैक्ट्री, जिसमें बोटल, डिब्बा, बाल्टी आदि का निर्माण होता था। इसी में बिजली संबंधन लेने के लिए 300 केवीए का दो ट्रांसफार्मर लाकर रखा गया था। दोनों ट्रांसफार्मर से क्वायल एवं अन्य सामान की चोरी कर ली गई है। इसकी सूचना बाइपास थाना की पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। फैक्ट्री मालिक जगदीश प्रसाद



वर्मा का कहना है कि जिस तरह से भारी भरकम बिजली ट्रांसफार्मर से क्वायल की चोरी की गई है, इससे धाना रहा है कि इस अर्द्धनिर्मित फैक्ट्री के केयरटेकर की भी इसमें सहभागिता संभव है। दरअसल उस निर्माणाधीन फैक्ट्री में केयरटेकर को भी रखा गया है, जो परिवार के साथ रहता है। ऐसे में उक्त फैक्ट्री के गेट का ताला भी नहीं टूटा है और न ही अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ही है। ऐसे में पुलिस

केयरटेकर से पूछताछ कर रही है। साथ ही सीसीटीवी का भी अवलोकन किया जा रहा है। बाइपास थाना के थानाध्यक्ष राजकुमार झा का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद थाना में कांड 407/24 दर्ज किया गया है। सीसीटीवी का भी अवलोकन किया जा रहा है। आवेदक के साथ चोरी गए सामान की कीमत करीब 13 लाख रुपया बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

खो-खो के बालक और बालिका वर्ग में महिला चरखा समिति मवि बना विजेता

पटना सिटी, प्रातःकिरण संवाददाता

पटना सिटी के दो विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस दौरान खो-खो प्रतियोगिता के बालक एवं बालिका वर्ग में महिला चरखा समिति मध्य विद्यालय सिरमौर बना। इसी तरह कन्या मध्य विद्यालय, बेगमपुर के वर्ग आठ के कुंदन कुमार ने कराटे में गोल्ड मेडल जीता, जबकि इसी विद्यालय के वर्ग 7 के छात्र राजवीर जायसवाल ने कराटे में कांस्य पदक हासिल किया। जिलास्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 में खो-खो प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में महिला चरखा समिति मध्य विद्यालय पटना सिटी विजेता बना। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के खो-खो में बालक और बालिका वर्ग में अंडर 14 का विजेता रहा। बालिका वर्ग में महिला चरखा समिति मध्य विद्यालय



ने माउंट लिटा जी स्कूल, बाढ़ को 14 अंकों से हराया। इसमें पूजा, अर्चना, इश्का एवं सरस्वती ने बेहततर प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में ज्ञान निकेतन, पटना को इसी विद्यालय के छात्रों ने 20 अंकों से हराया। इसमें मोहान, हर्ष, गौहम और पिपुय ने भी बेहततर प्रदर्शन कर विजेता बना। विजेता कप जिला खेल पदाधिकारी एवं राज्य खो-खो संघ के सचिव संजय कुमार ने प्रदान किया। वहीं कन्या मध्य विद्यालय, बेगमपुर के शिक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि उनके विद्यालय के दो छात्र कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं। वर्ग 8 के कुंदन कुमार पिता अशोक साह ने कराटे में गोल्ड मेडल जीता है।

पहली तिमाही में 1320 बच्चे एनआरसी में हुए भर्ती

प्रातःकिरण संवाददाता

पटना। दो महीने का बच्चा मोहित कम वजनी था। उसे पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) ले जाया गया। 15 दिन तक डाइट चार्ट और उसके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी गयी। नतीजतन उसके वजन में करीब 500 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। उसके स्वास्थ्य में चढ़ाव की मुख्य वजह एनआरसी नहीं। जिसे पोषण पुनर्वास केंद्र भी कहते हैं।



राज्य में फिलहाल 20 बेड वाले ऐसे करीब 38 पोषण पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं, जिनमें कुपोषित बच्चों का उपचार किया जाता है। वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में इसमें काफी सुधार आया है। इसमें राज्य ने पहली तिमाही के 8.8 प्रतिशत बच्चों अति गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं। इन्हें लगभग 10 प्रतिशत बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है। वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही में एनआरसी में बच्चों की

व्यवस्था यथा भर्ती क्षेत्र किचन, शौचालय, स्नानागार की साफ सफाई, सभी स्थानों पर पर्याप्त रोशनी उचित तापमान, एनआरसी स्टाफ का उचित व्यवहार, खेलने के लिए आवश्यक खिलौने एवं लर्निंग मटेरियल की व्यवस्था के अलावा एनआरसी में मानदंड के अनुसार आहार देने के अलावा अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

कुपोषित बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ है पोषण पुनर्वास केंद्र : पोषण पुनर्वास केंद्र में कार्यरत डायटीशियन चित्रा मिश्रा कहती हैं कि कुपोषित बच्चों को एनआरसी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यहां उन्हें एफ 75 और एफ 100 के अनुरूप आहार दिया जाता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निरंतर चेकअप की व्यवस्था होती है। फीडिंग के लिए भी विशेषज्ञ होते हैं। यह सारी सुविधा निशुल्क होती हैं। यहां एक ऐसा माहौल दिया जाता है, जिससे बच्चे को अपने वजन को संतुलित करने में सुविधा होती है।

प्रकाश पर्व पर तख्तश्री पटना साहिब में सजा विशेष दीवान

पटना सिटी, प्रातःकिरण संवाददाता

तख्तश्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में सिख पंथ के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज के गुरुता गद्दी दिवस पर विशेष दीवान गुरुवार को सजा। इसके पूर्व बीते दो दिनों से चल रहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ की समाप्ति के बाद सजे विशेष दीवान में कथावाचक ज्ञानी दलजीत सिंह ने कथा कही। रागी जय्था में भाई नविंदर सिंह, बरेली के भाई मनोहर सिंह, हरभजन सिंह, ज्ञान सिंह, कविंदर सिंह ने शब्द कीर्तन पेश किया। तख्त साहिब के जय्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह व अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी ज्ञानी दिलीप सिंह ने विश्व शांति व भाईचारे के लिए अर्दास किया। दूसरी ओर सिख पंथ के चौथे गुरु रामदास जी के ज्योतिजोत पर्व को लेकर रखे गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ

तख्त साहिब के दरबार साहिब में हुआ संत समागम



का समापन शुक्रवार को होगा। उसी दिन विशेष दीवान भी सजेगा। शहीद शिरोमणि बाबा जीवन सिंह जी के 363वें जयंती लेकर तख्तश्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के दरबार साहिब में विशेष दीवान सजा। इसमें संत समागम हुआ। इस दौरान कथा, प्रवचन और कीर्तन हुआ। बाबा जीवन सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार जसवंत सिंह रंगरेटा, उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, तख्तश्री प्रबंधक कमेट्री के अध्यक्ष

कबीर पंथी आश्रम कबीर साईं मंदिर मीठापुर में आयोजित हुआ शिक्षक दिवस

पटना। कबीर पंथी आश्रम कबीर साईं मंदिर मीठापुर में आचार्य महंत श्री ब्रजेश मुनि महाराज जी के पावन सानिध्य में गुरुवार साप्ताहिक सस्त्रंग सहित शिक्षक दिवस का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कबीर साईं कौचिंग सेंटर के संचालक चंदन सर ने शिक्षक दिवस की महत्ता एवं गुरु शिष्य के रिश्ते का व्याख्यान किया। चन्दन सर ने छात्रों के भविष्य को उज्वल बनाने और आगे चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही संस्थान का उद्देश्य है। मौजूद छात्र-छात्राओं ने गुरु शिष्य के परंपरा को निभाने और एक अच्छे शिक्षक की तरह छात्रों ने प्रण किया कि वो अपने आस पास रहने वाले अशिक्षित, भटके हुए छात्रों को सही राह दिखाने एवं एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा



देंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो शिक्षक दिवस सभी देशों में अलग अलग तिथि को मनाया जाता है, लेकिन भारत में पांच सितंबर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। जो एक शिक्षक होते हुए भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति रहे। भारत में बहुत सारे महान लोग हैं पर डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इस अवसर पर कथावाचक युवाचार्य संत श्री विवेक मुनि जी ने अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया और गुरु सितंबर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़े खोटे। अन्तर हाथ सहरा दे, बाहर बाहे चोटे। गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है, गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनाइ टुकड़ा ही होता है जिसे गुरु एक बड़े का आकार देते हैं, उसके चरित्र का

निर्माण करते हैं। जैसे कुम्भकार घड़ा बनाते वक़्त बाहर से तो चोट मारता है और अंदर से हलके हाथ से उसे सहारा भी देता है। कहीं कुम्भ टूट ना जाए, इसी भाँती गुरु भी उसके अवागुणों को तो दूर करते हैं, उसके अवागुणों पर चोट करते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं, जिससे कहीं बह टूट ना जाए। इस कड़ी में सभी विद्यार्थी छात्रों ने अध्यापक श्री चंदन सर का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर आश्रम के संत करसन मुनि, संत महेश मुनि, बाल संत रामदास, बाल संत आयुष सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति थी। इस दौरान कबीर साईं महीला मंडल की प्रधान रवी देवी, उषा देवी, रिकु देवी, चंदनेश्वर कमलेश आदि ने कबीर साईं के भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बनाया।

अपनी पढ़ाई बीच में कमी ना छोड़ें, गलत का प्रतिकार करें : डॉ गौरव

पटना सिटी, प्रातःकिरण संवाददाता

शिक्षक दिवस के अवसर पर डीएसपी-2 डॉ गौरव कुमार का एमएए सीनियर सेक्टर स्कूल के परिसर में किया गया। इसमें उपस्थित हैं प्रिंसिपल मुजफ्फर राजू, स्कूल के जॉइंट सेक्टर डी इंश्राद मासूमि और अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। इसमें श्री इन्तियाज आलम, वसीम अहमद, मोहम्मद हसन, जाहिद तमीज, सैयद एहतेशाम हुसैन, शमशाद अहमद, अतिकुल हक और अन्य शिक्षक थे। डीएसपी डॉ गौरव कुमार के आगमन

थे। समारोह में बिहटा पब्लिक स्कूल एवं बिहटा आवासीय स्कूल की शिक्षिका अंजू, अरुण, सदानंद, वसंत, हिमांशु, अभय, अमरज्योत, नेहा, मनोज, विजय, करिश्मा, यशोदा, सौरभ शेरशा, सुमन, जानवी, वीना रीता, चन्द्रशेखर, सिखा, जितेन्द्र, अनिरुद, उपेन्द्र, संजीत, जे पी, पवन, श्रीकांत, महेंद्र, चंदन, योगेन्द्र, अरविंद आदि संसद सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक जितेंद्र व शिक्षिका नेहा ने किया।

कुसुमराज मनीअम पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के सम्मान में बच्चों ने प्रस्तुत की कविताएं और गीत

बिक्रम। गोपाल विद्यार्थी प्रखंड क्षेत्र के मोरियावां स्थित कुसुमराज मनीअम पब्लिक स्कूल एवं फार्मेसी कॉलेज में गुरुवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। मौके पर छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों को समर्पित करते हुए गीत और कविताओं को प्रस्तुत की। साथ ही शिक्षकों को विभिन्न उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में निदेशक डॉ अमरेंद्र कुमार अमरेश, डॉ दयानन्द शर्मा, प्राचार्या शिल्पी प्रसाद व अतिथि सह युवा शिक्षाविद गोपाल विद्यार्थी के साथ स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। मौके पर निदेशक डॉ अमरेंद्र ने बताया कि देश के उपराष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर सम्पूर्ण भारत में शिक्षक दिवस मनाई जाती है। डॉ राधाकृष्णन एक



महान दार्शनिक और विद्वान होने के साथ-साथ एक कुशल शिक्षक भी थे। वहीं गोपाल विद्यार्थी ने कहा कि भारत के लोग सदैव से शिक्षकों के सम्मान करते रहे हैं, राजाओं ने भी शिक्षकों के सम्मान में सदैव शीश झुकाया है हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। वहीं निदेशक डॉ अमरेंद्र ने विद्यालय व कॉलेज में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। सामूहिक भोज के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। मौके पर छात्र-छात्राओं के अलावे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व कर्मी भी मौजूद थे।

ट्रेन से टकरा कर छात्रा की मौत स्कूल से घर लौटने के दौरान हादसा

प्रातःकिरण संवाददाता

पटना सिटी। स्कूल में शिक्षक दिवस मना कर अपने घर लौट रही छात्रा रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान द्रुत गति से जा रही ट्रेन की चपट में आ गई। ट्रेन से धक्का लगने के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। यह हादसा गुलजारबाग स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो तीन के पूर्व आप लाइन में घटी है। सूचना मिलने के बाद जीआरपी प्रभारी शिवजी सिंह दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में छात्रा की वेग में रहे परिचय पत्र के आधार पर उसकी पहचान कर उसके परिजन को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजन ने अपने बेटी की पहचान की। गुलजारबाग हाट स्थित कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय में महेंदवींज थाना क्षेत्र के हकीमगंज के रहने वाले राजा पंडित की पुत्री पहाई करती है। गुरुवार को शिक्षक दिवस होने के कारण वह स्कूल गई थी और



वहां से समारोह में भाग लेने के बाद अपने घर लौट रही थी। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान अप लाइन में तेज गति से ट्रेन दोपहर में गुजर रही थी। इसी दौरान वह ट्रैक को तेजी से पार करने लगी, तभी ट्रेन से टकराने के कारण उसके सिर में खासा चोट आई। इससे वह दूर फेंका गई और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। लोगों की भीड़ लगने के बाद और ट्रेन चला रहे एएसएम के द्वारा मेमो दिए जाने के बाद जीआरपी के थाना प्रभारी शिवजी सिंह बलबल घटनास्थल पर पहुंचे। छात्र के पास रहे पहचान पत्र के आधार पर उसके परिजन को सूचित किया गया। परिजन गुलजारबाग स्टेशन पहुंचे, जहां अपनी बेटी की पहचान कर पाए।

व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष व अभियान के प्रतीक थे जगदेव बाबू

पटना सिटी, प्रातःकिरण संवाददाता

शहीद जगदेव प्रसाद अपने विचारों के कारण आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। आज की युवा पीढ़ी को उनके विचारों को जानने के बाद उसे आत्मसात करना चाहिए। यह बात शहीद जगदेव प्रसाद की 50वीं शहादत दिवस पर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व उपमहापौर रूपनारायण मेहता ने गुरुवार को कही। कार्यक्रम का आयोजन कुशवाहा एकता कल्याण समिति द्वारा स्थानीय बेगमपुर स्थित शहीद जगदेव पार्क में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मान्य अतिथियों एवं समिति के पदाधिकारियों के द्वारा द्वारा शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुआ। इस अवसर पर अखिल भारतीय कुशवाहा शंकर मेहता, साचव नरश मेहता, डॉ सीपी सिन्हा, दिनेश कुमार आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद जगदेव प्रसाद व्यवस्था परिवर्तन के



लिए संघर्ष एवं अभियान के प्रतीक थे। वक्ताओं ने शहीद जगदेव को समाज में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक गैरबराबरी को समाप्त कर न्यायसम्मत समाज के निर्माण का पैरोकार बताया। सभा को संबोधित करते हुए वार्ड 62 की पार्षद तारा देवी ने कहा कि शहीद जगदेव जी के सपनों को साकार तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक पिछड़े एवं अभिप्रायों तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचती है। युवा नेत्री सुमन सौरभ ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले, ई वी रामास्वामी परिारय, डॉ अंबेडकर और मानवतावादी रामस्वरूप वर्मा के विचारों को कार्यरूप देने वाले शहीद

जगदेव प्रसाद ही थे। अपने संबोधन में वार्ड 62 के पार्षद-प्रतिनिधि रवि रौशन मेहता ने शहीद जगदेव पार्क को उत्तरींचर सुंदर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की तथा संकल्प दोहराया कि आगामी दो फरवरी, 2025 को मनाया जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद की 103वीं जयंती पर पार्क प्रांगण में एक लघु पुस्तकालय का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें शहीद जगदेव के विचार एवं उनके बतारे आदर्श पर आधारित पुस्तकें रखी जाएंगी। सभा में प्रमुख रूप से अमन मेहता, पप्पू मेहता, अरख मेहता, डॉ विनोद कुमार अवस्थी, श्रवण मेहता, डॉ तुषार आर्या, अजय मेहता, कमल कुमार तिवारी, राजेश कुमार सिंह, अर्जुन प्रसाद, सुधा तिवारी, ज्वाला प्रसाद, सुबोध कुमार, देवानंद कुमार आदि उपस्थित थे। सभा का संचालन शिक्षाविद विजय कुमार सिंह ने, अतिथियों का स्वागत दिनेश मेहता तथा धन्यवाद ज्ञापन अनिल कुमार मेहता ने किया।

पटना

एम्स में बनेगा 248 बेड वाला धर्मशाला भवन : मंगल

राज्य सरकार के सहयोग से 14.85 करोड़ की लागत से होगा भवन निर्माण

● 216 बेड डॉरमेट्री एवं 32 निजी कमरा होगा निर्मित

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पटना एम्स परिसर में मरीजों के साथ आने वाले परियोजना को कुल लागत 14.85 करोड़ रुपए होगी। श्री पांडेय ने कहा कि बिहार सरकार और

वाले परियोजना के लिए 248 बेड की सुविधा वाली एक धर्मशाला भवन का निर्माण होने जा रहा है। एम्स परिसर में धर्मशाला भवन के लिए जी प्लस 4 बिल्डिंग 2868.43 वर्गमीटर परियोजना में निर्मित की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसर में 248 बेड धर्मशाला भवन में (216 बेड डॉरमेट्री एवं 32 निजी कमरा) निर्मित होगी। धर्मशाला भवन में लिफ्ट, फर्नीचर, शौचालय एवं रूप टॉप पावर जेनरेशन यानी छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 14.85 करोड़ रुपए होगी। श्री पांडेय ने कहा कि बिहार सरकार और

स्वास्थ्य विभाग राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह धर्मशाला भवन का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्री पांडेय ने बताया कि यह धर्मशाला भवन अपने तय समय में बनकर तैयार हो जाएगी और निर्माण के बाद धर्मशाला भवन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जिसके द्वारा इसका संचालन और सौर-रखाव किया जायेगा। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परियोजना को रूकने में कोई असुविधा न हो और उन्हें आसपास के क्षेत्रों में भटकना न पड़े। श्री पांडेय ने कहा कि जब मरीज इलाज के लिए

एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में आते हैं, तो उनके साथ आने वाले परियोजना को रूकने में असुविधा न हो। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पटना एम्स परिसर में धर्मशाला भवन बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके बनने पर मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी। इस धर्मशाला भवन के निर्माण से परियोजना को अस्पताल के पास सुरक्षित और सुविधाजनक ठहराव मिलेगा, जो न केवल उनके मानसिक तनाव को कम करेगा बल्कि मरीजों की देखभाल में भी सहायक सिद्ध होगा। बिहार सरकार की इस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा और यह कदम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सहूलियत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार गंभीर : शीला

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमेशा से गंभीर रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हुए प्रयासों के बदौलत बिहार का हरित आवरण 9 फीसदी से बढ़कर अब 15 फीसदी हो चुका है। मंत्री उक्त बातें गुरुवार को जयपुर प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। श्रीमती शीला मंडल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आपराधिक बुलिटिन जारी करने से पहले अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। राजद के शासन में बिहार का कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चैपट था लेकिन आज हमारी बहन-बेटियाँ बेकौमि होकर स्कूल और कॉलेज जाती हैं। मध्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस सड़क मार्ग से बिहार



भ्रमण पर निकलेंगे वह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन है। उनके माता-पिता के शासन में सड़कों की बढ़ती और जर्जर स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। श्री रत्नेश सदा ने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा से कोई अंतर नहीं होने वाला है, बिहार की जनता उनके झांसे में कभी नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास

में छिपाया जाता था लेकिन आज अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है। इससे पहले तीनों गणना प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक पहल की। इस मौके पर विधानपरिषद ललन कुमार सराफ एवं विधानपरिषद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी मौजूद रहे।

राजद के नीतियों को हर

घर तक पहुंचाएँ: लालू

पटना। राजद राज्य कार्यालय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया और उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, पूर्व सांसद विजय कृष्ण, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, डॉ तनवीर हसन, विनोद कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री अलोक कुमार मेहता, प्रदेश प्रभार महासचिव रणविजय साहू, विकासक मनीज कुमार यादव, प्रदेश मुख्य प्रचारका शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, डॉ उर्मिला ठाकुर, पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमर राय, योगेंद्र प्रसाद यादव, सहित अन्य गणमान्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों को शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया।

राजद के पूर्व प्रत्याशी सहित कई लोगों ने थामा भाजपा का दामन

- सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के नेता व कई शिक्षकों ने ली सदस्यता
- भाजपा किसी परिवार की पार्टी नहीं : जायसवाल

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में आज पटना साहिब के पूर्व राजद प्रत्याशी राजेश कुमार भट्टक सहित सैकड़ों राजद के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शिक्षक दिवस के मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के नेता सरज कुमार सहित कई शिक्षकों ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा किसी परिवार की पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा की पार्टी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आज भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और



इसकी नीतियों को लोग पसंद कर भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। आपके आने से भाजपा और मजबूत होगी। सदस्यता लेने वालों में पटना साहिब विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी राजेश कुमार भट्टक, बच्चन प्रसाद मेहता, धीरेंद्र कुमार, संजय राय, राज राय, विनोद कुमार, राजेश कुमार, रंजीत कुमार सोनी, बबलू साह, अजय यादव, वीरेंद्र यादव, अशोक यादव, विनोद पासवान प्रमुख हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों के द्वारा

3 दिनों में 1 करोड़ से अधिक सदस्य भाजपा से जुड़े

कहा- भाजपा ने सदस्यता अभियान ने रचा इतिहास

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

3 दिनों में 1 करोड़ से अधिक सदस्य भाजपा से जुड़े

कहा- भाजपा ने सदस्यता अभियान ने रचा इतिहास

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

3 दिनों में 1 करोड़ से अधिक सदस्य भाजपा से जुड़े

कहा- भाजपा ने सदस्यता अभियान ने रचा इतिहास

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

को तोड़ कर नई कृतिमान स्थापित

करेगी। श्री तावड़े ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण का अभियान 2 सितंबर से 25 सितंबर और दूसरे चरण का अभियान एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेंगा। भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जनसंघ से लेकर भाजपा तक हमारे अभियान लगातार जारी हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा का संगठन है। बिहार में हमलोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बिहार की जनता ने भी इस संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 में बढ चढ कर हिस्सा लिया है, जो उत्साहवर्धक है। इस अभियान में शामिल होने के लिए पूरे देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता का भी अभिनेंदन।

नीतीश सरकार ने अमर शहीद के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल किया : उमेश

जयपुर प्रदेश कार्यालय में मनी जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि



पटना, प्रातः किरण संवाददाता

जयपुर प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर पार्टी के वरिय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनके तैय्यारिच पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की एवं उनके त्याग व संघर्ष को याद किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री शीला मंडल, मंत्री रत्नेश सदा, पार्टी के कोषाध्यक्ष सह विधानपरिषद ललन कुमार सराफ, विधानपरिषद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, पार्टी के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह, वासुदेव कुशवाहा, विरेंद्र सिंह दांगी, सहित विभिन्न अधिकारियों ने नेताओं व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद ने सामाजिक, राजनीतिक और

आर्थिक असमानता को जड़ से समाप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने 52 साल की छोटी उम्र पाई थी, लेकिन उनका संघर्ष इतना बड़ा था, उनके द्वारा उठाए गए सवाल इतने बड़े थे, उनके पीछे खड़ी जमानत इतनी बड़ी थी और उनका कद इतना बड़ा था कि वे अपनी मृत्यु के 50 साल बाद भी उसी शान और स्वाभिमान से हमारे बीच मौजूद हैं और आज से 50 साल बाद भी उनका नाम लिहा बगैर बिहार की राजनीति पूरी नहीं होगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों में शामिल किया है। जिसका परिमाण है कि बिहार के शीतल, वृषित व गरीब वर्ग के जीवनस्तर में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं और हमारा बिहार हर दिन विकास को नई सीढ़ी चढ़ रहा है।

देश स्तर पर जातीय जनगणना कान पकड़कर करवायेगे : लालू

हक और अधिकार के लिए मजबूती से लड़ना होगा : तेजस्वी

● जगदेव प्रसाद की जयंती राजद वृद्ध पैमाने पर पटना में मनाएगा : आलोक

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश स्तर पर जातीय जनगणना कान पकड़कर करवाएंगे। हमारी पार्टी समाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध है। विरासत की राजनीति डॉ राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को आगे बढ़ाने और समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए हमेशा हम लोगों ने संघर्ष और अहंसेना किया। राजद सुप्रियो गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 50वीं शहादत दिवस के अवसर पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि पुरखों को जो भी प्यूलता है वह 20 साल तक झूलता है। जगदेव बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि तभी साकार किया जा सकता है जब हम उनके विचारों और उनकी बातों को आगे बढ़ाने एकजुट रहेंगे। हमें हिम्मत देना है और उनके साथ खड़े रहना है। आप सब उठे रहिए जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने में समज के सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, तभी



आपको हक अधिकार मिलेगा। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति से जगह छोटा पड़ गया है, गत लोकसभा चुनाव में हमने वादा किया था की कुशवाहा समाज को सम्मान दिया जाएगा और वह वादा हमने पूरा किया। कहा कि जगदेव बाबू कहा करते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। आज संविधान और आरक्षण को खत्म करने की लगातार साजिश चल रही है। केंद्र सरकार लैटरल इंट्री के माध्यम से आरएसएस और अपने लोगों को बिना आरक्षण ही आईएसएस, आईपीएस बनाने में लग गई थी, लेकिन हम लोगों ने पूरी सजगता के साथ इसका विरोध किया और केंद्र सरकार को इस लेटरल इंट्री को वापस लेने के लिए मजबूर किया। सभी को अपने हक और अधिकार के लिए मिस्रकर आगे कि लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। आप लोगों ने

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

नाए पर्यटन सचिव लोकेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया



पटना। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मुख्य सचिवालय स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान सचिव अभय कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत कार्यक्रम निदेशक विनय कुमार राय और महाप्रबंधक अभिजीत कुमार ने किया। कार्यालय में प्रथम दिन पर्यटन सचिव ने मुख्य रूप से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और पदाधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी तन्मयता से विभाग की बेहतरी के लिए कार्य करने के निदेश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचे, इस दिशा में विभाग सतत कार्यशील रहे। मौके पर सभी विभागीय पदाधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे।

नाए पर्यटन सचिव लोकेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया

पटना। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मुख्य सचिवालय स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान सचिव अभय कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत कार्यक्रम निदेशक विनय कुमार राय और महाप्रबंधक अभिजीत कुमार ने किया। कार्यालय में प्रथम दिन पर्यटन सचिव ने मुख्य रूप से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और पदाधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी तन्मयता से विभाग की बेहतरी के लिए कार्य करने के निदेश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचे, इस दिशा में विभाग सतत कार्यशील रहे। मौके पर सभी विभागीय पदाधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे।

नाए पर्यटन सचिव लोकेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया

पटना। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मुख्य सचिवालय स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान सचिव अभय कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत कार्यक्रम निदेशक विनय कुमार राय और महाप्रबंधक अभिजीत कुमार ने किया। कार्यालय में प्रथम दिन पर्यटन सचिव ने मुख्य रूप से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और पदाधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी तन्मयता से विभाग की बेहतरी के लिए कार्य करने के निदेश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचे, इस दिशा में विभाग सतत कार्यशील रहे। मौके पर सभी विभागीय पदाधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने 2 सितंबर को शुरू हुए भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के आलोक में बताया कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा पार्टी से मात्र 3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर देशवासियों व कार्यकर्ताओं में जो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का ही यह

6 सितम्बर को होगी कथा-कार्यशाला, 7 सितम्बर को काव्य-कार्यशाला

पुस्तक चौदस मेला में आयोजित हुई निबन्ध-लेखन प्रतियोगिता

● पुस्तक चौदस मेला में विद्यार्थियों की बढ़ी भाँड़

पटना, प्रातः किरण संवाददाता

विगत 1 सितम्बर से बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन में लगे पुस्तक-चौदस-मेला के पांचवे दिन गुरुवार को विद्यार्थियों की भाँड़ रही। ये विद्यार्थी अपने निबन्ध के साथ निबन्ध-लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। शिक्षक-दिवस को ध्यान में रखते हुए, निबन्ध का विषय हमारे आदर्श शिक्षक रखा गया था। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के मार्ग-दर्शन में हार्नेशनल बूक ट्रस्ट सह और बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की दीक्षाओं में पुस्तकों का अवलोकन और क्रय भी किया। प्रतियोगिता में बाल भवन किलकारी, रवींद्र बालिका विद्यालय, राजेंद्र नगर, संत जौस



स्कूल, कदमकुआं, म स मेमोरियल ऐके डमी आदि विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में अनुराग कुमार, विशाल कुमार, गणपत हिमांशु, योग्यता सिन्हा, कुश रंजन, सुमन कुमारी, अंजलि कुमारी, श्रुति कुमारी, आकृति कुमारी, प्रीति प्रिया, अनुप्रिया, वैष्णवी कुमारी, निवेक कुमारी आदि शामिल रहे। इस अवसर पर प्रतियोगिता के

निर्णायक-मंडल के अध्यक्ष डा उपेंद्र नाथ पाण्डेय, वरिष्ठ लेखक बच्चा ठाकुर, आयोजन समिति के संयोजक ई अशोक कुमार, कृष्ण रंजन सिंह, डा सोमा रानी आदि उपस्थित थे। सम्मेलन अध्यक्ष डा अनिल सुलभ ने बताया है कि प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पानेवाले विद्यार्थियों को क्रमशः एक हजार, सात सौ पचास और पाँच सौ रुपए की पुरस्कार राशि के साथ

पदक और प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभागियों को भी सहभागिता-प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अगली प्रतियोगिता (काव्य-पाठ) 12 सितम्बर को आयोजित होगी। 16 सितम्बर को कथा-कार्यशाला तथा 7 सितम्बर को काव्य-कार्यशाला आयोजित है, जिसमें विद्यार्थियों ही नहीं, वे सब भी भाग लेंगे, जो लेखन और कविताई का व्याकरण सीखना चाहते हैं। इन प्रशिक्षण-शालाओं में, कथा-लेखन की सभी विधाओं और बौद्धिक तथा गीत, गजल, दोहा, चौपाई, मुक्तक, रूबाई, नवगीत आदि विधाओं के विषय में सुजन हेतु विद्वानों द्वारा मार्ग-दर्शन किया जाएगा। आगामी 8 सितम्बर को तीन बजे से काव्य-प्रतिस्पर्धा आयोजित है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय उपस्थित रहेंगे।

सदाकत आश्रम में मनी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 136 वीं जयन्ती



पटना। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पूर्व राष्ट्रपति डा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 136 वीं जयन्ती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्ष डा मदन मोहन झा ने की। इस अवसर पर डा राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्ष डा मदन मोहन झा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही शिक्षक को समाज में बड़ा स्थान रहा है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं तथा उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, ब्रजेश पाण्डेय, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, लाल बाबू लाल, कपिलदेव प्रसाद यादव, प्रो अमरुज किशोर झा, जान रंजन, सौरभ सिन्हा, सुधा मिश्रा, राजकिशोर सिंह, धनंजय शर्मा, अद्वुल बकी सलज्ज, डॉ इशराद खान, विमलेश तिवारी, निधि पाण्डेय, मारांशंकर पाण्डेय, राहुल पासवान, गुरुदयाल सिंह, संतोष पासवान, अनुप कुमार, मिहिर झा एवं अन्य कांग्रेसजनों ने भी डा0 राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया।

राजद सुखे पत्ते की तरह

बिखरने

संक्षिप्त खबरें

आयुक्त ने किया पदभार ग्रहण

मुजफ्फरपुर। सरवणन एम, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ने बुधवार को प्रमंडलीय कार्यालय कक्ष में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तथा उनके कार्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर श्रेष्ठ अनुपम, नगर पुलिस अधीक्षक अश्वेश दीक्षित, आयुक्त के सचिव अब्दुल हमीद सहित प्रमंडलीय कार्यालय के कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं कटपुतली कलाकार

मुजफ्फरपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर चाइल्डसेफ एवं सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खरौनाडीह, जिला मुजफ्फरपुर बहुदेशीय भवन में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सफाई अपनाओ बिमारी भगाओ नुकड़ नाटक की प्रस्तुति लोक कलाकार सुनील सरला के नेतृत्व में की गई। स्वच्छता के प्रति नुकड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को सफा सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर कलाकार द्वारा सफा सफाई के आदत के साथ साथ बाजार में खरीदारी करने जाते समय अपने साथ झोला रखने की बात बताई गई तथा गिला कचड़ा को अलग डब्बा और सूखा कचड़ा को अलग डब्बा में रखने की बात बताई गई। वहीं लोक गायिका अनिता कुमारी द्वारा चले हो भंडेया चल हो दीदी हाथ से हाथ मिलाई के दुनियां जाने तू भी जान महिमा साफ सफाई के, ये वक्त की आवाज है सफाई अपनाओ ये जींदगी का राज है सफाई अपनाओ जै के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। चाइल्डसेफ के जयचंद्र कुमार ने बताया कि साफ सफाई के नियम के पालन से वातावरण शुद्ध रहने के साथ ही कई तरह के बिमारी से बच सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान के संयोजक कटपुतली कलाकार सुनील सरला, विंध्यवासिनी देवी लोक कला संस्कृति मंच की सचिव लोक गायिका अनिता कुमारी, परफेक्ट सोल्यूशन सोसाइटी के सचिव अनील कुमार ठाकुर, चंदन कुमार द्वारा अभिनय गीत संगीत, कटपुतली, नुकड़ नाटक के माध्यम से साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाध्यक प्रेम प्रकाश, शिक्षक नरेंद्र ठाकुर, आर के मिश्रा, प्रीतम कुमार घोष, दीपक मिश्रा, योगेंद्रनाथ, सुमन प्रसाद, पुष्पाजलि, पंकज कुमार, राकेश रौशन झा, प्रभात रंजन के साथ साथ सैकड़ों बच्चों उपस्थित थे।

स्वास्थ्य केन्द्र की जमीन अवैध कब्जा करने के विरोध में प्रदर्शन

मुजफ्फरपुर। जिले के सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चहारदीवारी एवं शौचालय तोड़कर भू-माफियाओं द्वारा अस्पताल की जमीन पर कब्जा कर लिये जाने एवं जलद मापी कर भू-माफियाओं को फायदा दिलाने के खिलाफ आज जिला अधिकारी के समक्ष सैकड़ों की संख्या में सामाजिक लोगों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता शशिकांत साह ने किया। अंत में पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला अधिकारी को स्मार पत्र सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में सुरेंद्र राय, सुनील कुमार सिंह, नरकेश्वर, उमेश कुमार यादव, एवं तारकेश्वर गिरि शामिल थे। सरैया प्रखंड के दर्जनों गांवों से सैकड़ों की संख्या में आम जनता शाहिद खुदीराम बोस के स्मारक पर एकजुट हुए। जहाँ से अपनी मांगों के समर्थन में गगन भेदी नारों के साथ जुलूस डीएम कार्यालय पहुंचा। जहाँ सभा में संबोधित हो गया। सभा को राज कुमार राय, विश्वनाथ राय ललितेश्वर राय अशोक कुमार राय आदि ने सम्बोधित किया। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से सम्बंधित एक स्मार पत्र जिलाधिकारी को सौंपा जिसमें हूँ माफियाओं द्वारा कब्जा किए गये स्वास्थ्य केन्द्र की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई है। तथा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचानेवाले भूस्वामी, भूमाफिया और उनके मददगार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

विद्युत स्थलाघाट से गैस की मौत

विभूतिपुर, समस्तीपुर। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहबीब वार्ड 6 में विद्युत स्थलाघाट से एक बँस की मौत हो गई जबकि किसान बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पशु स्वामी जगत झा अपने बँस को लेकर चराने निकले थे। चरते-चरते बँस ट्रांसफार्मर में लगे स्टेक के निकट पहुंची जहाँ स्टेक में आ रहे करंट का शिकार हो गई और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। किसान ने बँस का पोस्टमार्टम कायम इस्की सूचना स्थानीय थाना में भी दी है।

मिथिला भूमि संस्कार और संस्कृति का यज्ञपीठ : उपमुख्यमंत्री ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित

प्रातः किरण, संवाददाता

डॉ नवीन कुमार-दरभंगा हमारी संस्कृति में ज्ञान को पवित्र यज्ञ माना गया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में राजगुरुओं का महत्व निर्विवाद रहा है। बिहार की धरती पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रचा था, आज फिर जरूरत है कई चंद्रगुप्तों को गढ़ने की। जब जब समाज ने शिक्षा से मुँह मोड़ा, समाज बर्बरता की ओर मुखातिब हुआ है। आज डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भारतवर्ष में सभी शिक्षकों के सम्मान का पर्याय है। उक्त बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहीं। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर ललित

नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मिथिला संस्कार और संस्कृति का यज्ञ पीठ है, जहाँ एक बेटी से शंकराचार्य पराजित हुए, जहाँ ब्राह्मण विद्वान को घर स्वयं महादेव आए। आज विरासत व विकास और संस्कृति व संस्कार के समन्वय की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त स्वरूप प्रदान करना हमारी प्राथमिकता और कर्तव्य है। सरकार के प्रतिनिधि

के तौर पर मैं वित्त रहित कॉलेजों और शिक्षकों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। प्रतिभा का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। बिहार की भूमि पर विक्रमशीला और नालंदा की पुनरस्थापना आज की जरूरत है। हमें सामाजिक समरसता के मूल्य बोध को समाज में स्थापित करना होगा। समाज में बिखरे समरसता के तंतुओं को फिर से जोड़ने, बनाने और बुनने की जरूरत है। हमें विश्वास है कि 21 वीं सदी का भारत हमारा नया भारत होगा, जिसमें भारतीय ज्ञान और संस्कार की धारा अनवरत निर्बाध बहेगी। कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों

का सम्मान करते हुए गुरु- शिष्य परंपरा की पुनरस्थापना पर चर्चा की। उन्होंने गुरु शिष्य के बीच रिश्तों में आई दूरी पर चिंता व्यक्त करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मेंटोर- मेंटी की अवधारणा को स्पष्ट किया। प्रो चौधरी ने गुरुकुल परंपरा को भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा स्वीकारा। जबलौ हॉल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्थापित ग्यारह चैपल के अलग अलग विषयों के कुल ग्यारह सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। स्वागत संबोधन विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉ अजय कुमार पंडित ने किया। डॉ पंडित ने

सभी मंचासीन अतिथियों और सभा में उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए शिक्षक को राष्ट्र निमातां कहा। परंपरागत मैथिल संस्कार के अनुरूप पाग, चादर और मिथिला पेंटिंग से अतिथियों का स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन और बिहार गीत एवं कुल गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच संचालन प्रो अशोक कुमार मेहता ने किया। राष्ट्रगान के बाद समारोह की समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम में दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक डॉ मुरारी मोहन झा, विधायक रामचंद्र प्रसाद सहित सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक एवं छात्र- छात्रा उपस्थित थे।

राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भाकपा ने निकाला प्रतिरोध मार्च



प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर किन्हीं को मोदी सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में महंगाई में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सता में आने से पहले हबहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकारह का भाजपा का खोखला नारा अब आम लोगों का मुँह चिढ़ा रहा है। जरूरत की तमाम चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। आम उपभोक्ता वस्तुओं, डीजल, पेट्रोल आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। केन्द्र सरकार की कॉरपोरेट पक्षी तथा गरीब विरोधी नीतियों के कारण महंगाई बेकाबू हो चुकी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश में कमरतोड़

महंगाई के खिलाफ 01 सितम्बर से 07 सितम्बर तक महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का आहूत रोषपूर्ण प्रदर्शन में प्रखंड से भारी संख्या में किसान मजदूर भाग लेंगे। सभा को अंचल सचिव शिवजी प्रसाद, राम एकबाली राय, भिखारी प्रसाद यादव, उमेश प्रसाद, नगीना प्रसाद, जनक ठाकुर, दर्शना प्रसाद, रामचंद्र झा, राम सेवक राम, गणेश राय, सुरेंद्र पासवान, राम अयोध्या प्रसाद, रामनाथ महतो, मो- जलालुद्दीन, विश्वनाथ कौशिक, जिला प्रसाद, योगेन्द्र प्रसाद, मिस्टर इंडिया, शशिरंजन राम आदि पार्टी नेता शिरकत किये।

शिक्षक समाज के आधार स्तंभ होते हैं : डॉ आर एन खराग



प्रातः किरण

दरभंगा। शिक्षक समाज के आधार स्तंभ होते हैं। वह बच्चों के भविष्य निर्माता एवं राष्ट्र को समुन्नत करते हैं। उक्त बातें प्रो डॉक्टर आर.एन खरागा पूर्व रसायन विभागाध्यक्ष, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने शिक्षक दिवस के समारोह पर आयोजित दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णाविहार वासुदेवपुर में कही। वहीं स्कूल के संस्थापक राज ऋषि आचार्य सुरेश्वर जी महाराज ने आनलाइन माध्यम से शिक्षकों एवं बच्चों को शुभकामना प्रेषित करते हुए कहा कि शिक्षकों का यह धर्म बनता है कि वह बच्चों के आत्म शक्ति को जगाएं। समाज के एक अच्छे नागरिक बनाकर

उसे राष्ट्र उन्नत में सहयोग करें। तथा डॉ कुमार अरुणोदय ने प्रेषित संदेश में कहा कि शिक्षक भविष्य द्रा होते हैं। बच्चों का भविष्य निर्माण करना ही उनका परम धर्म होता है। इस अवसर पर डॉ राधाकृष्णन एवं स्कूल की संस्थापिका मां कृष्णा सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्कूल के प्राचार्य ए के कश्यप ने शिक्षकों एवं बच्चों को शुभकामना देते हुए कहा कि शिक्षक स्वतंत्र चेतना के प्रतीक होते हैं। वह एक एक व्यक्ति विशेष नहीं अपितु समष्टि के प्रतीक होते हैं। अपने आचरण से बच्चों का सही दिशा निर्देश करना ही उनका कर्तव्य होता है। इस अवसर पर केक काटिंग, भाषण प्रतियोगिता, संगीत, भाग नृत्य, के द्वारा बच्चों ने अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाई। कार्यक्रम का संचालन अल्पिफया अकील एवं धन्यवाद ज्ञापन भी किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सम्मानित किया गया।

विद्यार्थियों को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिये : मदन सहनी



प्रातः किरण

दरभंगा। महात्मा गाँधी शिक्षण संस्थान, बाजितपुर, बीएमपी 13 के निकट में शिक्षक दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी, मुख्य अतिथि बेनीपुर के विधायक प्रो-0 विनय कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ संदीप तिवारी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों सहित विद्यालय के चेयरमैन हीरा कुमार झा, पूर्व प्राचार्या डॉ प्रभा मल्लिक, प्राचार्या श्रावणी शिखा और वाजितपुर शाखा के प्राचार्य एवं के दार से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित उन्हें नमन किया गया। विद्यालय की प्राचार्या श्रावणी शिखा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में चेयरमैन हीरा कुमार झा ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपराानुसार पाग, अंगवस्त्र, पुष्प गुच्छ एवं मोमोटे से किया। अपने स्वागत उद्बोधन में आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए चेयरमैन ने भारतीय संस्कृति

एवं सभ्यता को आत्मसात करने के साथ साथ जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाने की बात की। शिक्षकों के कार्यशैली को एक दीप की तरह स्वयं जलकर समाज को प्रकाशित करने वाला बताया। उद्घाटनकर्ता मंत्री मदन सहनी ने शिक्षक दिवस की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए विद्यार्थियों को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराते हुए कई उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य अतिथि डॉ विनय कुमार चौधरी ने गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को अपने गुरुओं के प्रति आस्थावान होने के लिए कहा। साथ ही शिक्षण को सुगम बनाकर विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी शिक्षक - शिक्षिकाओं को वस्त्रादि प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय की प्राचार्या डॉ प्रभा मल्लिक को सेवानिवृत्ति के अवसर पर भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही पूर्व शिक्षिका कुमारी झा और शिक्षक नवीन कुमार चौधरी को भी विदाई दी गई। आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य ए के दार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया

सदस्यता अभियान को लेकर घर-घर जायेंगे भाजपा कार्यकर्ता : संजय सरावगी

बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ नगर विधायक ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर बैठक

प्रातः किरण

दरभंगा। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कार्य करता हूँ एवं तीनों मंडलों के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि प्रत्येक घर-घर जाकर हमारे कार्यकर्ता घर के एक सदस्य को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। उनसे आग्रह करके पार्टी की ओर से प्रदत्त मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके पार्टी की सदस्यता को अंगीकार करवाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नन्दा के दरभंगा आगमन को लेकर बुधवार को आवासीय परिसर कार्यालय पर विधानसभा में सतराह दल के सचेतक सह नगर विधायक श्री सरावगी ने बीजेपी बूथ अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को लेकर काफी गंभीर एवं प्रेरणादायक ढंग से कार्य करने का आह्वान किया। नगर विधायक ने कहा कि केंद्रीय



स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत अभूतपूर्व ढंग से मिथिला की संस्कृति के अनुरार किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन तो करेंगे ही साथ-साथ दरभंगा एवं मिथिलांचल के विकास को लेकर भी काफी गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करेंगे। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ धर्मशिला गुप्ता ने भी बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर हम लोग की जान से जुट जाएंगे और अपने सदस्यता अभियान की इस मिशन को पुरी तमयता

से सफलता के मुकाम तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम संचालन लक्ष्मण झुनझुनवाला ने किया। बैठक में पुर्व विधान परिषद डॉ अनून साहनी, सुजीत मल्लिक, अंकुर गुप्ता, संतोष पोद्दार, भाजपा महिला मोर्चा की मीणा झा, राज तिवारी, जीतू ठाकुर, राजू झा, रतन पासवान, ब्रह्मदेव पासवान, गुड्डू पासवान, अविनाश कश्यप, मुकेश महासेठ, गर्जेंद्र मंडल, सपना भारती, रामबाबू शाह, अशोक साह, बिपिन राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं बूथ अध्यक्ष शामिल रहे।

पुलिस ने गांजा के साथ तीन युवकों को पकड़ा, चार फरार

समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता

उजियारपुर थाना क्षेत्र के चंदौली गांव से पुलिस ने तीन युवकों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि मौके से चार लोग भागने में सफल रहे। बताया गया है कि सभी युवक गांजा बेचने का धंधा करते हैं। पकड़े गये युवकों में रामचंद्रपुर अंधैल चक के जनरारायण सिंह का पुत्र पवन कुमार, श्रोकुण्ड राय का पुत्र उमेश राय तथा चंदौली निवासी रामभात सिंह का पुत्र लालबहादुर सिंह शामिल हैं। जबकि फरार लोगों में चक्रिसराय निवासी नाथो दास का पुत्र राकेश दास, रामचंद्र दास का पुत्र रामनाथ दास, रामचंद्रपुर अंधैल चक निवासी जयकिशोर राय का पुत्र दिनेश राय व एक अन्य शामिल हैं। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार रात चंदौली गांव में पुलिस गश्त ला रही थी। उसी दौरान पुलिस की नजर कुछ युवकों पर पड़ी। छुताछ एवं छाबनीन में मौके से एक किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने तीन युवक को दबोच लिया।


आनंद शंकर गौरव बने वैनी के नए थानाध्यक्ष समस्तीपुर, प्रातः किरण संवाददाता

समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने वैनी थाना में नये थानाध्यक्ष की पोस्टिंग कर दी है। बुधवार को देर रात उन्होंने नगर थाने में तैनात पुअनि आनंद शंकर गौरव को वैनी थानाध्यक्ष बनाने की सूचना दी है। बता दें कि तीन दिनों पहले ही एसपी विनय तिवारी ने वैनी थानाध्यक्ष शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। बताते चलें कि शकील अहमद ने मुसरीघरारी कांड संख्या 120/24 के वॉलेंट कुख्यात शराब कारोबारी राजीव शंकर उर्फ राकेश महतो को वैनी थाना क्षेत्र में उपकरण की अहले सुबह वाहन जांच के दौरान पकड़ा था। बाद में पैसे लेकर उसे थाना पर से छोड़ दिया गया। मामले की शिकायत मिलने पर एसपी विनय तिवारी ने जांच के लिये सदर एसडीपीओ संजय पांडेय को भेजा था। उन्होंने मामले को सत्य पाते हुए एसपी के रिपोर्ट सौंपी।

दुष्कर्म के फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार

मनीगाछी(दरभंगा)। गत 17 मार्च को बाजितपुर पंचायत के दुगौली टोला की कथित दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में फरार अप्राथमिकी अभियुक्तों के घर कोर्ट के आदेश पर बाजितपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने गुरुवार को इश्तेहार चिपकाया है। इस संबंध में बाजितपुर थाना में कांड संख्या- 12/24 दर्ज है। दर्ज कांड में पंचायत के मुखिया पति मनीष मेहता, उप मुखिया मो गुलाब, वार्ड सदस्य संगीता देवी, सरपंच पति मो हसनैन एवं पंच पचकौरी अंसारी के घर पर विधिवत इश्तेहार का तामिला चिपकाया गया। बताते हैं कि बाजितपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 17 मार्च को कथित दुष्कर्म के बाद किशोरी की मौत के मामले में 15 लोगों को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इस कांड के मुख्य आरोपी जेल में है जबकि 9 आरोपी जमानत पर हैं तथा सरपंच पति समेत पांच आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। घटना के संबंध में मृतका के पिता के आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि पीड़िता के साथ सुनील कुमार महतो ने दुष्कर्म किया था। पहले मामले को रजामंदी से स्थानीय स्तर पर सुलझाया गया। पंचो द्वारा दिए गए दंड के रूप में सुनील कुमार के स्वजन ने पीड़ित के पिता को सवा लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। इसका उल्लेख पीड़िता के पिता के द्वारा आवेदन पत्र में किया गया है। घटना के पंद्रह दिनों तक भली चंगी रही पीड़िता की तबियत गत 16 मार्च को बिगड़ी। उसका इलाज डीएमसीएन में कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया लेकिन उसी रात में अचानक उसकी तबियत फिर बिगड़ी और देर रात उसकी मौत हो गई।

जिलाधिकारी ने नगर निगम द्वारा निर्मित यूरिनल का किया निरीक्षण



मधुबनी। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वार्ड ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में स्टॉर्म वाटर ड्रैनेज सिस्टम के तहत बुडको द्वारा निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण स्थल भच्छी महाराजगंज का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टोर्म ड्रैनेज सिस्टम के तहत निकलने वाले अपशिष्ट को उपचारित कर उसे निपटान के लिए सुरक्षित बनाया तथा अवशेष जल को सिंचाई हेतु नहर में प्रवाहित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने ट्रीटमेंट के बाद अवशेष जल के अन्य उपयोग के विकल्पों पर विस्तृत विमर्श किया तथा बुडको अभियंता को इस संबंध में कई आवश्यक दिशानिर्देश दिए। ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में एजेंसी द्वारा कम संख्या में लगाए गए श्रमिकों को देखकर जिलाधिकारी ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अधिक-से-अधिक संख्या में श्रमिकों का उपयोग कर योजना को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, उन्होंने कहा कि स्टोर्म ड्रैनेज प्रोजेक्ट तथा सीवरेज प्लांट निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने थाना चौक पर नगर निगम द्वारा निर्मित यूरिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने यूरिनल के नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया ताकि जिस उद्देश्य से यूरिनल का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य कि पूर्ति हो सके। मौके पर डीडीसी दीपेश कुमार नगर आयुक्त अनिल चौधरी के साथ विभाग के अन्य पदाधिकारी व अभियंता मौजूद रहे।

अज्ञात चोरो ने शिक्षक के घर में की चोरी चोरों के विरुद्ध थाने में दिया गया आवेदन



मधुबनी। जयनगर थाना अंतर्गत हाई स्कूल ग्राउंड के पीछे स्थित जनकपुरी मोहल्ला मे दो दिन पहले अज्ञात चोरो ने फुलपरास घोघड़िया निवासी मिंटू कुमार शिक्षक जयनगर के शिलानाथ स्थित उक्तमित मध्य विद्यालय में नियुक्त भी है। शिक्षक मिंटू कुमार जनकपुरी मोहल्ला में एक किराए के मकान में रहते आ रहे हैं तीन तारीख के दिन स्कूल समाप्ति के उपरांत शिक्षक मिंटू कुमार अपने घर चले गए थे। आगे वे चार तारीख को अपने घर घोघड़िया से अपने स्कूल ससमय पहुंचे थे उन्होंने बताया की भरे किराया के मकान के बगल में रहने वाले राजा राम नाम के व्यक्ति ने मुझे मोबाइल पर सूचित करते हुए कहा की आपके मकान का मेन गेट खुला पडा है मुझे सूचना जब मिली तो उस समय 11 बजकर कुछ मिनट हो रहा था। उस सूचना प्राप्त होते ही विद्यालय से अपने किराए के मकान पर पहुंचा तो मैंने देखा की मेन गेट का ताला टूटा था पुन मे अंदर गया तो रूम का भी ताला टूटा देखा और अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था अज्ञात चोरो के द्वारा केवल भेरे अलमारी में मौजूद सोना और चांदी का कुछ जेवर जिसकी कीमत लगभग पांच लाख रुपया होगा फिर उन्होंने आगे बताया की केवल लगभग पांच लाख रुपए के जेवर चुराकर ले गया। जिसको लेकर शिक्षक ने जयनगर थाने में आवेदन दिया है।

अश्वनी यादव ने उपमुख्यमंत्री को मिथिला परंपरा अनुसार किया सम्मानित



दरभंगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह अलीनगर विधानसभा प्रभारी अश्वनी यादव ने मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा आगमन पर बिहार के यशस्वी उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण एवं कला-संस्कृति मंत्री बिजय कुमार सिन्हा एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह का राज मैदान में मिथिला परंपरा अनुसार पाग चादर सम्मानित कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। साथ में जिला प्रवक्ता सह राधाघाट विधानसभा संयोजक शिवशंकर सिंह ने भी उपमुख्यमंत्री बिजय कुमार सिन्हा का मिथिला परम्परा अनुसार पाग चादर से सम्मानित किये। साथ में किसान मोर्चा के जिला मंत्री पंकज सिंह, अजय सिंह एवं ऊजावतन कार्यकर्तागण उपस्थित थे।

नाले की पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, थाना मे दिया गया आवेदन



मधुबनी भेजा थाना क्षेत्र के करहरा गांव में नाले की पानी बहाने और को लेकर दो पक्षो में विवाद हुआ जिसमें गांव के दबगो ने एक पक्ष के कमलेश कुमार के हाथ और पैर को रस्सी से बांधकर जमकर पीटाई कर दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए वही पीड़ित का पहचान उक्त गांव निवासी अनिल कुमार के रूप में बताया जा रहा है। उसने अपने साथ हुए मारपीत को लेकर करहरा थाने में आवेदन देते हुए बताया कि पानी बहाने और कचरा फेकने से मना करने पर सात से आठ लोगो ने मिलकर भरे साथ मारपीत किया है। इसने बताया की उन लोगो जान से मारने का भी प्रयास किया है वही बीच बचवा करने आई मेरी पत्नी को भी उनलोगो ने गाली गलौज करते हुए मारपीत करने लगा और उससे निर्वस्त्र कर अश्लील वीडियो बनाने का प्रयास किया। जख्मी होने पर सभी को प्राथमिक स्वस्थय केन्द्र में भर्ती कराया गया जहां सभी का इलाज चल रहा है। जान चले बहाद होगे कारवाई इस बिच थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है मामले की जांच कर सभी पर कारवाई किया जाएगा।

शराबी पति के प्रताड़ना से तंग पत्नी और मां की पिटाई करने वाला शख्स को भेजा गया जेल

मधुबनी मधेपुर शराबी पति के प्रताड़ना से तंग आकर मधेपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर दस निवासी सुभाष झा की पत्नी मातंगी कुमारी ने मधेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है दर्ज एफआईआर में नियमित रूप से शराब पीकर घर आने और पत्नी मां के साथ अश्रद्धा करते हुए मारपीत करने जान लेने की कोशिश करने वाले आरोपी शराबी पति सुभाष झा पर लगाया है। सुभाष झा द्वारा किए गए पिटाई से उनके मा रक्षिणी देवी के हाथ की अंगुली फेकर हो गया है वही पत्नी मातंगी कुमारी को पिटाई करके घर में बंद कर दिया, इसी घटना को लेकर के थानाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र राजु ने बताया कि प्राथमिक की दर्ज करके आरोपी सुभाष झा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

संक्षिप्त खबरें

राजद किसान प्रकोष्ठ की हुई बैठक, कई बिंदुओं पर हुई चर्चा

जमुई। झाड़ा राजद किसान प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. गोपाल कृष्ण चंदन कुमार के निदेशानुसार राजद किसान प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में प्रखंड क्षेत्र के गोलकीआम में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें राजद के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं किसान भाईयो के साथ पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु कई बिंदुओं पर चर्चा कि गई। बैठक में किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में गौतम कुमार यादव, उपाध्यक्ष में तुफानी यादव, सचिव में राजकिशोर मंडल का चयन सर्वसहमति से किया गया। बैठक में राजद सुप्रीमों के विचारधारा और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के किसानों के प्रति दृग्राामी सोच जनजन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। मौके पर मौजूद राजद नेता कामदेव यादव, मो. सयाम, सुखिया पुण्य यादव सहित बड़ी संख्या में लोग बैठक में शामिल होते हुए एक स्वर में कहा कि राजद गरीबों की पार्टी है जहां हर धर्म, हर जाति को मान सम्मान दिया जाता है।

गोबिंद के पीड़ित परिजनों से मिले जमुई सांसद

दुख की घड़ी में परिजनों को हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन

प्रातः किरण, संवाददाता

गिद्धौर। प्रखंड के पतसंडा पंचायत निवासी फल व्यवसायी संजय कुमार केशरी के निधन उपरांत गुरुवार को जमुई लोकसभा सांसद अरुण भारती ने गिद्धौर के पतसंडा एवं गंगरा गांव पहुंचकर दिवंगत फल व्यवसायी संजय केशरी एवं गंगरा गांव निवासी अजय सिंह के पुत्र गोबिंद कुमार के निधन उपरांत पीड़ित परिजनों से मुलाकात की एवं घटना की परिजनों से जानकारी ले हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताते चलें कि संजय कुमार केशरी के मौत के बाद पिता शिवनंदन प्रसाद केशरी, मां गीता देवी, पत्नी शांति देवी, पुत्री स्नेहा कुमारी, साक्षी कुमारी, शिवानी कुमारी सहित पूरा परिजन गहरे सदमे में हैं। इधर घटना को लेकर अन्य परिवारिक परिजन भाई शम्भू कुमार केशरी, भाभी वीणा



● पतसंडा निवासी दिवंगत फल व्यवसायी संजय केशरी एवं गंगरा गांव निवासी गोबिंद के पीड़ित परिजनों से मिलते सांसद अरुण भारती

देवी, चंद्र केशरी, चाचा भोला केशरी, चाची पुनम देवी, कमली देवी, जय प्रकाश केशरी, सुमित केशरी, सोनू केशरी आदि परिजनों ने संयुक्त रूप से सांसद अरुण

भारती को जानकारी देते हुए बताया कि दिवंगत संजय घर का इकलौता कमाऊ पुत्र था, मां, पिता, पत्नी एवं तीन मासूम बेटियों की जिम्मेवारी उसके सिर पर थी, संजय के निधन

से पूरा परिवार मर्माहत है। इस मौके पर परिजनों द्वारा बेटियों के शिक्षा एवं जीविकोपार्जन के साधन को ध्यान में रखते हुए सांसद अरुण भारती से मदद की गुहार लगायी गयी है। इधर गिद्धौर के गंगरा गांव निवासी अजय कुमार सिंह के पुत्र गोबिंद कुमार के झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान मौत हो जाने की घटना के बाद गुरुवार को जमुई सांसद अरुण भारती ने गंगरा गांव पहुंचकर गोबिंद कुमार के पिता अजय कुमार सिंह से घटना की जानकारी ली एवं गहरी संवेदना व्यक्त की इस मौके पर मौजूद समाजसेवी कल्याण सिंह, मुन्ना सिंह, मृत्युंजय सिंह सहित कई ग्रामीणों ने झारखंड सरकार उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हुए अत्यवस्था से जमुई लोकसभा सांसद अरुण भारती को अवगत कराया। मौके पर सांसद अरुण भारती ने पीड़ित परिजन से

मामले में झारखंड सरकार से पत्र प्रेषित कर सिपाही भर्ती परीक्षा में मृत हुए कुंदन की मौत पर आश्रितों को नौकरी सहित आर्थिक मदद हेतु सरकारी प्रावधान अंतर्गत हर संभव सहयोग की बात कह झारखंड सरकार का ध्यानाकृष्ट कराने सहित हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताते चलें कि इस घटना के बाद से मृतक के पिता अजय सिंह, माता ललिता देवी बहन नेहा कुमारी, भाई निर्मित कुमार, चाचा मदन सिंह, संजय सिंह, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, भाई विक्की कुमार, सोनू कुमार सहित पूरा परिवार गमगीन है। इस मौके पर सांसद अरुण भारती के साथ लोजपा आर के प्रखंड अध्यक्ष सुमन पांडेय, सांसद प्रतिनिधि सह जिलाध्यक्ष जीवन सिंह युवा लोजपा नेता सुभाष पासवान, रवि शंकर पासवान, राहुल भवेश सिंह, चंदन सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

विमन और साजन ने पाया प्रथम स्थान



● शिक्षक दिवस के पूर्व संस्था विजय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन
● विजय प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकगण

प्रातः किरण, संवाददाता

गिद्धौर। गिद्धौर में शिक्षक दिवस के अवसर पर द डेफिनेट सक्सेस निःशुल्क शिक्षा डीका केंद्र में ओपन जिला स्तरीय युगल विजय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रखंड क्षेत्र के अलावे जिलाभर से छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत डेफिनेट सक्सेस का प्रमुख अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार ने किया। इस अवसर पर सांसद अरुण भारती ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों में विजय प्राप्त करने वाले छात्र विमन और साजन कुमार रहे। जबकि दूसरे स्थान पर साक्षी कुमारी व अर्चना कुमारी रही। एवं तीसरे स्थान पर गिद्धौर के साहिल चौहान व प्रणव कुमार की जोड़ी ने अपना कब्जा जमाया। विजय प्राप्तियों को जना शिक्षण संस्थान जमुई के निदेशक अंशुमान व पत्रकार जितेंद्र कुमार पिंटू, सोनम कुमार, आनंद कंचन व शिक्षाविद सौरभ मिसौनिया द्वारा मेडल एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद सभी प्रतिभागियों से संचालित सुभाषिनी मिसौनिया ने कहा कि ऐसे प्रतियोगिता में भाग लेकर ही छात्र छात्रा आगे बढ़ते हैं। इस तरह के आयोजन को ही ग्रामीण क्षेत्रों में छिपे महोवी छात्र छात्राओं को पहचान हो पाती है। इस दौरान रिया कुमारी, अर्चना कुमारी, नंदनी कुमारी, संजना कुमारी सहित दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थीं।

शिक्षक के बगैर सभ्य समाज की कल्पना नहीं: संतोष सिंह



प्रातः किरण, संवाददाता

गिद्धौर। मानव जीवन में शिक्षक का अतिविशेष महत्त्व होता है। शिक्षक बच्चों को ज्ञानवान और सुसंस्कृत बनाते हैं। एवं उन्हें जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जिसमें उंच-नीच, जातिगत भेदभाव, ईर्ष्या, वैमनस्य आदि दुगुणों का कोई स्थान न हो उक्त बातें प्रो. बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल, सत्य साई पब्लिक स्कूल, गिद्धौर सेन्ट्रल स्कूल व विनोबा भावे पब्लिक स्कूल सहित प्रखंड भर के स्कूल में गुरुवार

को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक संतोष सिंह, अमर सिंह, विश्वास सिंह, संतोष केशरी व राजेश कुमार ने कही। कार्यक्रम के दौरान डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पे प्रकाश डालते हुए प्रधानाध्यक्ष पायल सिंह, राजेश कुमार व अमर सिंह ने कहा कि शिक्षक और शिक्षा के बगैर सभ्य एवं शिक्षित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा का मार्ग गुरु के दरवाजे से होकर जाता है। गुरु अपने ज्ञान एवं अनुभव से मामूली इंसान को आम से खास बनाते हैं। इस अवसर

पर स्थानीय अवकाश प्राप्त कई वरिष्ठ शिक्षकों को स्कूली छात्र छात्राओं एवं स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं गिद्धौर में कार्यक्रम के दौरान अमर सिंह, विश्वास सिंह, संतोष केशरी, राजेश कुमार, पुनम सरकार, पायल सिंह, निशि सिंह, पूजा मिश्रा, अमृता कुमारी, पंकज मालवीय, राजेन्द्र यादव, टिकू कुमार, प्रीति सिंह, निशा कुमारी, बबिता कुमारी, तनिषा कुमारी, रिया सिंह, अवधेश कुमार पण्य, पुनम कुमारी, संतोष केशरी, सहित दर्जनों स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे।

दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में पांच लोग हुए घायल, अस्पताल में हुआ इलाज

जमुई। झाड़ा थानाक्षेत्र के रांगकला गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसमें दोनो पक्षों से कुल पांच लोग घायल हो गए। एक पक्ष से घायल की पहचान प्रदीप यादव तथा दूसरे पक्ष से हुरो यादव उसकी मां गंगिया देवी, बेटी फुलवंती देवी, पत्नी नुनवतिया देवी के रूप में हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां सभी घायलों का इलाज किया गया। घायल प्रदीप यादव के भाई डंगो यादव ने बताया कि मेरा भाई चचेरा भाई से विवाद हो रहा है। जब मेरा भाई बुधवार की शाम को बाइक से अपने घर आ रहा था कि पहले पक्ष से कुल 12 लोगों ने मेरे भाई को पकड़कर अपने घर ले गया और उसके बाद मेरे भाई साथ हुरो यादव, नुनवतिया देवी सहित कुल आठ लोगों ने मारपीट करते हुए तलवार से वार कर घायल कर दिया। जब मेरा भाई हो हल्ला मचाया तो लोग जुटे तो किसी तरह




मेरा भाई उनलोगों के चंगुल से बचकर निकला। घायल के भाई ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट किया। दूसरे पक्ष से घायल हुरो यादव ने बताया कि बिना किसी बात को लेकर प्रदीप यादव, गंगो यादव सहित कुल दस लोगों ने नशे की हालत में घर पर आया और हमलोगों के साथ लाठी, डंडा, भाला आदि से मारपीट करने लगा और मेरे घर के सदस्यों को घायल कर दिया। दोनो पक्षों की ओर से घटना को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रार्थमिकी दर्ज कराई है।

बच्चों के झड़प एक महिला के साथ हुई मारपीट

जमुई। झाड़ा थानाक्षेत्र के डोमाव गांव बच्चों के बीच हुए झड़प की शिकार करने पर एक महिला के साथ उसकी गौतनी ने मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया। जिसे इलाज के लिए परिजनों की मदद से रेफरल अस्पताल लाया गया जहां घायल महिला का उपचार किया गया। घायल महिला की पहचान रंजू देवी के रूप में हुई है। घायल महिला ने बताया कि मेरा बेटा गौतनी चांदनी देवी के बेटे के साथ खेलने के दौरान विवाद होने के बाद दोनो बच्चा आपस में लड़वाई किया। जिसपर मैं अपने बच्चों को छुड़ाते हुए गौतनी से शिकायत किया तो उसने मारपीट करते हुए सिर पर ईंट से वार कर घायल कर दिया।

गिद्धौर के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा सह लक्ष्मी पूजा कार्यक्रम की हुई उद्घोषणा

ज्योतिषाचार्य डॉ. विभूति नाथ झा ने की पुजा कार्यक्रम की घोषणा



प्रातः किरण, संवाददाता

गिद्धौर/जमुई। गिद्धौर राज रियासत के गौरवशाली इतिहास में यहां के दुर्गा पूजा कार्यक्रम विशेष महत्त्व है। शारदीय नवरात्र एवं शरद पूर्णिमा पर होने वाले मां महालक्ष्मी की पूजा यहां श्रद्धाभाव से की जाती है। इसका इंतजार यहां के लोग बहुत ही बेसब्री से करते हैं। शारदीय दुर्गा पूजा में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। जबकि शरद पूर्णिमा पर मां महालक्ष्मी की पूजा होती है। उलाई एवं नागी-नकटी नदी के संगम तट पर चंदेल राजाओं द्वारा स्थापित मां दुर्गा मंदिर में तंत्रिक विधान से प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अनवरत होती आ रही है। वर्ष 2024 के शारदीय दुर्गा पूजा सह लक्ष्मी पूजा कार्यक्रम की उद्घोषणा गिद्धौर राज रियासत के विद्वान ज्योतिषाचार्य डॉ. विभूति नाथ झा द्वारा कर दी गई। इस वर्ष गुरुवार, 3 अक्टूबर से रविवार, 13 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र है। महाष्टमी शुक्रवार, 11 अक्टूबर; महानवमी शनिवार, 12 अक्टूबर और रविवार, 13 अक्टूबर

सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन

● नेताओं ने कहा सत्ता गद में धूराए हो गया है शासन प्रशासन के लोग

प्रातः किरण ब्यूरो

मुंगेर (बिहार)। शहर के मुख्य सड़क का निर्माण, बढ़ते अपराध, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमव्यवस्था सहित कई अन्य जन समस्याओं को लेकर आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का पुतला फूंक अपने आक्रोश का इजहार किया और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सपाईं मारवाड़ी धर्मशाला से जुलूस निकाल शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए जुबली वेल चोक पहुंचा और पुतला फूंक अपना आक्रोश जताया।



वार्ड आयुक्त अमर शक्ति ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव जन समस्याओं पर आधारित राजनीति करती है आज शहर के मुख्य सड़क की दुर्दशा अति भयावह है लेकिन शासन प्रशासन से लेकर स्थानीय सांसद और विधायक खांमोश है जिसे लेकर हम सपाईं चुप नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन में मुख्य रूप से शामिल जिला मीडिया प्रभारी सह नगर के संगठन प्रभारी मनोज क्रांति ने कहा कि सूबे बिहार सहित जिले में बढ़ते अपराध शासन प्रशासन के निकम्पेन का प्रमाण है कहां है नीतीश कुमार का शासन जनता दूढ़ रही है, अगर यही रवैया रहा और शासन प्रशासन के लोग नहीं चेती तो निकम्मी सरकार के विरुद्ध समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन के लिए सड़क

उत्तरेगी। वहीं पूर्व नगर अध्यक्ष राज कुमार शर्मा ऊर्फ इल्लाह उपाध्यक्ष डॉ सुधीर गुप्ता प्रधान महासचिव सह वार्ड आयुक्त रूपेश कुमार छोट्टे ने कहा कि जो सरकार विकास का सबबबाग दिखती है वैसे सरकार में शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है ना ही एक्स रे की सुरक्षा का ये आलम ये है की रक्षक ही भक्षक बन गया है, ऐसी तानाशाह सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौके पर नगर सचिव प्रमोद ठाकुर दिनेश साहू मीडिया प्रभारी कुमार प्रभाकर विरेंद्र दास अशोक शर्मा जीवन पासवान कुणाल कुमार राजकुमार जीवन तांती देवन यादव भोला दास अजय साव मो सोहेल रंजीत सहित अन्य सपाईं उपस्थित थे

दंपति के साथ हुए बर्ताव मामले में पांच लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

एक जब्त मोबाइल ने घटना का विडियो भी किया बरामद



प्रातः किरण, संवाददाता

जमुई। झाड़ा तारापुरा क्षेत्र में दंपति के साथ ग्रामीणों के द्वारा जूता चप्पल पहनाकर उसे गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर थाना में एसडीपीओ राजेश कुमार के द्वारा पीसी किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि दंपति के साथ हुए बर्ताव का विडियो सामने आया और महिला के द्वारा थाना में गांव के कुछ नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन को गुरुवार को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त कार्ड के अभियुक्त के द्वारा वादियों की घर के पास पहुंचकर वादियों के साथ दुर्व्यवहार कर र है है। इसके पश्चात

मेरे नेतृत्व में एसएचओ संजय सिंह, पुअनि ज्योति प्रकाश, कुंज बिहारी, नंदन कुमार, परि पुअनि गोविंद दास, पूजा कुमारी, जिला इकाई के सदस्य एवं सशस्त्र बल की एक टीम बनाई गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए गडिटी टीम उक्त गांव पहुंचकर पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान तारापुरा गांव के रहने वाले कृष्णा कुमार, रामरूपरूप कुमार, अरविंद कुमार, विशाल कुमार तथा गणेश मंडल के रूप में हुई है। जिसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जिसमें घटना का विडियो प्राप्त हुआ है। एसडीपीओ ने बताया कि इस घटना में अन्य जो भी नामजद और अज्ञात लोग है सभी कि गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है।

प्रखंड भर में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस, स्कूली बच्चों ने केक काट कर डॉ राधाकृष्णन की मनाई जयंती

कई स्कूलों में कार्यक्रम का हुआ आयोजन

जमुई/ई० अलीगंज-गुरुवार को प्रखंड में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरकारी-गैरसरकारी विद्यालयों, सामाजिक संगठनों, सरकारी कार्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षक सम्मान समारोह विविध मनाया गया। वहीं अलीगंज स्थित नमन विद्या पब्लिक स्कूल, विवेकानंद विद्या पीठ कॉन्सेप्ट, फोनक्स वर्ल्ड स्कूल, संत मेरी स्कूल, आनंद विद्या निकेतन, सहित अन्य स्कूलों में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।



करते हुए कहा कि शिक्षक दिवस का उद्देश्य शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है। यह दिन शिक्षकों को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका, उनके योगदान और उनके द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में लाए गए सकारात्मक बदलावों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के माध्यम से समाज में शिक्षा के महत्व और शिक्षकों की भूमिका को प्रमुखता दी जाती है, जिससे विद्यार्थियों और समाज में शिक्षकों

के प्रति आदर और मान्यता बढ़ती है। यह दिन शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी मेहनत की सराहना करने का भी अवसर प्रदान करता है। वहीं विवेकानंद विद्यापीठ कॉन्सेप्ट स्कूल में शिक्षक एवं स्कूली बच्चों ने धूमधाम से मनाया, वहीं प्राचार्य अभय मोहित ने सभी बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा की डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधा कृष्ण का उद्देश्य शिक्षा, दर्शन और संस्कृति के माध्यम से मानवता की सेवा करना

था। वे एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति थे। उनका उद्देश्य शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाना, नैतिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देना था। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय दर्शन के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की, जिससे दोनों का समन्वय हो सके। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है, जिससे वह समाज के लिए उपयोगी बन सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली ने एक साधारण शिक्षक से देश की सर्वोच्च पद तक को सुराभित किया वह हर लोगों को आदर व सम्मान, देते थे उन्होंने कहा था कि अच्छा टीचर है जो ता उम्र सीखा रहता है और अपने छात्रों से भी सीखने में कोई परहेज नहीं दिखाता है, उन्होंने बच्चों से कहा की तबीयत खराब था आज हम लोगों को उनके किए कायों से सीख लेने की जरूरत है शिक्षक का एक सम्मान होता है, मौके पर स्कूल के सभी शिक्षक सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे

प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस

प्रातः किरण संवाददाता

संग्रामपुर (मुंगेर)। प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन का जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। जहां शिक्षकों सहित छात्र-छात्राओं ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रखंड मुख्यालय स्थित रानी प्रभावती भगत महाविद्यालय, संत मेरी इंग्लिश स्कूल, न्यू होप कोचिंग संस्थान सहित कई शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए न्यू होप कोचिंग संस्थान के निदेशक सह भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार रौशन उर्फ बमबम ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा अब हमें पाठयक्रम के अलावा



छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देने पर जोर देने ही आवश्यकता है। इन दिनों छात्रों में नैतिकता का पतन हो रहा है, जो चिंता का विषय है। छात्रों को नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। तभी आधुनिक युग के छात्र चरित्रवान बनेंगे। मौके पर उपस्थित कोचिंग संस्थान के शिक्षक कुंदन कुमार, रिदेश केशरी आदि ने कहा कि डा. राधाकृष्णन की लोकप्रियता के कारण उन्हें देशरत्न भी कहकर पुकारा जाता था। हम सभी शिक्षकों को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर एक आदर्श शिक्षक के रूप में आकर छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में सही मार्ग प्रशस्त करना है।

आदर्श युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के द्वारा शिक्षक दिवस पर किया गया मठ्य आयोजन

प्रातः किरण संवाददाता

जैसे महापुरुषों के जन्म लेने से हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसे महापुरुषों से सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने सपनों का मंजिल बनाना है तो संघर्षों का पथ चलना ही होगा। जीवन में हमेशा ऊंचा उठने, आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं मौके पर उपस्थित ललन का गुरुवार देवे ने कहा कि शिक्षक दिवस पर पौधारोपण करना बहुत ही विशेष है, कार्वन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करने वाले वृक्षों की संख्या रिनरंर घटने से वायुमंडलीय तापन बढ़ गया है जिससे जलवायु परिवर्तन का खतरा है। इस कार्यक्रम में बाल संस्कार शाला राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर बिना केक काटे व बिना मोमबत्ती बुझाए शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बालमुकुंद, रूपेश, नीतीश, बिंदू, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, चाणक्य

अनुमंडल कार्यालय के कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम

प्रातः किरण ब्यूरो

मुंगेर (बिहार)। बीएमओए कर्मचारी संघ गोप गेट के आह्वान पर हवेली खड़गपुर अनुमंडल के सभी कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर एनपीएस एवं यूपीएस के विरोध में काम किया। इस संबंध में अध्यक्षता कर रहे प्रवीण कुमार ने बताया कि गुरुवार के दिन अनुमंडल कार्यालय खड़गपुर एवं भूमि सुधार उप समहता कार्यालय खड़गपुर के सभी कर्मचारियों ने 2 से 6 सितंबर 2024 तक काला बिल्ला लगाकर ठहर/सह का विरोध करते हुए कार्यालय में काम नहीं किया। मौके पर अनुमंडल कार्यालय एवं भूमि सुधार उपसहता कार्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया। शैलेंद्र कुमार सिंह आशुतोष कुमार अभिषेक कुमार नीतीश कुमार विभांशु कुमार अमीन रचना कुमारी एवं सोहन कुमार सहित अन्य कई कर्मों मौजूद थे।

संक्षिप्त खबरें

नौदिवसीय अखण्ड अष्टयाम की पूर्णाहुति

गढ़ा। विश्व कल्याण के उद्देश से सराय बक्स आयोजित श्रीधर बाबा राधे कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से चल रही नौ दिवसीय अखण्ड अष्टयाम की गुरुवार को पूर्णाहुति हुई पिछले 9 दिनों से लगातार हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे महामंत्र की जाप, हवन, अखंड दीप पूजन रामायण पाठ और भंडारे की आयोजन चल रही थी। महामंत्र की जाप से आसपास की गांव की माहौल भक्ति में बनी हुई थी। महिला बच्चे बुजुर्ग बूढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पूर्णाहुति पर पूर्व मंत्री सह मद्दौरा विधायक जितेन्द्र राय द्वारा के तत्वाधान में यदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल छपरा द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा लोगों ने प्रयाद ग्रहण किया भंडारा सुबह से देर शाम तक चलती रही। यदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल के टीम द्वारा लोगों को श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कराया गया। पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के निर्माणकर्ता हैं। अंत में किसी भी प्राणी को भगवान श्री कृष्ण के शरण में ही जाना पड़ता है। जो भक्त जिस स्वस्वरु विधि में पूजन करता है, सभी श्री कृष्णा स्वीकार करते हैं इसलिए मानव को माधव की शरण में जाने से ही कल्याण होगा। व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से दुख का कारण और निवारण दोनों हैं। अगर अच्छा कर्म किया जाए तो सुख मिलती है और बुरे कर्म किए जाए।

पोखरा में डूबने से एक बालक की मौत

लहलादपुर: जनता बाजार थाना क्षेत्र के सीरिस्तापुर बाग स्थित पोखरा में डूबने से एक बालक की मौत हो गई. मृतक स्थानीय थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव के बड़ा कुरेशी टोला निवासी रेयाज कुरेशी का आठ वर्षीय पुत्र कौशर कुरेशी बताया जाता है. परिजनो ने बताया कि मृतक खेलते-खेलते पोखरा किनारे चला गया तथा पोखरा में लूढ़क गया. उसे पोखरा में गिरे देखकर आस-पास के लोग वहां पहुंचे तथा उसे बाहर निकाले घटना स्थल पर पहुंच कर कलाम मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष सह समाजसेवी पणु खां ने बालक को पीएचसी, लहलादपुर इलाज के लिए लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. क्षेत्र में घूम रहे पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को जब घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने भी पीएचसी पहुंच कर परिजनो को संतावना दिया.

धूमधाम के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस



पानापुर(सारण) प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक दिवस पूरे धूमधाम व हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला बच्चे सुबह से ही विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षक दिवस की तैयारी में जुट गए थे। प्रखंड के उल्क्रमित मध्य विद्यालय भोरहां, महम्मदपुर एवं उल्क्रमित मध्य विद्यालय पानापुर में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राम ने भाग लेकर शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित छात्रो को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सफलता के पिछे शिक्षको का बड़ा योगदान रहता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते है। उन्हें हम सभी को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने सभी छात्रो से पूरी मेहनत व लगन के साथ पढ़ाई करने के साथ साथ अपने गुरुजनों का सम्मान करने का सीख दिया। इसके अलावे प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय बैलौर, उच्च माध्यमिक विद्यालय पानापुर, मेंथौरा, भोरहां, पृथ्वीपुर प्राथमिक विद्यालय, खजूरी, पतेहपुर, बसहियां, धनौती, फकुली, लगुनी, सेमराहां, सहित अन्य विद्यालयों में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया सभी विद्यालयो के शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।

वाहन चालक हो जाएं सावधान। वरना चालान कट जायेगा ऑनलाइन

वाहन चालक हो जाए सावधान! अगर आप वाईक चलक हैं तो सिर पर हेलमेट और प्रत्येक सहित सभी कागजात अनिवार्य रूप से लेकर चलें और अन्य वाहन चालक हैं तो सीट बेल्ट भी लगा लें, सभी चालक अपने वाहनों का स्पैड नियंत्रित रखें एवं अपने लेन में ही चलें, गलत साईड न चलें, अनस्थायी आप सोचेंगे कुछ नहीं हुआ और आपका मौलाना कट दिया जायेगा और आपका बीबाइल पर पैसेज मिल जायेगा, देरी होने पर जुमानां बड़ सकता है और दुबारा चालान कटने पर जुमानां राशी भी। मिली जाकारगी के मुताबिक इसको लेकर एसडीएम शिवाक्षी दक्षिण ने एक कमिटी गठित कर सख्त निर्देश दी है।

65% आरक्षण दो और स्मार्ट मीटर वापस करो

प्रातः किरण, संवाददाता

छपरा कार्यालय। 65% आरक्षण को संविधान के नवीं अनुसूची में शामिल कराने, स्मार्ट मीटर योजना की वापसी, बिजली उपभोक्ताओं को 200युनिट बिजली फ्री, प्रत्येक भूमिहीन को 5 डिस्मिल जमीन, केरल के तर्ज पर 3000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ध्वस्त विधि व्यवस्था में सुधार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, किसानों को फसल का लाभकारी मुल्या हेतु एम.एस.पी.को कानूनी दर्जा , जे पी यु की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार सहित जनता के अन्य ज्वलन समस्याओं के विरुद्ध गुरुरार को सी.पी.आई(एम) ने समाहर्ता के समक्ष प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने लाल झंडा और मांग सरकार - लिखित तख्तियाँ ले कर शहर में मार्च किया। प्रदर्शन नगर निगम मैदान से आरंभ हुआ और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचा जहां छः सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल समाहर्ता से मिलकर 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन साँपा। प्रतिनिधिमंडल में राज्य सचिवमंडल सदस्य अहमद अली, मांडी विधायक डॉ. सत्येंद्र यादव, जिला सचिव बटेश्वर कुशवाहा,

समाहर्ता के समक्ष सी.पी.आई(एम) का विशाल प्रदर्शन




जिला सचिवमंडल सदस्य सुनील राय एवं शिवशंकर राय शामिल थे। इस अवसर पर अरुण तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने एक स्वर से विभिन्न स्तर पर सरकार की विफलताओं का जिक्र किया। 65% आरक्षण के प्रति सरकार की कानूनात्मक रवैया की आलोचना करते हुए कहा कि इसे संविधान की नवीं सूची में शामिल कराने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार मुफ्त अनाज के मामले में अपनी पीठ पथपाती है पर सच्चाई यह है कि जनता को सबसे घटिया किस्म के चावल और गेहूँ दिये जा रहे हैं। जन

श्रद्धांजलि: वरीय पत्रकार राकेश सिंह को भार्या शोक

प्रातः किरण, संवाददाता

छपरा कार्यालय। जिला सचिव शंकर और बुद्धिजीवी वर्ग में उस समय शोक की लहर दौड़ रही जब वरीय पत्रकार राकेश कुमार सिंह की धर्म पत्नी के देहांत की सूचना मिली। श्री सिंह की अर्धांगिनी रेणु सिंह का देहावसान बड़ोदरा में हो गया। उन्हें पेट की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मगर देर रात हृदयाघात हुआ और उन्होंने अंतिम सांस ली। वे एक कुशल गृहिणी, आदर्श मां और सफल शिक्षिका व शिक्षालय थीं. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर किया। उन्हें पूरे विधि में फस्ट क्लास में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। 1987 में वो प्राचार्य स्व सुशील सिंह की बहू और राकेश सिंह की पत्नी बनीं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। मगर उन्होंने आयरन लेडी के रूप में उभरा सामना करते हुए चीजों को हमेशा व्यवस्थित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने 15 वर्षों तक ब्रजकिशोर किंडरगार्टन में सौभाग्य सेविका शिक्षिका के रूप में कार्य किया। उस रूप में भी उन्होंने



अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके बहुत से शिष्य उच्च पदों पर पहुंचे और अपने जीवन में सफल ईमान बने। अपने पिछे उन्होंने दो पुत्री छोड़ा है। जिनमें कौशिकी बैक ऑफ बड़ोदरा में सीनियर मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। जबकि छोटी बेटी ईशानी इंजीनियरिंग करने के बाद केनरा बैक बंगलूर में आईटी स्पेशल ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हैं। उनका अंतिम संस्कार गुरुरार को बड़ोदरा में ही किया गया। निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में डॉ एचके वर्मा, डॉ एलबी यादव, मुकेश कुमार सिंह, सारण जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉ विद्याभूषण श्रीवास्तव, महासचिव जाकिर अली, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार, संपादन सचिव बसंत सिंह, प्रवक्ता नदीम

धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस



प्रातः किरण, संवाददाता

माँझी प्रखंड के विभिन्न सरकारी तथा गैर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। ए वन क्लासेज कम्प्यूटर कोचिंग सेंटर मेहदीगंज में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में बोलते हुए सारण जिला जनसुराज के संयोजक ब्रजेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना भदानी ने डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों व आदर्शों पर चलने की अपेक्षा लेने की छत्र छात्राओं से प्रेरणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षक गाईड होते हैं। वे वही है जो हमें उन रास्तों पर चलना सिखाते हैं जिन

पर चलने से हमारा उत्थान होता है। उन्होंने कहा कि टीचर्स का म मतलब केवल उस दिन को मनाया जाना नहीं बल्कि अपनी टीचर्स की बातों को मानकर अच्छे बनना है। समारोह में बोलते हुए कोचिंग संचालक अतुल कुमार ने 1962 में राधा कृष्णन जी को जयंती को ही शिक्षक दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी राधा कृष्णन राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक के साथ संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे दर्शनशास्त्र विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह मैसूर विश्वविद्यालय में बतौर दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए भारत सरकार ने 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया राधा कृष्णन जी के व्यक्तित्व पर विद्यालय के निदेशक श्री सिंघाशरण प्रसाद जी ने विस्तार से चर्चा की और विद्यालयके सभी छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन किया इस अवसर पर हसनैन नेयर, अशोक गिरी, नीरज बाबा, सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे कार्यक्रम का संचालन प्रभाकर कुमार ने किया।

मेहरबान है मौसम होगी अरहर की बंपर पैदावार



जलालपुर। पिछले कई सालों से मौसम की बेरखी के चलते अरहर की फसल नहीं हो रही थी। कभी लगातार वर्षा तो कभी पानी के अभाव के चलते इसकी खेती नहीं हो पाती थी लेकिन इस वर्ष मौसम मेहरबान रहा। किसानों ने जमकर अधिक पैमाने पर इसकी खेती की है। प्रखंड क्षेत्र में इस बार 2 हजार हेक्टेयर में अरहर की बुआई हो गई है। फसल लहलहा रही है। कई साल के बाद अरहर की लहलहाती फसल देखकर किसानों में बहुत ही हर्ष है। इसल के साथ ही अरहर की अच्छी पैदावार की संभावना देख किसान खेद रहे हैं कि भगवान इस साल भात के साथ ही दाल की भी व्यवस्था कर दिए हैं। क्षेत्र में सबसे अधिक अरहर की खेती कोषा प्रसन्नता में की गई है। यहां की मिट्टी अरहर के लिए बहुत ही अनुकूल है। रेतिले और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होता है। कोषा प्रसन्नता स्टेशन के दक्षिण और उत्तर में बड़े पैमाने पर खेती की गई है। स्टेशन के दक्षिण के बलुआ जमीन में जो अरहर होती है उसका दाल बहुत जल्द गल जाता है। किसानों का कहना है कि यह दाल कानपुरी दाल को स्वाद



और गलने के मामले में फेल कर देता है। कोषा के पुराने अनाज व्यापारियों ने बताया कि सम्होता के नम पर हमलोग कोषा के दाल को बेंच देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत विश्व में सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश था। पूरे विश्व में भारत अकेले 80 प्रतिशत तक अरहर का उत्पादन करता था। मौसम की मार के चलते यह रिकार्ड टूट गया और बाहर से आयात करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने दलहन फसल को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को ऋण के आखिरी सप्ताह यानी आषाढ़ मास में की जाती है। इसके साथ साथ उड़द, पटसन, मक्का और बाजरे की भी बुआई कर दी जाती है। षे सब बर्हई फसल कहलाते हैं। तीन महीने के भीतर ही ये फसल तैयार होकर अरहर के खेत से निकल जाते हैं। मक्का बोने के दौरान निरक्षर होने से खेत साफ हो जाता है और अरहर की फसल को लाभ मिल जाता है। इसकी कटनी मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर

किये जा रहे हैं। जनता काफी भयभीत है जिसका फायदा बिचौलिये उठा रहे हैं। सरकार ने बिजली को अडानी के हाथों सौंप दिया है फलतः स्मार्ट मीटर के जरीये लूट की शुरूआत हो रही है। डबल इंजन की सरकार जनता की आंकक्षाओं के विरुद्ध काम कर रही है। हर जगह साम्प्रदायिक सोहार्द बिगाड़ने की साजिश देखी जा रही है ऐसी परिस्थिति में माकपा चुप नहीं रह सकती है।अभी तो यह सांकेतिक आन्दोलन है यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर आने वाले दिन में हम जुझारू आन्दोलन शंखनाद करने जा रहे हैं।

सभा को मुख्य रूप से राज्य सचिवमंडल सदस्य अहमद अली, मांडी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव, जिला सचिव बटेश्वर कुशवाहा, जिला सचिवमंडल सदस्य सुनील राय एवं शिवशंकर राय अरुण तिवारी ,विनोद राय, वैदनान्द प्रसाद, मोहम्म, सुभाष माँझी,संजू यादव,गायेत्री देवी,दलन सिंह,दिनेश मुखिया, रवीन्द्र गुप्ता, नथनी नारा, रामजनय राय, गोखरा नाथ सिंह, बच्चा प्रसाद,राजू मुखिया,राजू यादव, राजू टाईगर आदि ने संबोधित किया।

शिक्षक दिवस पर क्वीज प्रतियोगिता आयोजित



प्रातः किरण, संवाददाता

छौड़दानो। प्रखंड क्षेत्र के दरपा पंचायत अंतर्गत उत्कर्मित मध्य विद्यालय बीएमसी पीपरा उर्वर में शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवार को सामान्य ज्ञान क्वीज प्रतियोगिता आयोजित की गयी। प्रतियोगिता की शुरूआत भारतरत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर दीपाचर्न, पुष्पाचर्न और माल्यार्पण से हुई। बता दें कि बच्चों को कर्मनाशा, सोन, बागमती तथा पुनपुन नामक समूह में विभाजित किया गया था। प्रत्येक घुषन के लिए पांच अंक निर्धारित था। अंततः समूह सोन विजयी घोषित हुआ। विजयी समूह के प्रत्येक सदस्य को मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही विजयी टीम को ट्रॉफी दी गयी।अधिकतम प्रश्नों के जबाब देनेवाला को मैन आफ द क्वीज घोषित किया गया। उक्त बाबत बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षक शिव शंकर गिरि ने बताया कि पांच सितंबर को तमिलनाडु में जन्मे डॉ. राधाकृष्णन ने अपने अध्ययन और विचारों के माध्यम से न केवल भारतीय फिलॉसफी को नए आयाम दिए, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी भारतीय संस्कृति का भी प्रचार-प्रसार किया। उनके सम्मान में, उनके जन्मदिन को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

धूमधाम से मनाई गई जयंती

प्रातः किरण, संवाददाता

छपरा कार्यालय। आरबीएस पब्लिक स्कूल छपरा में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 136वीं जयंती धूमधाम से मनाई गईं जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत सरकार ने 1962 में राधा कृष्णन जी को जयंती को ही शिक्षक दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी राधा कृष्णन राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक के साथ संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे दर्शनशास्त्र विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह मैसूर विश्वविद्यालय में बतौर दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए भारत सरकार ने 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया राधा कृष्णन जी के व्यक्तित्व पर विद्यालय के निदेशक श्री सिंघाशरण प्रसाद जी ने विस्तार से चर्चा की और विद्यालयके सभी छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन किया इस अवसर पर हसनैन नेयर, अशोक गिरी, नीरज बाबा, सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे कार्यक्रम का संचालन प्रभाकर कुमार ने किया।

वकीज की समाप्ति बाल सांसदों के राष्ट्रपान से हुई। मौके पर शिक्षक मो. इजहार हुसैन, मो. परवेज आलम, चंदन कुमार, मुंत्जिर हुसैन एवं प्रदुन कुमार, शाहनवाज हुसैन, फैसल रहमान, अरबाब आलम, साबीर आलम, आबिद आलम, सोहैल मंसूरी, अमन कुमार, अरविंद कुमार, गोपाल कुमार, नीतीश कुमार, प्रियंका कुमारी, विपाशा कुमारी, अरुणती कुमारी, सानिया अंजुम, रेशमा खातून, शबाना खातून, प्रियांशु कुमारी शबनम खातून, गुलनारा खातून, निक्की कुमारी सहित सैकड़ो बच्चे मौजूद थे।

शिक्षक दिवस पर लौरिया में विधायक ने बंधा समां

● बागड कुंअर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय, एमएलसी सहित कई पूर्व प्राचार्य व दर्जनी गणमान्य लोग भी हूये शामिल

प्रातः किरण, संवाददाता



जिला के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में एक है। वही विशिष्ट अतिथि एमएलसी अफाक अहमद ने कहा कि शिक्षक दिवस पर मैं यहां पहुंचकर अभिभूत हूं। इस विद्यालय की छात्राओं द्वारा जो शिक्षा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने, सभी जातियों को एकसूत्र में पीरो कर चलने की आदि बातों पर जो विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से परीसरक सम्झाया है, वह अविभारणीय है। इधर विद्यालय की छात्राओं में पलक, पत्त्वली, तमना सांवली, अनुष्का, चांद, रीता आदि ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर अतिथियों को भाव विभोर कर दिया और सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।वहीं विद्यालय के प्राचार्य द्वारिकानाथ ने कहा कि इस विद्यालय की कई छात्राएं

तिहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास एवम अर्थ टापु की सजा

प्रातः किरण, संवाददाता

छपरा कोर्ट। तिहरे हत्या कांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24 सत्रवाद संख्या 693/ 24 में रसूलपुर थाना के रसूलपुर निवासी रोशन उर्फ सुधांशु कुमार तथा अंकित कुमार को भारतीय न्याय सहिता की धारा 103(4) के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 25 हजार अर्थ दण्ड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा तथा 109(4) में 6 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थ दण्ड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा तथा 329(4) के अंतर्गत 6 माह की सजा तथा 5 हजार अर्थ अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है।

बताते चले कि रसूलपुर थाना की धनाडीह निवासी शोभा देवी पति स्वर्गीय तारकेश्वर सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य के द्र एकमा में पुलिस पदाधिकारी के सामने 17 जुलाई 2024 को जख्मी हालत में अपना बयान दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बतलाया था कि 16 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि 2:00 बजे वह अपने दोनों बेटी चान्दी कुमारी उम्र 17 वर्ष आभा कुमारी उम्र 15 वर्ष और अपने पति तारकेश्वर सिंह के साथ छत पर सोई थी। तभी बेटी चान्दी कुमारी ने देखा कि पास गांव का रोशन उर्फ सुधांशु कुमार पिछे से छत पर चढ़ रहा है। चान्दी ने नाना किया तभी अंकित कुमार और रोशन उर्फ सुधांशु दोनों अपने हाथों में लिए चाकू से उसकी बेटी चान्दी कुमारी के ऊपर वार करने लगे उसको

जिलाधिकारी ने की वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा



प्रातः किरण, संवाददाता

रक्सौल। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जिला वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा राज्यस प्राप्त के लक्ष्य एवं अभी तक की उपलब्धि के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर, पूर्वी चंपारण मोतिहारा के द्वारा बताया गया कि मोतिहारा अंचल का माह अप्रैल 2024 से माह अगस्त 2024 तक कुल लक्ष्य 141.84 करोड़ है जिसके विरुद्ध 86 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि रक्सौल अंचल का माह अगस्त तक का लक्ष्य 39.56 करोड़ है जिसके विरुद्ध 97.6 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त है।जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि कर संग्रहण में तेजी लायें एवं प्रचार करें। डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्य को समाप्त कर शेष माहों का लक्ष्य प्राप्त करने- प्रतिशत सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी के साथ उच विकास आयुक्त सोनार सौरभ, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा, जिला राज्यस प्रभारी रश्मि सिन्हा और वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

आवारा साढ़ के आतंक से मोहल्ला वासी हैं परेशान

अब तक कई लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है, जिला प्रशासन से हस्तक्षेप का किया आग्रह

प्रातः किरण, संवाददाता



छपरा। आवारा साढ़ के आतंक से छोटा तेलपा कोरार मोहल्ला वासी इन दिनों परेशान हैं, आवारा साढ़ ने कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है ' स्थानीय छोटा तेलपा कोरार मोहल्ला वासी सुरेश राय सहित कई लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है ' स्थानीय सरफराज रशीद सहित अन्य मोहल्ला वासियों ने नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए आवारा साढ़ को शहर से बाहर भेजने का अनुरोध किया है ' प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय

स्कूल के संचालक सरफराज रशीद ने बताया कि मेरे स्कूल के बच्चों ने आवारा साढ़ ने हमला कर दिया ' स्थानीय लोगों को बचाव से बच्चों की जान बच गई, लेकिन अभी भी वह बीमार है ' पालत आवारा साढ़ के आतंक से स्थानीय मोहल्ला वासियों में दहशत का माहौल है ' यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों को अकेले घर से निकलने देने में परहेज कर रहे हैं ' ऐसी स्थिति में आवारा साढ़ को शहर से बाहर भेजना अति आवश्यक है ' यहां के मोहल्ला वासियों ने नगर प्रशासन व जिला प्रशासन से आवारा साढ़ को शहर से बाहर भेजने का अनुरोध किया है

ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं ऑफिस प्यून के पद पर अनुबंध पर चयन हेतु 04 से 10 सितम्बर के बीच करें आवेदन

प्रातः किरण, संवाददाता

छपरा कार्यालय।नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा के द्वारा जानकारी दी गई है कि श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा (पता-बाजार समिति, साढ़ा, प्रेमनगर, काजरिया टाईल्स के सामने, रॉडवेन्ट आई०टी०आई के लिए वेतन- 19000/-, शैक्षणिक योग्यता- ग्रेजुएट होने के साथ-साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से टाईपिंग सर्टिफिकेट एवं अन्य आवश्यक योग्यता का होना आवश्यक है।रिसेप्शनिस्ट-सह- डाटा इंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट), के लिए वेतन- 19000/-, शैक्षणिक योग्यता- ग्रेजुएट होने के साथ-साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से टाईपिंग सर्टिफिकेट एवं अन्य आवश्यक योग्यता का होना आवश्यक है।इसके अलावा दोनों पदों कार्यालय परिचारी के पद हेतु वेतन-13000/- एवं शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होना आवश्यक

है। तीनों पदों हेतु जांब लोकेशन लैट्स कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा है।तीनों पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 4 सितंबर 2024 से 10 सितंबर 2024 तक अपराह्न 5:00 बजे तक अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा कार्यालय में विहिप प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं। सभी आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि उनका निबंधन 31 अगस्त 2024 के पूर्व नियोजनालय छपरा में हो। आवेदन करते समय अस्थायी की आधार कांड की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, शैक्षणिक योगिता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

थानाध्यक्ष को पगड़ी देकर किया गया सम्मानित

इसुआपुर। प्रखंड मुख्यालय बाजार इसुआपुर पर संपन्न महावीरी अखाड़ा सह झंडा मेला को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल आयोजन करने को लेकर थानाध्यक्ष इसुआपुर कमल राम समेत अन्य महिला व पुरुष पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न महावीरी पूजा समितियों द्वारा पगड़ी तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आतानगर महावीरी अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह ने कहा कि धीर गंभीर, व्यवहार कुशल, युवा व तेज-तर्रार थानाध्यक्ष कमल राम की सुलझबूझ तथा कुशल निदेशन में मेले में बेकाबू भीड़ के इंट्रोड किया जा सका। इसके साथ ही एसडीएम मद्दौरा डॉक्टर प्रसाद, एसडीपीओ मद्दौरा,भरारक पुलिस इंस्पेक्टर मशरक तथा जिले से आए वरीय तथा कनीय प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों की भी सराहना की गई।

जिनके मेले में असामाजिक तत्वों पर पनी नजर व सक्रियता से मेले को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सका। महिला पुलिस पदाधिकारी प्रशंसा कुमारी के नेतृत्व में महिला पुलिस बलों ने भी भारी भीड़ में मशक्कत करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर अखाड़े के लाइसेंस धारी नागेन्द्र सिंह, दोहन सिंह, पणु सिंह, नवनीत सिंह, झल्लू कुमार सिंह, बलाल अंसारी, प्रमोद कुमार साह, श्याम प्रसाद सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

संक्षिप्त खबरें

भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने पर किया गया सम्मानित

आरा। जिला सदस्यता अभियान का शुरुआत किया गया भारतीय जनता पार्टी बमपाली कार्यालय स्थित में इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशुद्ध बिभू जैन को अभी तक सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने पर सम्मानित किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गारज जी, आरा विधायक श्री अरमरेंद्र प्रताप सिंह, बड़हरा विधायक राधादेव प्रताप सिंह, विधानपरिषद् शिक्षक निर्वान क्षेत्र जीवन कुमार जी, पूर्व सांसद मीना सिंह जी, पूर्व विधायक संजय टाडुंगर, पूर्व विधायक सुनील पांडे, बिहार सदस्यता प्रभारी और विधायक जीवेंद्र मिश्रा जी, सह प्रभारी ओमप्रकाश भुवन, क्षेत्रीय सह प्रभारी सिद्धार्थ शंभू, निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी, युवा और किसानों के नेता राम दिनेश यादव, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री राहुल सिंह, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ममता सिंह, महामंत्री पूनम कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, लव पांडे, उदय प्रताप सिंह, जिला मंत्री राजकुमार कुशवाहा, रिशेश राज, और भी बहुत से लोग उपस्थित थे जिसकी जानकारी मीडिया प्रभारी अरिहंत विजय जयंती ने दी।

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों का किया गया प्रशिक्षण शिविर आयोजित

आरा। सदर अस्पताल के जिला मलेरिया कार्यालय में जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में डेगू और चिकनगुनिया के बारे में डॉक्टर दयानंद राय ने विस्तृत रूप से बताया, जो पर्यटन प्रशिक्षण लाकर खुद आए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एसीएमओ, भोजपुर डॉ. के.एन.सिन्हा ने कहा कि डेगू और चिकनगुनिया पर हमें विशेष सतर्क रहना है, जो आजकल काफी संख्या में हो रहा है और होने की आशंका है। इस बीमारी में प्लेटलेट काउंट इतना कम हो जाता है कि खून बहने के कारण कई खतरा हो सकता है। इस बीमारी में बहुत सारे कोम्प्लिकेशन भी होते हैं जो कि खतरा पैदा करते हैं। अतः हमें इससे बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखना है एवं घर में या बाहर पानी जमाने नहीं देना है, ताकि मच्छर पैदा हो। इस कार्यक्रम में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी 18 भाग लिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत पटेल, संतोष कुमार कुमारी प्रियंका, भीमजी आदिमलेरिया विभाग के कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

भोजपुर जिला भाजपा सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत भाजपा जिला कार्यालय से हुआ

आरा। दो सितम्बर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भाजपा की नई सदस्यता दिवाने के साथ ही देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई थी। भोजपुर को भाजपा जिला कार्यालय बमपाली में कार्यक्रम कर भोजपुर जिला सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गा राज और संचालन जिला मंत्री राजकुमार कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. रमेश कुमार, डॉ. अरमरेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नयुनी पांडे, डॉक्टर किरण कुमारी, डॉ. विभा कुमारी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, उषा पांडे, सुशीला देवी, पिंकी कुमारी, सकीना खातून, सीमा कुमारी, डॉक्टर प्रतीक कुमारी, अधिवक्ता निवेन्द्र प्रसाद, विजय शंकर तिवारी, विजय नारायण, डॉ. आदित्य आलोक कुमारी तिवारी, सुरेंद्र पटेल, डा. संजीव कुमार सिन्हा, संजय कुमार, रमेश कुमार, कृष्ण पांडे आदि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के फोटो ग्रहण पर माल्यार्पण, सामूहिक दीप प्रज्वलन तथा विद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत हुआ।

विष्णु देव सिंह को एकावन हजार का चेक देकर किया गया सम्मानित

आरा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिभा खोज समिति कोईलवर प्रखंड भोजपुर, के तत्वावधान में प्रभा सिन्हा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी के अध्यक्षता में श्री हरद्वैत कुमार जैन ज्ञानस्थली विद्यालय के सभागार में सम्बन्ध हुआ। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें श्री विष्णु देव सिंह, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नयुनी पांडे, डॉक्टर किरण कुमारी, डॉ. विभा कुमारी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, उषा पांडे, सुशीला देवी, पिंकी कुमारी, सकीना खातून, सीमा कुमारी, डॉक्टर प्रतीक कुमारी, अधिवक्ता निवेन्द्र प्रसाद, विजय शंकर तिवारी, विजय नारायण, डॉ. आदित्य आलोक कुमारी तिवारी, सुरेंद्र पटेल, डा. संजीव कुमार सिन्हा, संजय कुमार, रमेश कुमार, कृष्ण पांडे आदि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के फोटो ग्रहण पर माल्यार्पण, सामूहिक दीप प्रज्वलन तथा विद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत हुआ।

आरा में सीएचसी का किया उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज का भी किया निरीक्षण, लाभुकों के बीच राशि का किया वितरण

प्रातः किरण संवाददाता

भोजपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं लिहाजा वे लगातार बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं और विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वे आरा पहुंचे, जहां उन्होंने उक्तमित मध्य विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 थायों में 20 सीटें महिला बैरक के निर्माण का शिलान्यास के साथ विभिन्न योजनाओं में लाभुकों को राशि का वितरण किया। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद नीतीश कुमार बड़हरा प्रखंड के बखोरापुर पंचायत में नए पंचायत सरकार भवन पहुंचे। यहां उन्होंने बखोरापुर में मां काली के मंदिर में दर्शन भी किए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जौरी माइल स्थित निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का भी



निरीक्षण किया। विदित है कि 555 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि यहां हॉस्पिटल के निर्माण से पड़ोसी जिलों को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने

वीर कुंवर सिंह युनिवर्सिटी के नये कैम्पस में 555 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय भी मौजूद रहे।

5,11,75,400 रुपये से होगा निर्माण कार्य

गौरतलब है कि खवासपुर थाना भवन आउट हाउस का 5,64,02,750 रुपये से निर्माण कार्य होगा। बबुआ थाना भवन और आउट हाउस 5,11,75,400 रुपये से निर्माण काम होगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 110 लाभुकों को 3,76,00,000 राशि का वितरण हुआ। कुल 15 करोड़ 66 लाख 57 हजार 650 रुपये के योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 41 करोड़ 63 लाख 86 हजार रुपये की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आरा के नवादा थाना में 20 सीटें महिला बैरक का 59,07,950 रुपये से निर्माण कार्य होगा। जीविकोपार्जन के तहत 600 लाभुकों को 1,84,36,000 राशि दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 105 लाभुकों को 1,31,25,000 की लागत की चाबी का वितरण हुआ। 1500 भूमिहीनों को पंचा वितरण किया गया है। 150 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल का दिया गया है।

छात्र की उन्नति में ही अपनी सफलता देखता है शिक्षक : डा.अर्चना

संभावना आवासीय उवि में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की जन्म जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित 'शांति स्मृति' संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन की जन्म जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह एवं निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। तत्पश्चात डॉ. राधाकृष्णन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्वागत करते हुए प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह ने कहा कि सभी लोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शिक्षा देने का कार्य करते हैं।



हमारे पास मां की गोद से निकलकर अनगढ़ बालक आता है। शिक्षक उसे कुम्हार की भांति गाढ़ कर एक मटक की शकल देता है। खुशी तब होती है, जब वही बच्चों अच्छी जाँच लेकर विद्यालय में अपने सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन के लिए आते हैं, उन्होंने कहा कि एक शिक्षक ही बच्चों को अच्छा, सच्चा एवं ईमानदार इंसान बना सकता है। जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक अपने छात्र की सफलता में ही अपनी सफलता देखता है। संभावना से विगत 28 वर्षों से एक पीढ़ी निकल गई। अब

आज के दौर में बच्चे शिक्षकों का चाल-ढाल, पहचाना, व्यवहार, आचरण एवं अनुशासन आदि का अनुसरण करते हैं। आपकी कोई नया तरीका अपनाया चाहिए, जिससे आपसे प्रभावित हो। शिक्षक खुद को संस्कारवान बनाएं। तभी बच्चे संस्कारवान बन सकते हैं। आपकी सफलता बच्चों में समाहित है। इसलिए अपने आप को साबित करें। संभावना स्कूल हमेशा से अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए कार्य करता है। संभावना पब्लिक स्कूल के प्राचार्य दीपेश कुमार ने कहा कि शिक्षक देश के राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक से गलती होती है, तो पुरी पीढ़ी बर्बाद हो

जाती है। विद्यालय के परीक्षा प्रभारी राजेश रमण ने कहा कि संभावना स्कूल बच्चों को नन्हें पौधे से वृक्ष का रूप देता है। इसका उदाहरण हाल ही में सीबीएसई परीक्षा के दौरान भोजपुर टॉपर बनी कक्षा-कक की अस्मिता है। शिक्षक बृजेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक बच्चों एवं उनके परिजन पर फोकस करें। शिक्षकों में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बच्चों को अच्छे गुण सिखाएं। समारोह के दौरान संभावना पब्लिक स्कूल के संगीत शिक्षक महेश शर्मा ने भजन गायन प्रस्तुत किया। वही संभावना आवासीय उवि के संगीत शिक्षक अमितेश रंजन ने भोजपुरी लोक गीत, दीपेश कुमार ने भक्ति भजन एवं धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने गजल प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार एवं रेणु पांडेय ने युगल गीत "महबूब मेरे....." प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह एवं निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र को मोमेंटो एवं उपहार देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात प्राचार्या एवं निदेशक ने शिक्षक दिवस के मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा एवं धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने किया।

टीबीटी अवार्ड 2024 के लिए भोजपुर जिला के आठ शिक्षकों का किया गया चयन

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा स्व प्रेरित होकर निशुल्क ऑनलाइन शिक्षण एवं प्रशिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्टता के आधार पर भोजपुर जिला के आठ शिक्षकों का चयन टीबीटी अवार्ड 2024 के लिए किया गया है जिसको लेकर जिला के शिक्षकों में काफी हर्ष है। टीबीटी अवार्ड सरकारी विद्यालय के उन शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है जो साल भर ऑनलाइन शिक्षण

एवं प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़कर सृजनात्मक तरीके से बच्चों के भविष्य निर्माण का कार्य करते हैं। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बनाया गया एवं संचालित सोशल मीडिया का सबसे बड़े प्लेटफार्म 'द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स' के द्वारा बिहार के 38 जिलों से चयनित शिक्षकों को 15 सितंबर दिन रविवार को ला कॉलेज पटना के विशाल सभागार में एक बड़े आयोजन के साथ इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य के 40 से अधिक शिक्षाविद व उच्च पदस्थ शिक्षा पदाधिकारी इस समारोह के

हिस्सा बनते हैं इसी कड़ी में भोजपुरी जिला के कुल आठ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत इस उत्कृष्ट समारोह में अपना स्थान बनाया है जो भोजपुर जिला के लिए एक की बात है इन शिक्षकों को डॉ शिव कुमार प्रसाद, उत्कर्मित मध्य विद्यालय जेतपुर, बबीता कुमारी उत्कर्मित मध्य विद्यालय चौरई, पूनम कुमारी, पूजा कुमारी, श्वेता कुमारी, ललिता कुमारी उत्कर्मित मध्य विद्यालय बिलौटी, को पूनम देवी उ म वि खैरही पीरो, मुन्ना कुमार सिंह उ म वि कारीसाथ के शिक्षक जिन्होंने निस्वार्थ भाव से

तपेश्वर सिंह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में किया गया स्वागत समारोह सह संगोष्ठी का आयोजन

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। तपेश्वर सिंह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कायमनगर आरा में इ.ए.नै.से सत्र 24-26 का स्वागत समारोह सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के सचिव सह पूर्व स. वि. प. डॉ अजय कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना एवं राष्ट्रगान द्वारा की गई कार्यक्रम में नए सत्र के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत वीएड द्वितीय वर्ष के प्रतिष्ठा द्वारा उन्हें तिलक लगाकर पुष्पांजलि कर किया गया कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए महाविद्यालय के प्राचार्या डॉ वीना पांडे नए प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप शिक्षक अनुशासन में रहकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं आप आज इस प्रांगण से संकल्प लेकर एक नए युग का निर्माण करने जा रहे हैं और समाज के निचले पायदान पर रहने वाले शोषित दलित मजदूर



के बच्चों को विभिन्न तकनीकों की सहायता लेकर उन्हें उत्थान की दिशा में अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तब जाकर एक आदर्श शिक्षक जाने जाए और समाज आपके प्रशिक्षुओं ने अपने-अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यदेव सिंह डॉक्टर अमित उपाध्याय डॉक्टर एस के पांडे श्री दीपक तिवारी आयुषी कुमारी सुमन कुमारी राहुल सिंह पार्वती कुमारी ने शिक्षक दिवस के बारे में बारी-बारी से संबोधन किया संबोधन के उपरांत प्रशिक्षुओं ने अपने-अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा कार्यक्रम द्वारा सभी दर्शकों का मन मोह लिया सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद जल का महत्व विषय पर एक

संगोष्ठी का आयोजन किया गया था इसमें महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा संबोधन में कहा गया कि जल ही जीवन है आज चल संवय बहुत जरूरी है नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब चल को लेकर विश्व युद्ध हो सकता है सभी लोग अपने-अपने घरों के पास खाली जगह में गड्ढा खोदकर वर्षा के जल को जमा करें तथा उसकी होने वाली बर्बादी को रोकें उनके संबोधन के बाद डॉ आलोक कुमार सिंह ने अपना विचार रखा अंत में महाविद्यालय के डॉ सत्यदेव सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन में सभी प्रशिक्षुओं को अपने कार्य और कर्म के प्रति पक्कावर रहने की बात कही तथा लक्ष्य को कठिन परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है अंत में सभी अस्थापकों को संस्कृति पब्लिक स्कूल की प्राचार्या जाकिया यास्मीन द्वारा उपहार प्रिये भेंट किया गया और सभी प्रशिक्षुओं को जलपान प्रहेत कर उन्हें शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए उनकी उज्वल भविष्य की कामना की गयी।

मेजर राणा प्रताप सिंह के अध्यक्षता मे जिला सैनिक कार्यालय मे संपन्न

आरा। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की माहवारी मीटिंग मेजर राणा प्रताप सिंह के अध्यक्षता मे जिला सैनिक कार्यालय के आरा मे संपन्न हुवा। सबसे पहले 2 मिनट की मौन धारण कर शहीदों की श्रद्धांजलि दी गई उसके बाद सभी हमारे पूर्व सैनिकों और वीरगानों से बारी-बारी से विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया सभी

को अपना विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया सभी ने अपना अपना विचार और फाँट बताएं उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एडल्टर का नियम बदल गया है अब एक महीना के जगह 3 महीना के लिए रेफरल मिला करेगा बार-बार आपको रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दवा 12 तारीख को कलेक्शन होगा और 15 के

बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1965 और 1971 के लड़ाई में जो भाग लिया है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है जिसके बाद समर सेसे मेडल पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार है वह फॉर्म भर सकते हैं। अपने हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर नहीं है लेकिन एक डॉक्टर उसम कुमार जो ओवर ब्रिज के पास पांडे के दवा खाना के पास रहते

हैं फौजी अपना आईडेंटिटी कार्ड लेकर जाएं वहां पर आंख दिखवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन आईडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर आरा में नौकरी करने के बाद मुजफ्फरपुर पोस्टिंग हुआ है पूर्व सैनिकों और वीरगानों ने उन्हें अंगवस्त्र और मोमेंटो देखकर सम्मानित किया।

बालिका उच्च विद्यालय एवं शिशु संस्थान महादेवा रोड आरा के प्रांगण में मनाया गया शिक्षक दिवस

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। बालिका उच्च विद्यालय एवं शिशु संस्थान महादेवा रोड आरा के प्रांगण में दिनांक 5 सितंबर 2024 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती सह शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में डॉ साहब के जीवन चरित्र पर परिचर्चा हेतु एक साभ आयोजित की गई। सभी की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जगदीश सिंह ने की। इस अवसर पर डॉ राधाकृष्णन के तैल चित्र पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया तत्पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय के निदेशक रामजी तिवारी ने कहा कि मद्रास के गरीब ब्रह्मण परिवार में हुए कहा कि डॉ राधाकृष्णन ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अनेक उच्च पदों पर काम करते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान करते रहे। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक नुरादियों को मिटाया जा सकता है। डॉ राधाकृष्णन कहा करते थे की मनु मानव को मिटाया जा सकता है। जानकारी का अपना महत्व है तथापि व्यक्ति को बौद्धिक युवाक और



लोकतांत्रिक भावना का भी बड़ा महत्व है यह बातें व्यक्ति को एक उत्तरदाई नागरिक बनाती है शिक्षक सुरेश कुमार ने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखने रहने की प्रवृति। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है तथा इसका जीवन में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। करुणा प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा के उद्देश्य हैं। वह कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता है और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानता तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस मौके पर विद्यालय के दशम वर्ग दशम की छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका निभाते हुए विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य संचालित किया छात्रा सृष्टि गुप्ता ने प्रधानाध्यापिका का कार्यभार संभाला तथा अन्य छात्राओं ने विषय शिक्षक शिक्षिका का। पूछने पर छात्राओं ने बताया शिक्षक की भूमिका निभाते हुए एक अलग ही अनुभूति का अहसास हो रहा है और हार्दिक इच्छा है कि आगे चलकर योग्य शिक्षक ही बनू। इसके बाद सभी छात्र-छात्राओं ने अपने अपने वचन भी शिक्षक से केक कटवा कर जलपान कराया और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया।

धिक मार्गज (रोह तासा) स्थानीय शहर के वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय, धारूपुर में गुरुवार को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सह दूसरे राष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। उक्त अवसर महाविद्यालय कर्मियों ने उन्हें शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें याद करते हुए वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय, धारूपुर के एनएसएस समन्वयक, महाविद्यालय शिक्षक प्रतिनिधि सह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा सीनेट सदस्य डॉ. मनीष रंजन के नेतृत्व में महाविद्यालय कर्मियों सहित छात्र-



छात्राओं ने सेमिनार हॉल में उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर याद किया। अवसर पर सभी ने संकल्प लेते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर उनके जन्मदिन का प्रसाद वितरण कर महाविद्यालय शिक्षकों को प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा सम्मानित किया गया।

क्या गया। अवसर पर डॉ. मनीष ने सभा संबोधन में ने कहा कि हमारे जीवन में हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। जो शिक्षा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षित और युवा नेतृत्व ही सिरस्टम को सही तरीके से समझने

के साथ-साथ सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का कार्य किया था। जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले महान शिक्षाविदों के रूप में जाने गए। जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिनका ऐतिहासिक काल से ही उनके इस जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर महाविद्यालय कर्मी प्रोफेसर - वीर बहादुर सिंह, डॉ. अरविंद सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह, अजय सिंह, बलवंत सिंह, रमेश कुमार, दिनेश सिंह, पवन उपाध्य, शशि प्रसाद व मंटू चौधरी, अभय सिंह, नरेंद्र सिंह, प्रविंद सिंह, परवेज खां सहित समस्त महाविद्यालय कर्मी उपस्थित थे।

उप विकास आयुक्त, भोजपुर का विधाई समारोह उनके आवास पर ग्रामीण विकास अभिकरण भोजपुर के द्वारा आयोजित किया गया

आरा। विक्रम विरकर (भा०प्र० से०) उप विकास आयुक्त, भोजपुर का विधाई समारोह उनके आवास पर ग्रामीण विकास अभिकरण भोजपुर

आपकी अद्भुत कार्यशैली ने आपको महाराष्ट्र से भोजपुर का बेटा बना देने के लिए बाध्य कर दिया। आप भोजपुर के जन-जन की उम्मीदों, आकांक्षाओं, आशाओं की किरण बन गये हैं। आपका मिलनसार व्यक्तित्व, आपकी सहृदयता अपने कर्मियों सहित आम जन की समस्याओं को अपना परिवार समझ कर सुनना और समाधान करने की अतुलनीय मानवीय गुण आपकी और विशिष्ट बनाता है। प्रभारी

पदाधिकारी विकास शाखा ने कहा की भोजपुर में आपके द्वारा कस्तूरबा गाँधी विद्यालय में किया गया कार्य हो या फिर महादलित टोनों के विकास की सोच हो, जिला परिषद की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना हो या फिर जिला परिषद् एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय के जागोड़ा एवं आधुनिक बनाने की बातों हो, चाहे कार्यालय कर्मियों में ऊर्जा का संचार करने की बात हो, या फिर प्रत्येक माह

के सबसे अच्छे कर्मियों को "चैम्पियन ऑफ दि मन्थ" कार्यक्रम की शुरुआत हो या कर्मियों के खुशियों को सैलट्रेट करने की बात हो आपने दो कदम आगे बढ़कर अपने अधीनस्थों के कंधों पर हाथ रखकर मानवता की गरिमा को बढ़ाने का जो आपने अद्भुत कार्य किया है उस अतुलनीय नेतृत्व के बिना हमें न कहा की मेरा सौभाग्य था की आपके साथ कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ।

संक्षिप्त खबरें

शिक्षक दिवस समारोह में सफल विद्यार्थी हुए सम्मानित



औरंगाबाद। सदर प्रखंड स्थित ग्राम जम्हरी में बीआईआईटी कंटीशन क्लासेज के प्रांगण में भारत के प्रधान उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती समारोह धूमधाम से बनाई गई। इस मौके पर संस्थान से पढ़कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच मेडल एवं प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी कृष्णा मेहता द्वारा किया गया जबकि संचालन की जिम्मेवारी शुभम कुमार ने निभाई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि कृष्णा मेहता, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष सुरेश विद्यार्थी, समाजसेवी रामबचन मेहता, संस्था के डायरेक्टर रविकांत कुमार, संस्था के शिक्षक नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉ राधाकृष्णन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संबोधन के क्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षक से राष्ट्रपति का सफर तय करने में राधाकृष्णन ने जो संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उच्च पद पर आसीन हुए उस हमें अपने जीवन में उतरना चाहिए।

44 साल पुरानी वाद में हुई सजा

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे - पांच उमेश प्रसाद ने बारुण थाना कांड संख्या 01/1981, एस.टी.आर-137/97 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र जीवित अभियुक्त बिरजू यादव सीतारामपुर बारुण को भारद्वाज धारा 395 में दोषी पाते हुए सात साल की सजा और पचीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास देगे। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक केशव महतो बारुण ने प्राथमिकी में बताया कि 31 दिसंबर 80 को गांव में भीषण डकैती हुई थी जिसमें केशव महतो के भाई जगदीश महतो बुरी तरह से घायल हो गए थे। डकैती में गांव के गजदार महतो और रामाधार महतो की मृत्यु हो गई थी, किन्तु उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट समर्पित नहीं किया गया था और वही डाक्टर की गवाही हो पाई थी।

दिल्ली पब्लिक स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस

अरवल। दिल्ली पब्लिक स्कूल तेजपुरा अरवल में गुरुवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माला पहनाया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं में एकल गीत, समूह गान, समूह नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कहा कि शिक्षक समाज व राष्ट्र के निर्माता होते हैं। छात्रों में नैतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक गुणों का विकास करने के लिए उनके मस्तिष्क के आधे-अधूरे ज्ञान को हटाकर उसमें पूरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालक विकसित करना पड़ता है, शिक्षकों का परम दायित्व है उन्होंने कहा कि शिक्षक को साधारण नहीं होता प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं उन्होंने यह भी कहा कि गुरु बिना ज्ञान कहां। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैनेजर हरबंस कुमार शिक्षक विवेक कुमार आशीर शिक्षिका अमीषा कुमारी प्रीति कुमारी सलोनी कुमारी रिंकी कुमारी सूरज कुमार शारिरिक शिक्षक रोशन कुमार सूरज कुमार शंकर कुमार सोरव कुमार अशोक कुमार मनोज कुमार बहुत सारे शिक्षक इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए।

नारायणपुर बांध के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने सौपा ज्ञापन

गया। नारायणपुर बांध में मरम्मत नहीं होने और मिट्टी दाग की सफाई नहीं होने के कारण भेटौरा, टनकुप्पा मखदुमपुर, बरसौना इचोई, पैमार मानपुर के हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 20 गांवों के किसान प्रभावित हो रहे हैं। सर्वदलीय संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने लालू सिंह मंत्री डॉ. संतोष मांडवी से मिलकर अतिथियोंओं के द्वारा इसका डिजाइन का निर्माण पुरा कर लिया गया है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया में जाकर कार्य को संपन्न किया जाएगा। अधीनस्थ अभियंता अरविंद कुमार सिंघाने ने बताया कि जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा जाएगा, तकनीकी डिजाइन को पूरा कर लिया गया है।

लोजपा (रा) जिला कार्यालय में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई

प्रातः किरण संवाददाता

अरवल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला कार्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती उनकी तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती समारोह श्रद्धा पूर्वक के साथ धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र रंजन ने किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र रंजन ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, लेखक, महान दार्शनिक एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण वर्ष 1954 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारतरत्न से उलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितम्बर को पूरे भारत वर्ष में प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि



एक शिक्षक का योगदान समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके छात्रों ने जब उनसे उनकी जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाये। इस प्रकार 5 सितम्बर

1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने के उपरांत उनके सम्मान में इस दिन से शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। राष्ट्रपति के रूप में मिलने वाले वेतन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आधे से अधिक

प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर देते थे। शिक्षा के जगत में उनके द्वारा किये गये अतुलनीय योगदान और उपलब्धियों को याद कर पूरा देश उनकी जयंती के अवसर शिक्षक दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। जयंती समारोह के मौके पर जिला संगठन मंत्री रमेश मंत्री, जिला उपाध्यक्ष नवीन कुमार, जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र यादव, मुख्य प्रवक्ता बिरेंद्र कुमार पटेल, लेबर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शशि किरण पासवान, छात्र प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार आजाद, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गायक कुश प्रेमी, संगठन विस्तारक अजय शर्मा, आई टी 01 सेल के जिलाध्यक्ष लालबदन कुमार, किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामनाथ यादव, जिला महासचिव रामानंद भगत, जिला कार्यकारिणी के सदस्य अमित कुमार, अरवल सदर प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार, नगर अध्यक्ष अखिलेश कुमार, रामदेवन पासवान सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए।

गया हवाई अड्डा पर वृहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ

गया। इंटरनेशनल सिविल एवियेशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ की 80 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष



में गया हवाई पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। आईसीएओ, जो की संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है, जिसमें 193 सदस्य देश है। तथा भारत भी इसका सदस्य है। इसका उद्देश्य सभी देशों को नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक साथ सहयोग करने और अपने पारस्परिक लाभ के लिए अपने आकाश को साझा करना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निमित्त मुख्यालय द्वारा इस अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर कुल 80000 पौधों का वृक्षारोपण अभियान

चलाने का निर्णय लिया गया है। गया हवाई अड्डा द्वारा भी गया हवाई अड्डा और इसके आसपास के क्षेत्र में 2000 पौधों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर आज लगभग 500 पौधों का वृक्षारोपण गया हवाई अड्डा परिसर में किया गया है। पौधों की निःशुल्क आपूर्ति गया वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने

औरंगाबाद जिले के दिनकर साहित्यकार मिथिलेश मधुकर को किया गया याद

प्रातः किरण संवाददाता

औरंगाबाद। जिला मुख्यालय औरंगाबाद की महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 14 सितंबर हिंदी दिवस पाक्षिक पूर्व कार्यक्रम के निमित्त पांचवें दिन औरंगाबाद जिले के प्रख्यात लघुप्रतिष्ठित साहित्यकार मिथिलेश मधुकर जी को

याद किया गया। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष डॉ सुरेंद्र प्रसाद मिश्र एवं महासंजी धनंजय जयपुरी के आह्वान पर संस्था के उपाध्यक्ष सुरेश विद्यार्थी ने मधुकर जी के जीवन पर आधारित काव्यात्मक संवाद करते हुए कहा कि औरंगाबाद में 2000 ई 0 से लगभग दो दशकों तक साहित्य के क्षेत्र में कालजई

कार्य किए थे। शब्द के चित्रों निकलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही साथ साहित्यिक काव्य गीतियों में भी वे बराबर शिरकत किया करते थे। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन को स्थापित करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नवोदित लेखकों को बेंचर प्लेटफार्म देने का उन्होंने कार्य किया था।

गरीबों के जमीन छीनकर अमीरों को आलीशान बंगला बनाने की साजिश: विधायक महानंद

प्रातः किरण संवाददाता

करपी।। बिते दिन शहर तेलपा थाना क्षेत्र के पकामठ गांव में संकल्प सभा आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता बंधुई पंचायत के पूर्व मुखिया देवमंदिर सिंह ने किया। इस मौके पर अरवल विधायक महानंद सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि बुलडोजर वाले बिना मोह ममता के गरीबों के मकान ध्वस्त करने में अपने आपको गर्व महसूस कर रहे हैं। गरीब लोगो की जमीन छीनकर अमीरों को सौंप कर आलीशान बंगला बनवाने की साजिश रचा जा रहा है। उन्होंने गरीबों से आह्वान किया कि आप अपनी एकता बनाए रखे आपके साथ लाल शंडा की ताकत है। विधायक ने कहा कि आपके पास संविधान की ताकत है जिसके ताकत से सामंती जमींदार डरते हैं। कानून में यह नियम है की जब तक गरीबों का घर बनाकर नहीं दिए जायेंगे तब तक उनका घर नहीं उजाड़े जायेंगे। आपके अधिकार की लड़ाई के लिए मैं सदस्य से सड़क तक संघर्ष करूंगा। मैं गरीब परिवार का अन्न खाता हूँ इस लिए आपको



लड़ाई लड़ना हूँ। आगामी 23 एवं 24 सितंबर को करपी अंचलाधिकारी का घेराव होगा। जरूरत मंद लोगो को जो पर्चा दिया गया है उसपर कब्जा जिला प्रशासन दिलाए। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि नियम कानून सिर्फ महादलित अति पिछड़े के घर उजाड़ने के लिए बने हैं अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद समिति सदस्य मंजीत पासवान ने कहा कि दो सौ पच्चीस एकड़ जमीन में तत्कालीन जिला पदाधिकारी अनिता पाल के द्वारा दो सौ एकड़ जमीन का पचां वितरण किया गया था। इस मौके पर भाकपा माले नेता व पूर्व जिला परिषद सदस्य मधेश्वर राम, संजय सिंह, संजय वर्मा अनुज मांडवी समेत कई लोग मौजूद थे।

हमें अच्छे शिक्षक की भी भूमिका अदा करनी होगी तो ही शिक्षक दिवस मनाया सफल होगा: प्राचार्य

प्रातः किरण संवाददाता

गया। शहर के नैली रोड खटकाचक स्थित श्री शिक्षा निकेतन स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर विद्यालय का प्रसंग देते सजाया गया है। विद्यालय की प्राचार्य पूनम सिन्हा के साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि किया। साथ ही विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों ने केक काटकर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महाबोधि मंगलम आरोग्य ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी सह कुमार मल्हारीशालिटी हास्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉ नीलम महाजन एवं विद्यालय की प्राचार्या पूनम सिन्हा



ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। जहां विद्यालय के बच्चों ने पुष्प वर्षा, तिलक एवं तुलसी का पौधा देकर मुख्य अतिथि डॉ महाजन का स्वागत किया वहीं प्राचार्या सिन्हा ने उन्हें अंग वस्त्र एवं पिणु चरण देकर अभिनंदन किया गया है। डॉ महाजन ने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित प्राचार्य को प्रशंसा किया और शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए अपने कार्य में निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी है। इस मौके पर डॉ महाजन ने बच्चों अभिभावक को एवं

सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने विद्यालय अपने संस्थान के प्रति हमेशा ईमानदार बनकर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी पहचान व्यक्तिगत नहीं है बल्कि हमारी पहचान हमारे संस्थान से है। उन्होंने आगे रामायण का प्रसंग सुनाते कहा कि जब हनुमानजी राम जी का संदेश लेकर माता सीता से मिलने लंका के अशोक वाटिका पहुंचे थे उन्होंने अपना परिचय महाबली हनुमान, हनुमान के रूप में नहीं देते हुए कहा था "राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य श्रवण करण विधान की" माता जानकी मेरा परिचय यही है कि मैं प्रभु श्री राम का एक दूत हूँ। इसलिए हमारी पहचान हमारे संस्थान से होनी चाहिए। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य पूनम सिन्हा ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया है। वहीं विद्यालय के अध्यक्ष पूनम कुमारी ने प्राचार्य सिन्हा

को अंग वस्त्र एवं उपहार देकर शिक्षक दिवस एवं हरतालिका तीज की बधाई दी है। इस मौके पर प्राचार्या मति सिन्हा ने कहा कि शिक्षक दिवस मनाने के साथ हमें अच्छे शिक्षक की भी भूमिका अदा करनी होगी तो ही वास्तव में शिक्षक दिवस मनाने का मतलब चरितार्थ होगा। हमें अपने बच्चों को खेल-खेल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की आवश्यकता है। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी करते थे कि सिर्फ किताबी शिक्षा से नहीं बल्कि बच्चों को उचित माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। आगे सिन्हा ने सभी लोगों को शिक्षक दिवस एवं हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पूरा कार्यक्रम प्राचार्य पूनम सिन्हा के दिशा निदेशन में एवं उपप्राचार्य का गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुआ। वहीं विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर किस्सा लिया है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सपना को पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री

प्रातः किरण संवाददाता

गया। जदयू कार्यालय गया में जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद के अध्यक्षता में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस एवं आजाद भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति, डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिन मनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि जगदेव प्रसाद शोषित वंचितों के नेता थे उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूरों के लिए संघर्ष किया है। उनका एक बहुत प्रभावशाली वाक्य था "सौ में शोषित नब्बे है नब्बे भाग हमारा है, दस का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा" साथ सभी वक्ताओं ने कहा की डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का देश के लिए किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। द्वारिका प्रसाद ने कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जगदेव प्रसाद के सपना को शोषित वंचितों के लिए काम करके साकार कर रहे हैं। जिला प्रवक्ता अशोक बिहारी पटेल ने केंद्र सरकार से मांग किया



कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को भारत रत्न दिया जाय। पटेल ने कहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सपना था देश शक्ति हो तारकनी करे उसी रास्ते पर चलकर उनका सपना को भी नीतीश कुमार पूरा करने का काम किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक कृष्णानंद यादव, पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, प्रदेश सचिव चंदन यादव, सोनम दास, अरविंद चरण प्रियदर्शी, अरविंद सिंह, धनंजय

शर्मा, मानपुर प्रखंड अध्यक्ष अजीत शर्मा, पूनम कुशवाहा, जूली मेहता, जितेंद्र दास, शंकर चौधरी, दयानंद विश्वकर्मा, उत्तम कुशवाहा, वालदेव प्रसाद, पप्पू दांगी, कमलेश वर्मा, उषेंद्र कुशवाहा, उमेश वर्मा, मालती देवी, मा0 शमीम, विनोद यादव, कमलेश कुमार, महेश सिंह, दिनेश सिंह, मुन्ना पट्टा, राजकुमार शाह, जहांगीर खान, पिंकी देवी, जमील रहमान, लक्ष्मी कुशवाहा, संजय चंद्रवंशी एवं पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

डेंगू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गया नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है फागिंग

गया। डेंगू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गया नगर निगम की नगर आयुक्त अमिताला शर्मा से के आदेश पर डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक दिन सुबह एवं संध्या फागिंग कराया जा रहा है। डेंगू एवं चिकनगुनिया के संक्रिय सूच्योदय के तुरंत बाद एवं मुख्यतः सुरत पहले सप्ताह में फैलते हैं। नगर आयुक्त द्वारा प्रातः 6:30 बजे से 9:00 तक एवं संध्या 3:30 बजे से 6:30 बजे तक फागिंग करने का आदेश जारी किया है। अभि के समय में गया नगर निगम में वार्ड संख्या 23, वार्ड संख्या 29, वार्ड संख्या 30, वार्ड संख्या 33, वार्ड संख्या 34 एवं वार्ड संख्या 36 में डेंगू एवं चिकनगुनिया के



संक्रमित मरीज पाए गए हैं। डेंगू के मरीजों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं जहां फागिंग एवं एंटी लावा का छिड़काव लगाता किया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2024 से प्रत्येक वार्ड में रोस्टर

के अनुसार फागिंग कराने हेतु आदेश दिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का आयोजन रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया है ' इस मौके पर बताया गया कि डेंगू के मच्छर दिन में सक्रिय रहते हैं इसलिए मच्छर भगाने के लिए रात आठ का उपयोग दिन में भी करें। डेंगू के मच्छर स्वच्छ जल में ही पाए जाते इसलिए घर में बाल्टी कूलर आदि में पानी ना रखें एवं कीटनाशक दावों का छिड़काव करें। गमला, फूलदान आदि का अपनी हर दूसरे दिन बदलें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने एवं कमरे को साफ-सुथरा एवं हवादार रखें।

मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

गया के नगर प्रखंड के कुजापी स्थित अभय पैलेश सभागार में कुजापी गांधी नगर में संचालित मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, द्वारा शिक्षक दिवस सह सम्मान समारोह का आयोजन रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया है ' इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉ शहरयार अहमद खान सूरी कमांडेंट, विद्यालय प्राचार्य प्रवीण रंजन गांधी, विशिष्ट अतिथि डॉ अशोक कुमार असोसिएट प्रोफेसर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, अमित नंदन डीएसपी, मनीष कुमार श्रीवास्तव, डॉ सादिया शाहीन, समाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार, स्वयंसेवी संस्था " कौशल आफ मगध वूमन एम्पावरमेंट " के सचिव तमकनत व अध्यक्ष नवीन रंजन ने संयुक्त रूप से



दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के पश्चात डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं विद्यालय के दिवंगत प्राचार्य डॉ शिव कुमार शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व आगत अतिथियों को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ व मोंटो देकर विद्यालय प्राचार्य प्रवीण रंजन गांधी ने स्वागत किया है। वहीं



विद्यालय के शिक्षक अरुण कुमार शिक्षा गया है। उद्घाटन के पश्चात डॉ शिक्षक दिवस सह सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों, दर्जनों डॉक्टरों जिसमें डॉ सुनिल कुमार, डॉ एमएस अली, डॉ घनश्याम कुमार आदि के साथ शोधाथियों को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉ सुरी ने बताया कि " एक अच्छ

शिक्षक माली की भांति होता है, शिक्षक रीपी माली, मां-बाप द्वारा सौंपे छोटे से बीज को सींचकर एक मजबूत पौधा तैयार करता है " , विशिष्ट अतिथि डॉ अबोध कुमार ने कहा कि शिक्षक ही समाज के कायाकल्प को बदल सकते हैं। वहीं मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि " सोशल मीडिया के आकर्षण में न फंसकर अपनी पढ़ाई और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। प्राचार्य ने अपने संबोधन बताया कि " शिक्षक ही विद्यार्थी के जीवन का श्रेष्ठ तैयारकर्ता है, जो अपनी जीवनदायिनी शिक्षकता से छात्र, समाज और राष्ट्र को सुसज्जित करता है"। इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक शिवम कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा शिक्षकों को किया गया सम्मानित

गया राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश कार्यालय नूतन नगर में शिक्षक दिवस प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनीष पंकज मिश्रा के अध्यक्षता में मनाया गया कार्यक्रम का आरंभ देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के तस्वीर पर माला फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। (अंग वस्त्र, कलम और डायरी देकर शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय



मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उन्हें नमन

और उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया जाता है। डॉ. राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका मानना था कि शिक्षक समाज की नींव होते हैं और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए यह दिन समर्पित होना चाहिए। शिक्षक दिवस हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व को रेखांकित करता है। शिक्षक न केवल ज्ञान के स्रोत होते हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और नैतिकताओं से

भी अवगत कराते हैं। वे हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जो हमें सही दिशा दिखाते और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। उनके मार्गदर्शन के बिना, हम सही और गलत में फर्क करना सीख नहीं सकते। इस दिन, छात्र अपने शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं।

इनरव्हील क्लब ऑफ द्वारा शिक्षक दिवस पर पंचायत भवन में ही एक समारोह का आयोजन

गया। इनरव्हील क्लब गया आज लोधवे पहाड़ फतेहपुर प्रखंड में बनाया गया है। जिसके तहत 250 पौधे पीपल, नीम, महगनी, शीशम, सैमल, सागवान, आम, अमरुद आदि के लगाए गए। कुछ पौधे पंचायत भवन के परिसर में भी लगाए गए हैं। पौधारोपण में स्थानीय महिला तथा पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा आश्वासन दिया कि इन पौधों की पूरी

देखभाल करेंगे। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर पंचायत भवन में ही एक समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में अध्यक्ष तुषी गुप्ता ने सभी का स्वागत किया गया है। पी पी सीमा भदानी ने इनरव्हील के विषय में जानकारी दी है। शीलाल गुप्ता ने शिक्षक दिवस के महत्व की जानकारी दी है। इस अवसर पर अरुण कुमार सिंह तथा राजेंद्र प्रसाद मध्य विद्यालय

लोधवे अरुणेश कुमार आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय कांटी अजीत कुमार मध्य विद्यालय गजाडीह रूपा कुमारी मध्य विद्यालय दर्शनडीह में मुकेश कुमार पांडे सत्यवती उच्च विद्यालय कार सेवा प्रीति कुमारी प्राथमिक विद्यालय बेला को प्रशस्ति पत्र तथा उपहार देकर सम्मानित किया गया है। अंत में पूर्व अध्यक्ष राज हिल्लन ने सभी को धन्यवाद दिया।

जिला जज ने पदभार ग्रहण किया

प्रातः किरण संवाददाता

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में नये जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार वन ने पदभार ग्रहण कर सर्वप्रथम जमानत याचिकाओं को सुनकर न्यायिक कार्य शुरू किया। इस अवसर पर जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय महासचिव जगनरायण सिंह, लोक अभियोजक पुष्कर अरवाल, जिला विधिज्ञ संघ के पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह, मीडिया प्रभारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बुके देकर बधाई दी और उनकी उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिला जज राजकुमार वन ने कहा कि मैं सूर्य देव भूमि को नमन करता हूँ। दक्षिण बिहार में पहली बार औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हम आप सभी अधिवक्तियों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मेरा अथक प्रयास होगा कि बार और बेंच में मजबूत तालमेल बैठाकर अधिक



से अधिक मुवक्किलों के वादों का निष्पादन हो और अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह है कि न्यायमंडल औरंगाबाद के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के वादों के सुनवाई में सकारात्मक सहयोग करें। जिला जज ने व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और 14 सितम्बर को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद तथा अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारियों की समीक्षा कर उचित निर्देश दिए। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायधीश राजकुमार वन व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के 32 वें जिला जज बने हैं। इससे पूर्व वे उच्च न्यायालय पटना में ओ. एस. डी पद पर थे।

पूर्व जिप अध्यक्ष छोटका बाबू के मांग पर नगर विकास मंत्री ने प्लाई ओवर निर्माण के लिए आश्वस्त किया

प्रातः किरण संवाददाता

औरंगाबाद। जिला मुख्यालय औरंगाबाद में 4 सितंबर को बिहार गौरव, पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंहा उर्फ छोटे साहब की प्रतिमा अनावरण के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री नगर विकास नीतीन नवीन, पूर्व रायपाल निखिल कुमार, पूर्व संतोष कुमार सिंह, प्रभारी मंत्री डॉ संतोष सुमन का शुभ आगमन हुआ और प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण के पश्चात आयोजित सभा में पूर्व जीप अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ छोटेका बाबू औरंगाबाद जिले के विभिन्न जनहित के मुद्दों को मंचों पर उठाया करते हैं। बिहार सरकार से पत्राचार किया करते हैं। चाहे यातायात थाना खुलवाने का बात हो जिला शिक्षा विभाग का स्थाई कार्यालय स्वयं के भवन में करने की बात हो। अग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के उतराव को बात हो या अन्य बहुत से जनहित के मुद्दों को वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जरूर उठाते हैं।



शहर के सड़कों की स्थिति के बारे में जो चर्चा की है उस पर मैं आप सभी को आश्चर्य करता हूँ कि इस कार्य को जल्द किया जाएगा एवं प्लाईओवर निर्माण के लिए मेरे तरफ से भरपूर प्रयास किया जाएगा। विदित होकर राघवेंद्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ छोटेका बाबू औरंगाबाद जिले के विभिन्न जनहित के मुद्दों को मंचों पर उठाया करते हैं। बिहार सरकार से पत्राचार किया करते हैं। चाहे यातायात थाना खुलवाने का बात हो जिला शिक्षा विभाग का स्थाई कार्यालय स्वयं के भवन में करने की बात हो। अग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के उतराव को बात हो या अन्य बहुत से जनहित के मुद्दों को वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जरूर उठाते हैं।



संसेक्स
82201.16 पर बंद
निफ्टी
25145.10 पर बंद

सोना
70,980
चांदी
85,000

श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का आईपीओ आज खुलेगा

मुंबई, एजेंसी। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जो लचीले इंटरमीडिएट ब्लक कंटेनर्स और अन्य औद्योगिक पैकेजिंग उत्पादों जैसे बुनाई वाले बैग और टेपस का उत्पादन और बिक्री करती है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना आईपीओ 5 सितंबर, 2024 को खोलने की योजना बना रही है। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 169.65 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है, और इसके शेयर बीएसई और हस्व प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। इश्यू साइज 2,04,40,000 इक्विटी शेयरों तक है, जिसमें 1,47,50,000 फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर और 56,90,000 ऑफर फॉर सेल के शेयर 10 के फंस वैल्यू पर शामिल हैं। आईपीओ से प्राप्त शुद्ध राशि का उपयोग आंशिक या पूर्ण रूप से कुछ लंबित उधारों का निपटारा करने, कंपनी की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। एंकर हिस्से के लिए बोलियां 4 सितंबर, 2024 को खुलेंगी और इश्यू 9 सितंबर, 2024 को बंद होगा। इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड और यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड हैं। इश्यू का रजिस्ट्रार लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। श्री बिनोद कुमार अग्रवाल, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने कहा, यह आईपीओ हमारे यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भविष्य की वृद्धि और सफलता की नींव रखता है। दो दशकों से अधिक का उद्योग अनुभव और 55,000+ वर्ग मीटर में फैले पांच विनिर्माण इकाइयों के साथ काम करते हुए, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड वैश्विक स्तर पर काम कर रही है। आईपीओ की आय कुछ उधारों की पुनर्भुगतान या अग्रिम भुगतान, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों को कवर करने में आवश्यक होगा। इससे हमारे ब्रांड का मूल्य बढ़ेगा, संभाल में दक्षता आएगी और दीर्घकालिक सफलता और उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

सोनी लिव लेकर आया दिलचस्प क्राइम थ्रिलर 'मनवत मर्डर्स'


मुंबई, एजेंसी। सोनी लिव एक दिलचस्प क्राइम थ्रिलर सीरीज 'मनवत मर्डर्स' पेश करने के लिये तैयार है। इस सीरीज में इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक का खुलासा होगा, जिसने 1972 से लेकर 1974 तक देश को झकझोर कर रख दिया था। यह भयानक अध्याय आशीष बेंडे द्वारा निर्देशित आगामी सीरीज में देखने का मौका मिलेगा। यह क्राइम-थ्रिलर उन महत्वपूर्ण घंटों का ध्यान दिलाता है, जो स्थिति को संभाल या बिगाड़ सकते हैं। इसमें सीआईडी के जानेमाने डिटेक्टिव ऑफिसर रमाकांत एस. कुलकर्णी जांच करने वाली टीमों का नेतृत्व करते हैं। उन्हें भारत का शेरलॉक होम्स भी कहा जाता है। अपनी अदृष्ट प्रतिबद्धता, दृढ़ता और विशेषज्ञता से वह सबसे पेचीदा मामलों को सुलझाते हैं। 1970 के दशक के दौरान ग्रामीण महाराष्ट्र में रहस्यमयी हत्याओं का खुलासा करने में उन्हें चुनौतियों से जूझना पड़ता है। देखने लायक बात है कि उनका मुकाबला वक्त से है।

कोटक ने खासतौर से यूएई जाने वाले यात्रियों के लिए फाल्कन फॉरेक्स कार्ड पेश किया

कोटक फाल्कन कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को पर्यटन स्थलों

कोटक फाल्कन कार्ड - सिंगल करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड

मुंबई, एजेंसी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल/कोटक) ने आज कोटक फाल्कन कार्ड लॉन्च किया। यह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक सिंगल करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है। कोटक फाल्कन कार्ड की खासियत इसकी सुरक्षा और सुविधा तथा 20,000 रुपये तक की कुल बचत है, जो इसे महत्वाकांक्षी भारतीयों के लिए आकर्षक बनाती है। यूएई में भुगतान के लिए कोटक फाल्कन कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को 100 से अधिक पर्यटन स्थलों, एडवेंचर स्पॉट्स, खरीदारी, भोजन और अनूठे अनुभवों पर तत्काल छूट मिलेगी। अतिरिक्त लाभों में कॉम्प्लीमेंट्री बीमा कवर, 24*7 रिलोड सेवा, तत्काल रिफंड और परेशानी मुक्त कार्ड रिप्लेसमेंट शामिल हैं। कोटक फाल्कन कार्ड का अनावरण



मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक के प्रेसिडेंट- हेड अपरलुएंट, एनआरआई, बिजनेस बैंकिंग और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रोहित भसीन, मर्करी पेमेंट्स सर्विसेज के सीईओ मुजफ्फर हामिद और एनपीसीआई के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। यूएई आधुनिकता और विलासिता का एक अनुभव मिश्रण है। यह एकीकृत वित्तीय और डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रोहित भसीन ने कहा हम महत्वाकांक्षी भारतीयों के लिए सबसे

EM इनवेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत की लंबी छलांग

एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भी ड्रैगन को पीछे छोड़ने के करीब

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की इकॉनमी दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ रही है और वह कई मामलों में चीन पर भारी पड़ता जा रही है। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के बीच भारत ने एमएससीआईइएम इनवेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं भारत अधिक लोकप्रिय एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भी ड्रैगन को मात के करीब पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक बुधवार को भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए एमएससीआईइएम आइएमआईइ इंडेक्स 24 उभरते बाजारों में बड़े, मध्यम और छोटे शेयरों को कवर करता है।



पछड़ने के बहुत करीब है। एमएससीआईइएम आइएमआईइ इंडेक्स 24 उभरते बाजारों में बड़े, मध्यम और छोटे शेयरों को कवर करता है।

इस इंडेक्स में चीन के पछाड़कर टॉप पर पहुंच गया भारत

3,355 कंस्टीट्यूटर्स के साथ यह इंडेक्स हर देश में प्री प्लोट-एडजस्टेड मार्केट कैप का करीब 99 प्रतिशत कवर करता है। पिछले

महीने एमएससीआईइएम सूचकांकों में फेरबदल के बाद एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया था कि भारतीय इक्विटी में लगभग 4 से 4.5 अरब डॉलर का निवेश हो सकता है। नुवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुसार मौजूदा मोमेंटम को देखते हुए भारत साल के अंत तक एमएससीआईइएम इंडेक्स में 22 प्रतिशत वेटेज को को पार कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि बढ़ते वेटेज से देश में विदेशी प्रवाह बढ़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि घरेलू बाजार के प्रतिभागी उनसे अधिक भार में बढ़ोतरी उत्साह का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। भारत को धरुसंदर्भ में शीर्ष पिक और एशिया-प्रशांत संदर्भ में नंबर 2 पिक कहते हुए ब्रोकरोज ने कहा कि फंडामेंटल फैक्टरस निश्चित रूप से भारत पर लागू होते हैं और धरु

में भारत की नई स्थिति चिंताजनक नहीं है। कई अन्य निवेशकों की तरह मॉर्गन स्टैनली का भी मानना है कि शेयरों में गिरावट से साइडलाइन पर पैसा आ सकता है। इससे इस तरह की गिरावट ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने एक नोट में लिखा है कि भारत में शेयर मार्केट अभी पीक पर नहीं पहुंचा है और एम इंडेक्स में भारत के वेटेज को शिखर तक पहुंचने के लिए अभी कुछ और दूरी तय करनी पड़ सकती है। इस कैलेंडर साल में एमएससीआईइएम इंडेक्स में सात फीसदी तक तेजी आई है जबकि निफ्टी ने 15 प्रतिशत रिटर्न दिया है। दूसरी ओर चाइनीज इक्विटीज में 10 फीसदी तेजी आई है। एमएससीआईइएम इंडिया में इस साल अब तक 22 प्रतिशत तेजी आई है और दूसरा कोई ग्लोबल इंडेक्स दूर-दूर तक उसके आसपास भी नहीं है।

25,000 कर्मचारियों को करोड़पति बनाने वाली कंपनी पर संकट, एक महीने में गंवा दिए 1 ट्रिलियन

नई दिल्ली, एजेंसी। एआई चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के लिए यह साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस दौरान कंपनी ने एक दिन में सबसे ज्यादा मार्केट कैप हासिल करने का रेकॉर्ड बनाया और कुछ समय के लिए यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी भी बन गई। इस तेजी से कंपनी के करीब 25,000 कर्मचारी मिलियनेर बने। पिछले पांच साल में गंवाए गए शेयरों में 2,600 फीसदी तेजी आई है। लेकिन इसी साल कंपनी के नाम कुछ अनचाहे रेकॉर्ड भी चमका हो गए। यह एक दिन में सबसे ज्यादा मार्केट कैप गंवाने वाली कंपनी भी बन गई। एक महीने से भी कम समय में इसका मार्केट कैप एक ट्रिलियन डॉलर गिर गया है।



एनवीडिया का मार्केट कैप एक महीने से भी कम समय में करीब एक ट्रिलियन डॉलर गिर चुका है।

क्यों गिरा शेयर

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एनवीडिया को एक समन भेजा है। सरकार ने कंपनी के खिलाफ एंटी-ट्रस्ट जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ऐसे खरीदारों को तंग कर रही है जो उसके चिप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस कारण कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में गिरावट से फाउंडर और सीईओ जेफ हेंडरसन की नेटवर्थ में भी 10 अरब डॉलर की गिरावट आई। हुआंग 93.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 49.4 अरब डॉलर की तेजी आई है।

पहले बुजुर्गों के लिए, अब बच्चों पर फोकस कर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ रहे हैं एनसीआर में

नई दिल्ली, एजेंसी। जब आवश्यकता की बात होती है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान का जिक्र होता है। पहले लोग सर छुटाने के लिए मकान बनाते या खरीदते थे। अब मकान खरीदते वक्त सबसे पहले बात होती है सुविधाओं की। तभी तो रियल एस्टेट डेवलपर्स भी प्राइवेट की पसंद और सुविधाओं के हिसाब से प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। कुछ समय पहले सीनियर सिटीजनस हाउसिंग का बड़ा जोर था। अब बच्चों के लिए हाउसिंग सोसाइटी में विशेष सुविधाओं की बात हो रही है।

कौन है डेवलपर

यह रियल एस्टेट डेवलपर है आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। एनएसई और बीएसई में लिस्टेड इस कंपनी ने गुरुग्राम या गुडगांव के सेक्टर 93 में बच्चों पर केंद्रित एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम आशियाना अमाराह है। इस प्रोजेक्ट को लागू पसंद भी कर रहे हैं। तभी तो इसे खरीदारों ने हाथों-हाथ लिया है। तभी तो लॉन्चिंग के पहले ही दिन 60 फीसदी मकान बिक गए।

कैसा है बाजार में रिस्पांस

आशियाना के अमाराह प्रोजेक्ट में कुल 280 यूनिट बनाए जा रहे हैं। कल इसकी लॉन्चिंग हुई और शाम तक इनमें से 168 यूनिट की बिक्री हो गई। मतलब 60 फीसदी



इंटीरि सोल्टा। इससे कंपनी को 403.49 करोड़ रुपये की रेवेन्यू मिलने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि अमाराह के फेज 4 में कुल बिक्री योग्य क्षेत्र 4.95 लाख वर्ग फीट है। इनमें प्रीमियम 3 बीएचके यूनिट शामिल हैं।

क्या है खासियत

आशियाना हाउसिंग के जेएमडी अंकुर गुप्ता बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट 22 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसमें बच्चों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही परिवारों के लिए एक समृद्ध वातावरण देने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। इस परियोजना को विभिन्न आयु समूहों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से सुविधाओं की प्लानिंग की गई है।

सभी उम्र के बच्चों के लिए है व्यवस्था

आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट में छोटे बच्चों के लिए कुछ बना दिया जाता है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। गुप्ता का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में छोटे बच्चों के लिए ट्री हाउस, रिबन सिटिंग, हॉपस्कॉच, किड्स प्ले एरिया, मेज, टनल प्ले, साइकिलिंग रैम्प आदि की व्यवस्था है। बड़े बच्चों के लिए बॉस्केटबॉल कोर्ट, एक्टिव स्पोर्ट्स फेसिलिटीज आदि की व्यवस्था है। आशियाना अमाराह प्रोजेक्ट में बच्चों के माता-पिता की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तभी तो इस परियोजना में 30,000 से अधिक वर्ग फीट का क्लब हाउस शामिल किया गया है। इसे बच्चों और वयस्कों दोनों की रुचियों और जरूरतों को पूरा करने वाली कई तरह की गतिविधियों की पेशकश करने के लिए डिजाइन किया गया है।

93 प्रतिशत प्रीमियम के साथ लिस्टिंग के बाद लोअर सर्किट, रेमंड लाइफस्टाइल के शेयरों को बेचने की मची होड़



सिक्वोरिटीज ने कंपनी को 30,000 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन दी है। इसका मतलब है कि प्रति शेयर 4,927 रुपये का टारगेट प्राइस। वेंचुरा सिक्वोरिटीज ने कहा कि डिमंड से पहले पिछले चार साल में रेमंड की मैनेजमेंट टीम ने पूरे कारोबार का कायाकल्प किया है।

नई दिल्ली, एजेंसी। रेमंड लाइफस्टाइल के शेयर ने पहले ही दिन निवेशकों की झोली भर दी। यह कंपनी इस साल जून में अपनी मूल कंपनी रेमंड लिमिटेड से अलग हुई थी और आज इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। कंपनी का शेयर एनएसई पर 3,020 रुपये और बीएसई पर 3,000 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसका बेस प्राइस 1,562.65 रुपये था और इसकी लिस्टिंग 93 प्रतिशत प्रीमियम के साथ हुई। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप लगभग 18,300 करोड़ रुपये पहुंच गया। लिस्टिंग के बाद कंपनी का शेयर 5 प्रतिशत के लोअर सर्किट लिमिटेड पर पहुंच गया। इसकी वजह यह रही कि शुरुआती निवेशकों ने मुनाफावसुली की। रेमंड ग्रुप ने रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के हिस्से के रूप में अपने लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग कर दिया था। रेमंड में प्रत्येक पांच शेयरों के लिए रेमंड लाइफस्टाइल के चार शेयर दिए थे। वेंचुरा सिक्वोरिटीज ने कंपनी को 30,000 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन दी है। इसका मतलब है कि प्रति शेयर 4,927 रुपये का टारगेट प्राइस। वेंचुरा सिक्वोरिटीज ने कहा कि डिमंड से पहले पिछले चार साल में रेमंड की मैनेजमेंट टीम ने पूरे कारोबार का कायाकल्प किया है।

लैक्सस इंडिया को ग्लोबल एनवायरनमेंट और एनर्जी फाउंडेशन ग्लोबल अवार्ड्स

मुंबई, एजेंसी। लैक्सस इंडिया ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एण्ड एनर्जी फाउंडेशन (जीईईएफ) के दो ग्लोबल अवार्ड्स प्राप्त किये हैं। साल 2024 के लिये कंपनी को प्लैटिनम कैटेगरी में सेप्टी अवार्ड और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में वाटरटेक अवार्ड प्रदान किये गये हैं। यह पुरस्कार सुरक्षा के मानकों में उत्कृष्टता और जल प्रबंधन के तरीकों में संवहनीयता के लिये हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। जीईईएफ ग्लोबल सेप्टी अवार्ड्स केमिकल उद्योग में सुरक्षा के उच्चतम मानक बनाये रखने में लैक्सस इंडिया की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हैं। नई दिल्ली में 26 जुलाई, 2024 को हुए एक भव्य समारोह में लैक्सस इंडिया की ओर से पीटीएसई के पूर्णकालिक निदेशक एवं प्रमुख बलराम खोटे और पीटीएसई- ऑक्वयूशन सेप्टी, एक्जैक्ट, रिसॉर्सिबल केयर एण्ड ट्रेड कॉम्प्लायंस के सीनियर मैनेजर भरत मीसाला ने यह पुरस्कार प्राप्त किये।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बनी ब्रेल लिपि में बीमा

पॉलिसी लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी

मुंबई एजेंसी। भारत की सबसे बड़ी खुदरा स्वास्थ्य बीमा कंपनी, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टार हेल्थ इंश्योरेंस) ने आज उद्योग में पहली बार ब्रेल लिपि में एक बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की। यह पॉलिसी समावेश और सुलभता के प्रति स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की प्रतिबद्धता बढ़ाते हुए, यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि दृष्टिबाधित और नेत्रहीन लोगों तक जानकारी की पहुंच हो और अपने स्वास्थ्य तथा वित्त संबंधी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। स्टार हेल्थ ने भारत में मौजूद 34 मिलियन दृष्टिबाधित/दृष्टिहीन लोगों को आय सुजन के अवसरों के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विविधता और वित्तीय समावेश अभियान भी शुरू किया है। यह समाज के इस वंचित, हाशिए पर पड़े वर्ग को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर उन्हें कंपनी के साथ स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रक्रिया की खूबसूरती यह है कि यह उन्हें अपनी गति से, अपने परिचित परिवेश में काम करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद संभालने में मदद करता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के



एमडी और सीईओ, श्री आनंद रॉय ने कहा, हमें ब्रेल लिपि में 'स्पेशल केयर गोल्ड' पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह समाज के सभी वर्गों में स्वास्थ्य बीमा तक समान पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पॉलिसी पारंपरिक बीमा से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि विकलांग व्यक्तियों को उनकी जरूरत के अनुसार व्यापक सहायता और कवरेज मिले। हम अपेक्षाकृत अधिक समावेशी बीमा क्षेत्र बनाना चाहते हैं, विशेष रूप से भारत में 34 मिलियन दृष्टिबाधित लोगों के लिए। हम आईआरडीएआई के 'सभी के लिए बीमा' दृष्टिकोण के अनुकूल न केवल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य बनाना चाहते हैं, बल्कि समाज के इस वंचित वर्ग के लिए समर्पित हैं, बलित्नाकरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं, बलित्नाकरण के इस वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए वहनीय आय सुजन के अवसर पैदा कर वित्तीय समावेश में मदद करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोकोद्धार के लिए समर्पित, श्रीकांत बोल्सला से बेहतर और कौन हो सकता है।

टी-20 इंटरनेशनल में मंगोलिया 10 रन पर ऑलआउट

यह जॉइंट लोएस्ट स्कोर :सिंगापुर 5 बॉल में मैच जीता, हर्ष भारद्वाज ने 6 विकेट लिए



नई दिल्ली, एजेंसी। मंगोलियाई टीम सिंगापुर के खिलाफ 10 रन पर ऑलआउट हो गई है। यह टी-20 इंटरनेशनल का जॉइंट लोएस्ट स्कोर है। पिछले साल आइल ऑफ मैन की टीम भी इसी स्कोर पर ऑलआउट हो चुकी है। गुरुवार को टी-20 वर्ल्ड कप के एशियन क्वालिफायर मैच में सिंगापुर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम ने मंगोलियाई टीम को 10 ओवर में 10 रन पर ऑलआउट कर दिया। सिंगापुर ने 11 रन का टारगेट महज 5 बॉल में एक विकेट पर हासिल कर लिया। यह मुकाबला महज 65 गेंद ही चला। 17 साल के लेग स्पिनर हर्ष भारद्वाज ने 3 रन

देकर 6 विकेट झटके। साथ ही अक्षय पुरी को 2, राहुल और रमेश को एक-एक विकेट मिले।

मंगोलिया 2024 में तीसरी बार 20 से कम पर ऑलआउट

मंगोलियाई टीम इस साल तीसरी बार 20 रन से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई है। इससे पहले टीम 31 अगस्त को हांगकांग के खिलाफ 17 और मई में जापान के खिलाफ 12 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो चुकी है।

पहली बॉल पर विकेट गंवाया, सिंपसन के चौके से जीता मैच

11 रन का टारगेट चेज करने उतरी सिंगापुर की टीम ने पारी की पहली बॉल पर विकेट गंवा दिया था। यहां कप्तान मनप्रती सिंह शून्य पर आउट हुए। उनकी जगह उतरे रॉल शर्मा ने अपनी पहली गेंद पर छक्का जमाया। फिर फिर विलियम सिंपसन ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर विजयी चौका लगाया। मंगोलिया को अब सभी 4 मुकाबलों में हार मिली है। टीम पॉइंट्स टेबल के निचले पायदान पर है।

संक्षिप्त समाचार

BCCI की सालाना बैठक में सेक्रेटरी चुनाव का मुद्दा नहीं
29 सितंबर को बेंगलुरु में होगी AGM



नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एनुअल जनरल मीटिंग में सेक्रेटरी के चुनाव का एजेंसी शामिल नहीं है। अब नए सचिव का चुनाव स्पेशल स्पेशल जनरल मीटिंग में होगा। इस संबंध में बोर्ड ने गुरुवार 5 सितंबर को सभी स्टेट एसोसिएशन को नोटिस भेजा है। इससे अनुसार, बोर्ड की सालाना बैठक 29 सितंबर को बेंगलुरु के फोर सीजनस होटल में होगी। इस दौरान बेंगलुरु में नवनिर्मित नेशनल क्रिकेट सेंटर का उद्घाटन भी होगा। इससे भारतीय बोर्ड के सचिव की पोस्ट खाली होने जा रही है। ऐसे में ऋषभ रतन को 1 दिसंबर से पहले नया सचिव चुनना होगा। बताया जा रहा है कि नए सचिव का चुनाव स्पेशल जनरल मीटिंग में होगा।

रोहित शर्मा का करियर बहुत लंबा होने वाला है! प्रज्ञान ओझा ने बताई राज की बात



नई दिल्ली, एजेंसी। रोहित शर्मा का फॉर्म तीनों फॉर्मेट में शानदार रहा है। इस बल्लेबाज ने टी20 के अलावा वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है। पिछले दिनों रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। हालांकि, इसके बाद रोहित शर्मा अपने करियर को लंबा करना चाहते हैं तो फिटनेस पर काम करना होगा। बहरहाल, अब भारत के पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का बयान आया है।

प्रज्ञान ओझा का मानना है कि रोहित शर्मा लंबे वक तक क्रिकेट मैदान पर दिखेंगे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय टीम को आगामी दिनों में बांग्लादेश के अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भारतीय सरजमीं पर खेला जाना है। जबकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या इन सीरीजों के लिए रोहित शर्मा तैयार हैं? क्या रोहित शर्मा को फिटनेस का साथ मिलेगा? प्रज्ञान ओझा कहते हैं कि मैंने हाल ही में देखा कि रोहित शर्मा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि वह जानते हैं कि अगर करियर को लंबा करना है तो फिटनेस को बेहतर करना ही होगा। फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बताते चलें कि भारत और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेले जाएगी। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। दरअसल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फ्लॉइंट्स टेबल के महेनजर सीरीज बेहद अहम है। इस वक ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फ्लॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। जबकि भारत दूसरे नंबर पर काबिज है।

दलीप ट्रॉफी

टीम डी 164 रन पर ऑलआउट

अक्षर पटेल की फिफटी, वैशाख ने झटके 3 विकेट; चाय तक टीम बी का स्कोर 124/7

नई दिल्ली, एजेंसी। दलीप ट्रॉफी के साथ भारत के डोमेस्टिक सीजन का आगाज हो चुका है। मौजूदा सीजन से 6 मैचों के इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदला गया है। इस बार 4 टीमों हिस्सा ले रही हैं। टीम ए का मुकाबला बेंगलुरु में टीम बी से हो रहा है, जबकि टीम सी अनंतपुर में टीम डी से खेल रही है। गुरुवार को टीम ए के कप्तान शुभमन गिल और टीम सी के कप्तान ऋगुराज गायकवाड ने टॉस जीते हैं। दोनों ही कप्तानों ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अनंतपुर में खेले जा रहे मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम डी 164 रन पर ऑलआउट हो गई है। अक्षर पटेल 86 रन का योगदान दिया। शेष बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सके। दूसरी ओर, बेंगलुरु में



अभिमन्यु ईश्वरन की कैटेंसी में उतरी टीम बना लिए हैं। मुशीर खान (50 रन बी ने चाय तक 7 विकेट पर 124 रन नाबाद) फिफटी पूरी कर चुके हैं। नवदीप

सैनी (7 रन नाबाद) उनका साथ दे रहे हैं।

1. टीम सी Vs टीम डी 6 में से 4 बैटर्स सिंगल डिजिट पर आउट - अनंतपुर में खेले जा रहे मुकाबले में टीम डी ने 4 रन के टीम स्कोर पर पहला विकेट गंवाया। यहां ओपनर अथर्व ताय? 4 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें अंशुल कंबोज ने विजयकुमार वैशाख के हाथों कैच कराया। ताय? के पीछे यश दुबे भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी 9 रन ही बना सके। देवदत्त पंडिकल तो खाता भी नहीं खोल सके। टीम के टॉप-6 में से 4 बैटर्स दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके। 76 पर 8 विकेट गंवाते के बाद अक्षर पटेल ने पारी संपादी और 86 रन की पारी खेलकर स्कोर 150 पार पहुंचाया।

दर्दनाक

पेरिस ओलंपिक की एथलीट को बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया, अस्पताल में मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली युगांडा की एथलीट रेबेका चेपेटेई गुरुवार को दर्दनाक मौत हो गई। युगांडा की इस एथलीट को उनके बॉयफ्रेंड ने रिव्कार को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके चलते वह 80 फीसदी तक झुलस गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए केन्या के हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। चेपेटेई को केन्या के एल्डोरेट शहर के मोई टीचिंग एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रवक्ता ओवेन मेनाच ने उनकी मौत की पुष्टि की है। बता दें यह एथलीट पिछले महीने पेरिस में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों का हिस्सा थी और उन्होंने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था। वह

इस दौड़ में 44वें स्थान पर रही थीं। इससे पहले पिछले साल आयोजित हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह एथलीट घिनौनी करतूत कर दी। रेबेका के मां-बाप के मुताबिक, 33 वर्षीय उनकी एथलीट बेटी ने हाल ही में युगांडा की ट्रांस नजोई कार्डटी में एक घर खरीदा था, जहां एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है और यहां युगांडा के कई एथलीट्स रहते हैं। स्थानीय पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान लेने के बाद इस आरोप में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें इस घटना से पहले यह कपल जमीन विवाद में उतेजित होकर लड़ रहा था। दोनों ने भी इनके लड़ने की आवाज सुनी थी, जिसमें जमीन विवाद का मुद्दा बताया जा रहा है। ट्रांस नजोई कार्डटी के पुलिस

कमांडर जेरेमिया ओली कोसियोम ने सोमवार को कहा कि चेपेटेई के पार्टनर डिक्सन नडीमा ने पेट्रोल से भरा एक कंटेनर खरीदा था और उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड पर छिड़कर आग लगा दी। युगांडा की ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष डॉनल्ड रुकारे ने एक्स पर लिखा, 'हमें यह दुख भरी जानकारी मिली है कि हमारी ओलंपिक एथलीट रेबेका चेपेटेई अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनके बॉयफ्रेंड द्वारा किए गए क्रूर हमले के बाद, हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पुरजोर निंदा करते हैं। यह कायराना और बेवकूफी भरी हकत है, जिसमें एक महान एथलीट की जान चली गई। उनकी विरासत कायम रहेगी।'

पेरिस पैरालिंपिक

तीरंदाजी में हरविंदर ने जीता गोल्ड



पेरिस, एजेंसी। टोक्यो 2020 के कांस्य पदक विजेता हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर एक और इतिहास रच दिया। वह पैरालिंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए। उन्होंने बुधवार को फाइनल में पोलैंड के लुकास सिसजेक को 6-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के साथ, हरविंदर पैरालिंपिक और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय तीरंदाज बन गए। वह लगातार दो पैरालिंपिक में पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र तीरंदाज भी हैं। भारत ने अब तक पेरिस पैरालिंपिक में चार स्वर्ण, आठ रजत और 10 कांस्य पदकों समेत कुल 22 पदक जीते हैं। हरविंदर के स्वर्ण के साथ भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया है।

इससे पहले बुधवार को ही सचिन खिलारी ने देश के लिए रजत पदक जीता था। हरविंदर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। पहले सेट में 10 और दो 9 के साथ हरविंदर सिंह ने पहला सेट जीत लिया। सिसजेक ने 9, 7 और 8 का स्कोर किया। 2-0 से आगे चल रहे हरविंदर ने दूसरे सेट की शुरुआत लगातार दो नौ के साथ की और फिर 10 का स्कोर किया जबकि सिसजेक ने तीनों प्रयासों में 9 का स्कोर किया। हरियाणा के कैथल के एक किसान परिवार से आने वाले हरविंदर ने दो 10 और उसके बाद एक नौ (29) के साथ स्वर्ण पदक पक्का किया, जबकि सिसजेक ने सात से शुरुआत की और फिर दो 9 का स्कोर किया। इससे पहले, हरविंदर ने बुधवार को ही सेमीफाइनल में ईरान के अरब अमेरी मोहम्मद रजा को हराया था।

कप्तान शान मसूद ने विवादों पर तोड़ी चुप्पी, बताया- दोनों वायरल वीडियो का असली सच

कराची, एजेंसी। बांग्लादेश के खिलाफ मिला हार के बाद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान काफी ज्यादा ट्रोले हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैच के दौरान लिए गए फैसले और हेड कोच के साथ व्यवहार पर सवाल खड़े किए गए। इस टेस्ट सीरीज के दौरान दो वीडियो वायरल हुए और दोनों में एक किरदार था। कप्तान शान मसूद का एक वीडियो हेड कोच के साथ गुस्सा करते हुए वायरल हुआ। जिसमें शान मसूद जेसन गिलेस्पी के ऊपर चिढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो शाहीन शाह अफरीदी के साथ वायरल हुई थी। जिसमें शाहीन के कंधे पर कप्तान शान मसूद ने हाथ रखा लेकिन कुछ सेकेंड में उनका हाथ शाहीन ने कंधे के ऊपर से हटा दिया। इस वीडियो से टीम में मनमुटाव की खबरें आने लगी थीं। इन सबपर कप्तान शान मसूद ने बयान दिया है।

क्या बोले कप्तान शान मसूद - शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब देते हुए बोले कि मैंने जब शाहीन के कंधे पर हाथ रखा था। उसने अपने कंधे से मेरा हाथ हटा दिया था। शाहीन ने गुस्से की वजह से ऐसा नहीं किया था। शाहीन के कंधे पर बॉल लगा गई थी और उसी पर मैंने हाथ रख दिया। इसलिए उसने कंधे के ऊपर से मेरा हाथ हटा दिया था। वहीं हेड कोच जेसन गिलेस्पी के साथ हुए वायरल वीडियो पर बोले कि मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं



दिया था। शाहीन ने गुस्से की वजह से ऐसा नहीं किया था। शाहीन के कंधे पर बॉल लगा गई थी और उसी पर मैंने हाथ रख दिया। इसलिए उसने कंधे के ऊपर से मेरा हाथ हटा दिया था। वहीं हेड कोच जेसन गिलेस्पी के साथ हुए वायरल वीडियो पर बोले कि मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं

हुआ था। हमारा बॉल लिटन दास के शॉट पर बाहर चला गया था। जिसके बाद जो गेंद अंदर आया था वो 18 से 19 ओवर पुराना था। जबकि हमारी बॉल केवल 8 ओवर ही पुराना था। मैं उनसे इसी बात को लेकर शिकायत कर रहा था।

शरत कमल की निकट भविष्य में संन्यास की योजना नहीं, टूर पर एक और सत्र खेलेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के महान टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल के पांचवें ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद संन्यास की योजना बनाने की उम्मीद थी लेकिन 42 साल के इस खिलाड़ी ने बुधवार को पेशेवर टूर पर एक और सत्र में खेलने की प्रतिबद्धता जाहिर की। शरत को बुधवार को एशियाई चैंपियनशिप की पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया जो अगले महीने अस्ताना में खेले जायेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक शरत ने कहा कि वह सात अक्टूबर से शुरु होने

वाले एशियाई चैंपियनशिप के लिए कजाखस्तान की यात्रा से पहले इस महीने के अंत में चाहना स्पेश में भी हिस्सा लेंगे। भारत की सर्वश्रेष्ठ 37 रैंकिंग हासिल करने वाले शरत दोहा में 2025 विश्व चैंपियनशिप में खेलने का लक्ष्य भी बनाये हैं। इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा, 'अगले 9 महीने से एक साल तक मैं सक्रिय खिलाड़ी बना रहूंगा। लेकिन साथ ही मैं आईओसी और आईटीओएफ में विकल्प की तलाश करूंगा। अपने देश में टीटीएफआई के साथ एक ढांचा बनाने में मदद करने की कोशिश

करूंगा ताकि साई और टीटीएफआई के बीच अंतर कम हो सके और खेल में ज्यादा से ज्यादा कोरपोरेट प्रायोजक आए। शरत अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। वह भारतीय ओलंपिक संघ में एथलीट संस्था का भी हिस्सा हैं और निकट भविष्य में वह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के एथलीट आयोग में एक सीट हासिल करने का लक्ष्य बनाये हैं।

संक्षिप्त समाचार

शशि थरूर ने कोलकाता में प्रभा खेतान फाउंडेशन की पुस्तक रैक का ताजसिटी सेंटर में अनावरण किया

कोलकाता, एजेंसी। अपने मधुर शब्दों के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलकाता के एक होटल में रविवार को अपनी नई पुस्तक 'ए वंडरलैंड ऑफ वरिड्स: अराउंड द वर्ड इन 101 एसेज' को पढ़ते हुए अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ मधुर बातों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कोलकाता में कई दिनों की भारी बारिश के बाद जब सुनहरे दिन की शुरुआत हुई, इस सुखाने मौसम में थरूर ने अपने सूक्ष्म हास्यपूर्ण अंदाज से पुस्तक प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने आकर्षक शब्दों और वाकपटु प्रस्तुतिकरण से एक ऐसा चित्र खींचा, जो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। इस कार्यक्रम के दौरान, 68 वर्षीय श्री थरूर ने न्यू टाउन में स्थित ताज सिटी सेंटर में कोलकाता की सुप्रसिद्ध गैर-लाभकारी ट्रस्ट प्रभा खेतान फाउंडेशन की पुस्तक रैक का अनावरण भी किया। इस मौके पर कांग्रेस सांसद श्री थरूर ने कहा, प्रभा खेतान फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है, जिसके साथ मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा, देशभर में पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था ने देशभर में काफी बेहतरीन काम किया है। बुक रैक लॉन्च पहल पर बोलते हुए थरूर ने कहा- उन्होंने जिस पुस्तक रैक का अनावरण किया है, यह पुस्तक रैक, भविष्य में देश भर में उसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में हर होटलों, केंद्रों या संस्थानों में मौजूद होंगे। उन्होंने कहा, प्रभा खेतान के लिए कुछ करना हमेशा समाजहित में होता है, क्योंकि यह संस्था हमेशा पुस्तक प्रेमियों को पुस्तकों के प्रति जुड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। उन्होंने फाउंडेशन के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, जिन्होंने ऐसे समय में पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखा, जब दुनिया मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से अभिभूत होती जा रही थी। उन्होंने कहा, जहां आज हम लैपटॉप, टैब्लेट, टैब्लिजोन या मोबाइल फोन स्क्रीन के अधिक आदी हो गए हैं। हम अब किताबें उठकर नहीं पढ़ना चाहते हैं। उस घड़ी में लगातार महिला पाठक इस संगठन से जुड़ती जा रही हैं। यह वास्तव में इस दुनिया में इस संगठन के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि का विषय है।

तेलंगाना में पुलिस के साथ गोलीबारी में छह माओवादी डेर

भद्राद्री कोटागुडम, एजेंसी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना जिले के वन क्षेत्र में हुई। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है। गोलीबारी में माओवादी संगठन के छह कैडरों को मार गिराया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडम जिले में वृहस्पतिवार को पुलिस और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्यों के बीच गोलीबारी में माओवादी संगठन के छह कैडरों को मार गिराया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना जिले के वन क्षेत्र में हुई। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है। गोलीबारी में माओवादी संगठन के छह कैडरों को मार गिराया गया।

दुकान का शटर बंद करते ही महिला की मौत

फरीदाबाद एजेंसी। फरीदाबाद में पवतीया कॉलोनी स्थित एक दुकान को बंद करते समय शटर में करंट उतरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान किशन के रूप में हुई है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के भाई की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतका के भाई मनोज ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह हरी विहार बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रहता है। उन्होंने अपनी बहन किशन की शादी 16 साल पहले पुष्पेंद्र के साथ की थी। पुष्पेंद्र पवतीया कालोनी चाचा चौक के पास रहता है। वहीं पर कपड़े की दुकान चलता है। वह उसकी बहन को पेशान करता था। आए दिन मारपीट की जाती थी। उसे जान से मारने की कोशिश भी की जा चुकी थी। घर से भी निकाल दिया था। पंचायत कर बहन के ससुराल वालों को समझाया गया। कुछ दिन तो वह ठीक रहता लेकिन फिर बाद में वही हलकती करने लगता। दो सितंबर को उसके बहनोई ने बहन को दुकान का शटर नीचे करने को कहा।

भाजपा सरकार का बड़ा फैसला: पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी



जयपुर, एजेंसी। भाजपा सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला किया। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह कदम भाजपा के...
नेशनल डेस्क: भाजपा सरकार ने

कल बुधवार को पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला किया। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह कदम भाजपा के...
नेशनल डेस्क: भाजपा सरकार ने

गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद बताया कि इस फैसले से पुलिस बल में महिलाओं से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशीलता आएगी और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा,

महाराष्ट्र में नवंबर में होंगे विधानसभा चुनाव, तैयार रहें कार्यकर्ता: एकनाथ शिंदे

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होंगे। सीएम शिंदे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे के चंदीवली निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। उन्होंने कहा, दो महीने बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए हमें दिलीप लांडे के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। हमें उन्हें भारी बहुमत से जिताने के लिए उनका समर्थन करना चाहिए। सीएम शिंदे ने आगे कहा, वह शिवसेना और महायुति गठबंधन की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यह पहली बार है जब महायुति गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव की संभावित तारीख पर बात की है। इससे पहले एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 सितंबर 2024 है, लेकिन विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पार्टी के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस बीच अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी चुनाव से पहले लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं को लेकर राज्य में अपनी मजबूती को दिखाने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में तीन दल शामिल हैं, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी है। सूत्रों के अनुसार, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 150-160 सीटों पर दावा कर रही है।

मेडिकल कॉलेज के 800 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट को बंद करने की तैयारी

हमीरपुर, एजेंसी। डॉ. राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में संचालित 800 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट (पीएसए) को जल्द ही बंद किया जा सकता है। इस प्लांट के ऑडिट के लिए बनाई गई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इसे बंद करवाने बारे प्रपोजल उच्चाधिकारियों को भेज रही है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से 2 मेडिकल वाडों मेल और एक फीमेल वाड समेत गायनी वाड में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इन 3 वाडों में करीब 75 बिस्तर इस सप्लाई से कनेक्टड हैं परंतु मौजूदा समय में इनमें ऑक्सीजन की कंजेशन कम है और इस प्लांट पर लागत बहुत ज्यादा है। हर महीने देना पड़ रहा 4 लाख रुपए का बिजली बिल सूत्रों के मुताबिक इस अकेले प्लांट से हर महीने करीब 4 लाख रुपए का बिजली बिल कॉलेज प्रशासन की देनदारी बन जाता है। इस कारण कॉलेज प्रशासन पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अब कॉलेज प्रशासन



द्वारा अपना और सरकार का खर्चा कम करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए इन वाडों में ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी, जिस पर प्रशासन चला खर्चा काफी कम आएगा। यह भी सामने आया है कि प्लांट से बहुत मात्रा में ऑक्सीजन जैनेरेट होती है और इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु खर्चा ज्यादा आता है। हालांकि कॉलेज में ऐसे 3 प्लांट स्थापित किए गए हैं,

परंतु इनमें सबसे बड़ा प्लांट 800 एलपीएम का है, 2 प्लांट सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
कोविड काल के दौरान स्थापित किए गए थे प्लांट: बता दें कि कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते इन प्लांटों को स्थापित किया गया था। उस समय जिले का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान होने के चलते अधिकांश मरीजों को यहां भर्ती किया

जाता था और इन प्लांटों का बेहद महत्व था, परंतु अब वाडों में ऑक्सीजन की जरूरत काफी कम लोगों को पड़ती है, इसलिए प्रशासन इस तरह का फैसला ले रहा है। कालेज के पास अपने करीब 1 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, उन्हें रिफिल करवाकर जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी।
प्लांट को बंद किए जाने पर चल रहा विचार : एमएस: इस बारे में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि कॉलेज में चल रहे 3 प्लांटों से 1 प्लांट 800 एलपीएम पीएसए को बंद किए जाने पर विचार चल रहा है। इसकी प्रपोजल वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा रही है। इस पर खर्चा बहुत आ रहा है और जितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, मरीजों के हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज्यादा हैं, उनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी।

गाजा में 187,000 बच्चों को पोलियो टीका लगाया गया: संयुक्त राष्ट्र

वाशिंगटन, एजेंसी। तीन दिवसीय पोलियो टीकाकरण अभियान के पहले चरण में गाजा पट्टी के 187,000 बच्चों को पोलियो टीका लगाया गया। टीका लगाए गए सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र ने दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स (ओसीएचए) ने बुधवार को कहा कि अब यह अभियान गुरुवार से तीन दिनों के लिए गाजा के दक्षिणी क्षेत्र में शुरू होगा, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र में चलाया जाएगा। 640,000 से अधिक बच्चों को टीके की दो खुराक (प्रत्येक खुराक चार सप्ताह के अंतराल पर) देने का लक्ष्य रखा गया है। ओसीएचए ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महादेशिक टेड्रोस एडनोम वेब्रेयेसस ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार से अब तक 187,000 बच्चों को टीका लगाया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने कहा, अभियान के शेष चरणों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचर्ष विराम आवश्यक है, अन्यथा हम गाजा के बच्चों की सुरक्षा करने में विफल हो जाएंगे और अन्य बच्चों को खतरों में डाल देंगे। यह अभियान 10 महीने के बच्चे के पोलियो से आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाने के बाद शुरू किया गया था। ओसीएचए ने कहा कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए मध्य गाजा में 510 टीमें तैनात की गईं। इसमें 40 हेल्थ पार्टनर भाग ले रहे हैं। 17 स्वास्थ्य सेवा केन्द्र टीकाकरण संचालित



कर रहे हैं और 23 अभियान के बारे में समुदायों को जानकारी दे रहे हैं। गौरतलब है कि गाजा में लड़ाई जारी रहने के बावजूद टीकाकरण किया जा रहा है। हमारा नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 42 लोग मारे गए हैं तथा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 40,861 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने बुधवार को लिखा, बहुत बढ़िया प्रगति! गाजा के मध्य क्षेत्रों में हर दिन, अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो के खिलाफ टीके लगा रहे हैं। पोलियो अभियान की सफलता के बावजूद, स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने, गाजा में बंधकों को रिहा करने तथा इजरायल की जेलों में बंद अनेक फिलिस्तीनियों को वापस लाने के कूटनीतिक प्रयास विफल हो रहे हैं।

जॉर्जिया के स्कूल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोगों की मौत, 30 घायल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के जॉर्जिया में एक हाई स्कूल में बुधवार को ताबड़तोड़ फायरिंग में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। विंजर ब अपालाची हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों के अलावा 30 लोग घायल भी हुए हैं। स्कूल के प्रवक्ता ने बताया कि घटना नियंत्रण में है और छात्रों को दोपहर में छुट्टी दे दी गई। एजेंसी ने एक प्रत्यक्षदर्शी छात्र सजिनो काल्डेरा के हवाले से बताया गया कि वह रसायन विज्ञान की कक्षा में था, जब उसने गोलियों की आवाज सुनी। 17 वर्षीय काल्डेरा ने बताया कि उसके शिक्षक ने दरवाजा खोला और एक अन्य शिक्षक दौड़कर आए और उन्हें दरवाजा बंद करने के लिए कहा क्योंकि वार एक शख्स

गोलीबारी कर रहा था। जब छात्र और शिक्षक कमरे में इकट्ठे हुए तो किसी ने उनकी क्लास के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और उसे खोलने के लिए कई बार चिल्लाया। जब खटखटाना बंद हुआ, तो काल्डेरा ने और अधिक गोलियों की आवाज और चीखें सुनीं। बता दें कि अमेरिका में पिछले दो दशकों में स्कूलों और कॉलेजों के अंदर सैकड़ों गोलीबारी के मामले देखने को मिले हैं। इनमें सबसे घातक 2007 में वर्जीनिया टेक में हुआ, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस नरसंहार ने अमेरिकी का कानूनों और अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन पर तीखी बहस छेड़ दी थी, जो हथियार रखने और धारण करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। व्हाइट



हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है और उनका प्रशासन जानकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना जारी रखेगा क्योंकि हमें अधिक जानकारी मिलती है। अमेरिका में जॉर्जिया के पास अपालाची हाईस्कूल में बुधवार

(स्थानीय समयानुसार) को गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना के पीड़ितों के प्रति व्हाइट हाउस और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही बाइडेन ने रिपब्लिकन से बंदूक हिसा को रोकने के लिए मदद मांगी

ट्रम्प बोले- चुनाव जीता तो यूएफओ की तस्वीरें जारी करूंगा

वाशिंगटन, एजेंसी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो यूएफओ से जुड़ी तस्वीरें और फुटेज जारी करेंगे। ट्रम्प ने ये दावा मंगलवार को किया है। ट्रम्प ने अमेरिकी पौडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से बात करते हुए कहा कि वे एलियंस के साथ हुई संभावित मुठभेड़ों के फुटेज जारी करेंगे। दरअसल पौडकास्टर फ्रिडमैन ने ट्रम्प से पूछा था कि बहुत से लोग यूएफओ की तस्वीरों में बहुत रूचि लेते हैं। पेंटागन ने भी कई वीडियो रिलीज किए हैं और फायटर पायलट्स की कई रियोरिंसे भी सामने आई हैं। कई लोग दावा करते हैं कि पेंटागन के पास ऐसे कई फुटेज हैं। ऐसे में क्या आप पेंटागन से और अधिक फुटेज जारी करने के लिए कहेंगे? इस सवाल के जवाब में ट्रम्प ने कहा कि हां मैं ऐसा जरूर करूंगा। मुझे ये करना काफी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा करना ही होगा।
पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या पर आयोग बनाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प ने पौडकास्टर के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो कैनेडी की हत्या पर एक राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। ये आयोग कैनेडी की हत्या से संबंधित सभी दस्तावेज जारी करेंगे।